

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली



कम संख्या

१२५

काल नं०



२२५२२

५३५

खण्ड

श्री जुगलकिशोरजी सुखतम को सकार्फि

5/10





Kushala Astrological Research Institute

SERIES NO I.

TRAILOKYA PRAKASHA

OF

Shri Hemaprabha Suri
The Disciple of Shri Devendra Suri

EDITED

*From manuscripts in Jain and Nagari
characters, with Hindi commentary*

BY

Ram Sarup Sharma
Director, Kushala Astrological Research Institute
Model Town LAHORE.

And with English Foreword


BY

Dr. Banarsi Das Jain, M.A., Ph.D., (London),
Reader in Hindi, University Oriental College,
Lahore.

First Edition

1946

500 Copies



1219

DE 2

श्रीदेवेन्द्रसूरिशिष्यश्रीहेमप्रभसूरिविरचितः

त्रैलोक्यप्रकाशः

स च

जैनदेवनागरीलिपिलिखितानि पत्रादर्शपुस्तकानि
पर्यालोच्य पाञ्चनदप्रान्तस्थलवपुरोपकण्ठ-
वर्तिमाडलटाऊनवसत्यन्तर्गत-

श्रीकुशज्ञअस्ट्रालोजीकजरिसर्चइन्स्टीच्यूट

इत्याख्यस्य अनुसन्धानकार्यालयस्य

अध्यक्षेण

ज्योतिर्विद्याविशारदेन

आचार्यश्रीरामस्वरूपशर्मणा

परिष्कृत्य

नानार्थावगाहिन्या भूमिकया हिन्दीव्याख्यया च

सह सम्पादितः

तस्येदं प्रथमं संस्करणम् १९४४

५०० प्रतयः

प्रकाशक:-लाखा जीवनदत्त अथर्वज्ञ इण्डियन हऊस, गयापत रोड, लाहौर।
मुद्रक:-लाखा जीवनदत्त इण्डियन नेशनल प्रैस, गयापत रोड, लाहौर।
इस पुस्तक का कायाज, मैसर्स रामलाल कपूर ऐण्ड सन्स से कस्ट्रोल् रेड
पर प्राप्त किया।

Dedicated


TO



Shri Shri 108 Shri Mahant GIRDHARI DASS JI

E. M. L. J.,

BHUMAN SHAH, (Distt. Montgomery)



समर्पणम्

जनताजनितानन्दो

गुणगणकन्दो वदान्यमूर्धन्यः ।

विलसति बी. ए. विरुदो

गिरिधारीदाससन्महन्तोऽयम् ॥ १ ॥

भुम्भनशाहस्थाना-

ध्यक्षो नियतेन्द्रियैकविख्यातः ।

एम्. एल. ए. चिरचरितः

सद्गुणभरितश्चिरं जयतु ॥ २ ॥

तस्योन्माहशतानां

कृतज्ञतापाशमन्त्रः ।

रामस्वरूपशर्मा

समर्पयत्येतमुपहारम् ॥ ३ ॥

उज्ज्वल-कीमलप्रकृतिः

कृती मनस्वी शरण्यमूर्धन्यः ।

विविधोपकारयूपो

विलसति लक्ष्मणसरूपोऽयम् ॥ १ ॥

प्राच्यप्रतीच्यविद्या-

नन्दननिष्कृतविहारिविवुधेन्द्रः ।

प्राच्यमहाविद्यालय-

सरूलाध्यक्षः शतं समा जयतु ॥ २ ॥



Dr. LAKSHMAN SARUP,
M. A., D. Phil., (Oron),
OFFICIER D' ACADEMIE (FRANCE)


Principal,

ORIENTAL COLLEGE, LAHORE

Who performed the opening Ceremony of the

Kushal Astrological Institute,

LAHORE.



ॐ श्रीगणेशाय नमः

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
१ मंगलाचरणा	१
२ लग्नप्रशंसा	२-६
३ लग्नाश्रितषड्वर्गशुद्धिप्रशंसा	७
४ लग्नप्रयोजन	८
५ मन्थनामप्रयोजन	९-१०
६ सौम्य-कर ग्रह नाम	११
७ बुध—इन्दु का पाप ग्रह के साथ पड़ने का फल तथा स्त्री पुरुष संज्ञा	१२
८ ग्रहों की अवस्था	१३
९ स्त्रीग्रह निश्चय होने पर ग्रहों का अवस्थाविशेष	१४-१६
१० ग्रह बल में मात्र नाम वर्णन	१७-१८
११ ग्रहों की जलचरादि संज्ञा	१९
१२ ग्रहों की प्रातः कालादि संज्ञा	२०
१३ ,, दृष्टिसंज्ञा	२१
१४ ,, प्रकृतिसंज्ञा	२२
१५ ,, रससंज्ञा	२३
१७ ,, न्यूनाधिकबलसंज्ञा	२४
१८ ,, द्विपदादिसंज्ञा	२५
१९ ,, विप्रादिवर्ग्यासंज्ञा	२६
२० ,, राजा आदिसंज्ञा	२७
२१ ,, आकृतिसंज्ञा	२८
२२ ,, रक्तादिवर्ग्यासंज्ञा	२९
२३ ,, हस्वादिसंज्ञा	३०
२४ ,, मर्त्यलोकादिसंज्ञा	३१
२५ ,, सुवर्गादि धातु संज्ञा	३२-३३
२६ ,, जलादिस्थानसंज्ञा	३४-३५

२७	भौम स्वामी वस्तुपं	३६
२८	शानि स्वामी	३७
२९	बुध-शुक्र	३८
३०	सूर्य-चन्द्र-बुध	३९
३१	गुरु	४०
३२	जीवन्तिन्तानिश्चय होने पर जीवन्तिन्तासंज्ञा	४१-४२
३३	जीवादिचिन्तन में विशेष दृढता	४३
३४	भाव दौर्बल्य विचार	४४
३५	जीवादि चिन्तन में राजादि विशेष विचार	४५
३६	ग्रहों का दशाज्ञानविचार	४६
३७	ग्रहों के स्वामी	४७
३८	मांस आदि के स्वामी	४८
३९	ज्ञान आदि के स्वामी	४९
४०	ग्रहों की नीरसादिसंज्ञा	५०
४१	ग्रहों का छः बल विचार	५१
४२	” स्थिति बश से बलविचार	५२-५५
४३	” दिन रात्रि बल विचार	५६
४४	” तिथिस्मरन्ध से बलविचार	५७
४५	” प्रत्येक चार घंटे के बाद बलविचार	५८
४६	” वर्षादिबलविचार	५९
४७	” दृष्टिविचार	६०
४८	” बक्रा मार्गों आदि फल विचार	६१
४९	” दशाओं का विशेष बल	६२
५०	” नीचादि में स्थित होने से अशुभ	६३-६४
५१	” दीप्तादि अवस्था विचार	६५-६६
५२	” मैत्री-शत्रु विचार	६७-६८
५३	राहु का उच्छ्वनीचादिकथन	६९
५४	मेवादि-संज्ञा विचार	७०-७६
५५	षट् वर्गताम	८९
५६	राशिस्वामी	९०
५७	होराविचार	९१
५८	प्रेक्काण तथा नवांशविचार	९२

५६	त्रिशांशविचार	६३
६०	भावसंज्ञा	६४
६१	भावपर्याय	६५-६८
६२	केन्द्रादिसंज्ञा	६६-१००
६३	राशियों का दिनरात्रिवल	१०१
६४	महों का उच्चनीच राशि-अंशवर्णन	१०२-१०३
६५	भावरशिग्रहबलविचार	१०४-११०
	इति लमज्ञानम्	
१	चन्द्रबुधयोगविशेषफल	
	धनी होने का योग	१११-११२
२	सुख तथा धन योग	११३
३	पुत्रोत्पत्ति होने पर धन योग	११४-११५
४	शत्रुरोगभय	११६
५	स्त्रीप्रभुत्वयोग	११७
६	२२ वें वर्ष के तीसरे अंश में योग	११८
७	धनयोग	११९
८	राज्यप्राप्तियोग	१२०
९	प्रश्न काल में शत्रु मित्र गृह में स्थितिफल	१२१
१०	अधिकधनलाभयोग	१२२
११	राजा से धनव्यययोग	१२३
	नवांश के अभिप्राय से कथन	
१२	धन नवांश में चन्द्रफल	१२४
१३	चतुर्थ " " "	१२५
१४	सुख " " "	१२६
१५	रिपु " " "	१२७
१६	भार्याश में चन्द्र फल	१२८
१७	मृत्यु अंश में " "	१२९
१८	पुत्र्यस्थानांश में " "	१३०
१९	" " " "	१३१
२०	भार्याश में " "	१३२
२१	लाभांश में " "	१३३
२२	व्ययांश में " "	१३४
२३	जन्मकुण्डली स्थित शुभ पाप ग्रह स्थितिफल	१३५

	जन्मलग्न से धन प्राप्ति वर्षविचार	१३६
२५	” ” अशुभ फल प्राप्ति ”	१३७
२६	” ” मिश्र ” ” ”	१३८
२७	” ” प्रहदशाफलक्रम	१३९
२८	कार्यसिद्धियोग	१४०-१४१
२९	पादयोग-अर्द्धयोग	१४२
३०	न्यूनयोग	१४३
३१	पूर्णायोग	१४४
३२	कार्य साधन में योग चतुष्टय	१४५-१४६
३३	विविध योग प्रह फलतारतम्य कथन राजयोग	१५०-१५६
३४	भावों की श्रेष्ठता	१६१-१६२
३५	राजयोग	१६३-१६६
३६	कोटिपतियोग	१७० से १७७
३७	द्वादश भावों से फलविचार	१७८-१६१
३८	शुभ फल प्रार्थना मंगलाचरणा	१६२
३९	शुभनक्षत्र	१६३
४०	अशुभ नक्षत्र	१६४
४१	मध्यम नक्षत्र	१६५
४२	शुभकुरवाकथन	१६६
४३	नन्ददिशितियोग	१६७
४४	राजयोग	१६८
४५	वर्षादि तथा दिवसादि जन्मफल	१६९
४६	मध्यरात्रिजन्मफल	२००
४७	विजययोगफल	२०१
४८	वर्षान्त तथा दिनान्त जन्मफल	२०२
४९	मास में जन्मफल	२०३
५०	शनि बुधवार फल	२०४
५१	कन्या की रविवारोत्पत्ति में विशेषफल	२०५
५२	रविवारफल	२०६
५३	शुक्रवार ”	२०७
५४	गुरुवार ”	२०८
५५	उत्तम मध्यम अधम फल	२०९

५६	गौरवर्ष प्रश्नकर्ता के चत्तर में विचार	२१०
५७	कृष्ण " " " "	२११
५८	घातप्रणित गात्र " "	२१२
५९	छिन्नमिन्न " " " "	२१३
६०	पृष्ठोदयादिलग्नफल	२१४
६१	भीत तथा रोगी गात्र " "	२१५
६२	अभीष्ट सिद्धि योग फल	२१६
६३	अभ्युदय काल कथन	२१७-२२२
६४	सिंह लग्न में विशेष फल कथन	२२४
६५	भाव के शुभाशुभ फल कथन का प्रकार	२२५
६६	केन्द्र नामगुणवर्णन	२२६
६७	भावों के दक्षिण—उत्तर संज्ञा वर्णन	
६८	" फलकथन	२२७-२३२
६९	कौन वर्ष हमारे लिये शुभ है इस प्रश्न में फलकथन	२३३-२४०
७०	भावफलकथन	२४१
७१	भावों की अवस्था का वर्णन तथा पुरुष की अवस्था का फल	२४२-२५४
७२	शास्त्र प्रशंसा तथा आत्मप्रशंसा	२५५

चतुर्थभाव में निधानप्रकरण

१	सम्पत्तिलाभयोग	२५६-२५८
२	पूर्वजों की सम्पत्ति का योग	२५९
३	" अन्य प्रकार से सम्पत्ति प्राप्ति	२६०-२६८
४	गृहभागस्थितिवश से सम्पत्तिफल	२६९-२७४
५	दृष्टिवश से ऊपर नीचे निधि	२७५-२७७
६	कितने बार खोड़ने से निधि मिले	२७८
७	निधि का विशेष स्थान निर्याय	२७९-२८०
८	भूमि में कितनी दूरी पर निधि है	२८१-२८२
९	निधि की वस्तु का निर्याय	२८३-२८५
१०	निधि मकान के अन्दर है कि बाहर	२८६
११	राशियों की बाह्य आभ्यन्तर संज्ञा	२८७
१२	गृहमध्य में निधिस्थितियोग	२८८
१३	निधि किस दिशा में है १.	२८९-२९१

१४	ककसंख्यानिधियोग	२६२
१५	पुष्यशील की निधि का योग	२६३
१६	कितने पात्रों में निधि है ?	२६४
१७	पात्र किस धातु से बने हैं	२६५
१८	किस भाग में निधि है ?	२६६
१९	निधिस्थान का चक्रनिर्माण	२६६
२०	प्रकारान्तर से दशाज्ञान	२६८
२१	ग्रन्थप्रशांसा	२६९

चतुर्थभाव में भोजनप्रकरण

१	मंगलाचरया	३००
२	षट् रसों का सुन्दर भोजन योग	३०१
३	अवश्य भोजन प्राप्ति योग	३०२
४	भोजन की प्राप्ति न हो बल्कि शस्त्र से चोट लगे	३०३
५	अधिक लक्ष्य होने का योग	३०४
६	कटु तथा मांस भोजन	३०५
७	सरस—नीरस—कलहयुक्त भोजन योग	३०६
८	कषाय तथा मधु भोजन योग	३०७
९	शुभ या शोक स्थान में भोजन योग	३०८
१०	सुन्दर स्त्रियों द्वारा खट्टे रस भोजन का योग	३०९
११	अनादर के साथ दासियों द्वारा भोजन का योग	३१०
१२	तेलभोजनयोग	३११
१३	राजगृह अथवा नीच गृह में भोजन योग	३१२
१४	भोजन कितनी बार मिलेगा ?	३१३
१५	सम्मानपूर्वक सुन्दर स्त्रियों द्वारा परोसा हुआ भोजन मिले	३१४
१६	दानरूप में बस्त्रों सहित भोजन प्राप्ति हो	३१५
१७	सुवर्ण बस्त्रभोजन योग	३१६
१८	बिवाह रेखियों गीत वाद्यादि होते समय भोजन मिले	३१७
१९	बहिन या पिता के घर भोजन प्राप्ति का योग	३१८
२०	पुत्र-पौत्र शत्रु अथवा स्त्री स्नेह से युक्त	३१९
२१	होटल आदि भोजन का योग	३२०
२२	स्त्री अथवा स्वजनों के पास भोजन योग	३२१

२३	विजय प्राप्त करने पर स्नेहपूर्वक भोजन का योग	३२२
२४	कैसे मकान में भोजन मिलेगा ?	३२३
२५	भोजनविषयविचार	३२४
२६	भोजनदिशाविचार	३२५
२७	रसविचार	३२६
२८	ग्रन्थप्रशंसा	३२७

ग्रामपृच्छाप्रकरण

१	नगरी के चारों तरफ पर्वत का योग	३२६
२	नगरी में विशाल कूच वप्रयोग	३३०—३३१
३	बागों से युक्त नगरी का योग	३३२
४	कितने गढ़े होंगे ?	३३३
५	समृद्ध नगरी का योग	३३४
६	धर्म स्थानादि से युक्त होने का योग	३३५
७	वृक्ष, ईंटों के पुख, छप्पड़ होने का योग	३३६
८	सुन्दर भवन तथा सड़कों से युक्त योग	३३७
९	सुरक्षित नगरी का योग	३३८
१०	सुवर्ण कलशों से युक्त ग्राम योग	३३९
११	कितने हाथ ऊँचा किला होगा ?	३४०
१२	धन शालिनी नगरी का योग	३४१
१३	ग्रन्थ प्रशंसा	३४२

पुत्रप्रकरण

१	पुत्र-पुत्री योगविचार	३४३—३४५
२	कब प्रसव होगा	३४६—३४७
३	पुत्र अथवा पुत्री योग	३४८
४	अपत्य जीवित रहेगा या नहीं	३४९—३५०
५	दिन अथवा रात्रि में जन्मयोग	३५१—३५२
६	इस वर्ष में सन्तति होगी या नहीं	३५३—३५४
७	सन्तानोत्पत्ति का अद्भुत योग	३५५—३५६
८	अवश्य भावी पुत्र योग	३५७
९	कितने मास शेष होंगे ?	३५८

१०	सन्तति हीन होने का योग	३५६
११	पुत्रजन्म का योग	३६०—३६२
१२	पुत्र मृत्यु योग	३६३
१३	कितना एक समय में पैदा होगा	३६४—३६५
१४	द्वयोत्पत्तियोग	३६६
१५	कितनी सन्तानें होंगी	३६७
१६	स्त्रीग्रह से कन्या और पुरुष ग्रहों से पुत्रसंख्याविचार	३६८
१७	सन्तानायुःकथन	३६९
१८	राजतुल्य पुत्र योग	३७०
१९	एक-दो-तीन-चार पुत्र पुत्री का विशेष योग	३७१
२०	छः सात पुत्र पुत्री योग	३७२
२१	प्रथमप्रशंसा	३७३

छठा रोगप्रकरण

१	रोगी के समीप कितने स्त्री पुरुष हैं ?	३७४-३७५
२	रोगी किस हालत में है ?	३७६
३	रोगी कितनी दूर है	३७७
४	रोगनाम कथन—रक्त रोग	३७८
५	अतिसार तथा न्यूनबल योग	३७९
६	सन्निपात रोग योग	३८०
७	सन्ताप अथवा चित्तरोग	३८१
८	कुष्ठरोगयोग	३८२
९	हस्तपादकम्पन-वायुरोग	३८३
१०	औषधिविचार	३८४
११	वैद्यौषधिविचार	३८५
१२	रोग-रोगी-वैद्य-औषधि की मैत्री	३८६
१३	रोगी जीवन योग	३८७
१४	सन्निपात ज्वर से मृत्यु	३८८
१५	भूख-अजीर्ण से मृत्यु	३८९
१६	रोगी जीवन योग	३९०-३९१
१७	साँप द्वारा मृत्युयोग	३९२
१८	मृत्युयोग	३९३
१९	मृत्यु से बच जाने का योग	३९४

सप्तमप्रकरण

१	पति तथा पत्नी की आज्ञा पालन का योग	३६५
२	समान प्रीति योग	३६६
३	परस्पर प्रीति योग	३६७-३६८
४	प्रधान स्त्री योग	३६९

चतुर्भंग्या प्रीतिः

१	पति से उत्तम होने का योग	४००
२	रंक कुलोत्पन्न कन्या भी रानी होती है	४०१
३	मृगा भार्या होने का योग	४०२
४	भार्या मृत्यु योग	४०३-४०४
५	दोनों पत्नी सुन्दर होने का योग	४०५
६	कितनी स्त्रियाँ होंगी ?	४०६
७	स्व-पर स्त्री सुख योग	४०७
८	सुन्दर स्त्री योग	४०८
९	अवस्था वर्णन	४०९
१०	सुन्दर होने का योग	४१०
११	स्त्री स्वभाव योग	४११-४१२
१२	स्त्री का आचार कैसा है ?	४१३
१३	निर्दोष कन्या योग	४१४-४१५
१४	दूषित कन्या योग	४१६-४१८
१५	स्त्रीप्रसव ज्ञान	४१९-४२०
१६	अन्य पुरुष से सन्तान	४२१
१७	अपने पति से सन्तान	४२२
१८	मिश्र सन्तान योग	४२३
१९	गर्भपितृनिर्णय	४२४-४२७
२०	स्त्री पुरुष में प्रेम तथा अप्रेम	४२८-४२९
२१	स्त्री प्रकरण समाप्त	४३०

स्त्रीजातक

१	स्त्री का पति से दुर्व्यवहार	४३१
२	पतिद्वेषिणी स्त्री	४३२
३	त्रिषकन्या	४३३
४	विधवायोग	४३४

५	दुर्भगा तथा सुभगा कन्या लक्षण	४३५
६	स्त्रीसम्पत्ति योग	४३६
७	अन्यपति की इच्छा	४३७
८	पति के साथ स्वेच्छा पूर्वक रमण	४३८
९	पतिपरित्यक्ता योग तथा यौवन में वार्द्धक योग	४३९
१०	पतिन्यक्ता योग, पतिमृत्युयोग, सौभाग्यवतीयोग	४४०
११	योनिदोषवती स्त्रीयोग तथा पतिप्रिया स्त्रीयोग	४४१
१२	ऋतुकाल में वर्ज्य नक्षत्र	४४२
१३	स्त्रीरतिमुखयोग	४४३
१४	युवक को स्त्रीमुखयोग	४४४
१५	दुःख मुख योग तथा केवल मुखयोग	४४५
१६	मैथुनमुख	४४६-४४७
१७	सुवासित मैथुन	४४८
१८	आनन्दशून्य मैथुन	४४९
१९	तीन बार मैथुन	४५०
२०	उत्तम तथा जीर्ण देवालय में मैथुन	४५१
२१	रसोई घर में समय मैथुन, जलाश्रय स्थान में सानन्द मैथुन	४५२
२२	बापी मैथुन तथा कुञ्ज मैथुन	४५३
२३	गर्त मैथुन, गोशाला मैथुन	४५४

परचक्रागमनप्रकरण

२४	शत्रु के आक्रमण तथा अनाक्रमण का योग	४५५-४५७
२५	शत्रु के लौटने का योग, तथा दो बार आने का योग, पराजय का योग	४५८
२६	शत्रु लौटने का योग	४५९
२७	शत्रु के आक्रमण तथा अनाक्रमण के योग	४६०-४६६
२८	मार्ग में शत्रु की मृत्यु	४६७
२९	शत्रु का मार्ग में लौटना	४६८

गमनागमनप्रकरण

१	आना जाना आसानी से तथा बिलम्ब से होना	४६९
२	यात्राज्ञान	४७०-४७५
३	गमनागमन की निष्फलता	४७६
४	पुत्र परदेश से कब लौटेगा ?	४७७

५	पुत्र का परदेस से शीघ्र लौटना	४७८-४८१
६	बिलम्ब के कारण	४८२
७	यात्री को घर में विश्राम	४८३
८	लगनेस के अनुसार पथिक की स्थिति	४८४
९	मार्ग में पथिक को अनिष्ट	४८५
१०	प्रवासी मनुष्य की मृत्यु	४८६-४८७
११	पथिक का रोगी होकर घर लौटना	४८८
१२	उदय तथा शुभ शकुन	४८९
१३	मार्ग में भय, चौर से उपद्रव	४९०-४९१
१४	मार्ग में तालाब, कूर्भाँ आदि	४९२
१५	मार्ग में महाभय का योग, राजा से निषि जाभ के योग	४९३
१६	राजगृह से लाभ, मार्ग में व्याधि	४९४
१७	मार्ग में शास्त्र से घात	४९५
१८	भय होने पर भी प्रहार तथा हानि न होना	४९६
१९	मार्ग में सानन्द मैथुन	४९७
२०	दो जगह तथा तीन जगह विश्राम	४९८
२१	गमनागमन का होना तथा न होना	४९९

युद्ध प्रकरण

१	युद्ध प्रकरणा का आरम्भ	५००
२	युद्धयोग	५०१-५०२
३	राजा का नाश	५०३
४	युद्धयोग	५०४-५०७
५	युद्ध न होने का योग	५०८, ५०९
६	युद्धयोग	५१०-५१२
७	युद्धनिर्याय	५१३
८	नागरभाव और याथिभाव	५१४
९	नागर राजा के जय तथा पराजय योग	५१५
१०	यायी द्वारा नगर का ग्रहण तथा अग्रहण	५१६
११	नगर वालों का जय तथा पराजय । स्थायी तथा यायी राजाओं के जयपराजय विचार	५१७-५४०
१२	राजाओं की परस्पर सन्धि	५४१
१३	युद्ध होने तथा न होने का विचार	५४२

१४	सेनापति नाश विचार	५४३
१५	राज्यनाश	५४४
१६	युद्धप्रवेशलग्न	५४५
१७	स्थायी और यायी राजा का जयपराजय	५४६
१८	मृत्युयोग आने पर बच जाना	५४७-५४८
१९	प्ररनकर्ता के शत्रु का पराजय	५४९
२०	सेना का आघात	५५०
२१	भाई का मरण, मामा को आतङ्क, पुत्रनाश	५५१
२२	स्त्रीनाश, शरीरघात, मृत्यु	५५२
२३	द्विजनाश	५५३
२४	बलवान शत्रु का नाश	५५४
२५	युद्ध प्ररन में धन का लाभ	५५५
२६	ग्रहदृष्टिविचार	५५६-५६१
२७	कुला और अकुला विधियां	५६२
२८	कुल और अकुल मंड	५६३
२९	कुल और अकुल नक्षत्र	५६४
३०	यायी और स्थायी का जय तथा परस्पर सन्धि का निर्णय	५६५
३१	अह्ण गगाना से जयनिर्णय	५६६
३२	अश्व, शस्त्र आदि का बल	५६७
३३	गजाकार चक्र	५६८-५७०
३४	गजचक्र से जय निर्णय	५७१
३५	गज चक्र से मृत्यु और भय	५७२
३६	गजत्याग	५७३
३७	सेनाभूषण हाथी	५७४
३८	अश्वकार चक्र	५७५-५७६
३९	अश्वकार चक्र से जयनिर्णय	५७७
४०	महायुद्ध में विभ्रम, भंग, हानि	५७८
४१	अश्वप्रशंसा	५७९
४२	खड्गचक्र	५८०-५८२
४३	खड्गचक्र से जयनिर्णय	५८३
४४	धनुर्बाणचक्र	५८४
४५	धनुर्बाणचक्र से युभाशुभ	५८५

५६	धनुर्वाणचक्र से मृत्यु, जय, भंग और धनक्षय	५८६—५८६
५७	कुन्तचक्र और उससे शुभाशुभज्ञान	५९०—५९१
५८	द्वादश पत्रों का चक्र	५९२
५९	महामारी भूमि उससे जयाजय निर्णय	५९३
६०	रुद्रभूमि उससे जयाजय निर्णय	५९४ ५९५
६१	क्षेत्रपाली भूमि उससे जयाजय निर्णय	५९६—५९८
६२	शरीर छाया से आक्रमण में श्रेष्ठ दिशा का ज्ञान	५९९
६३	सूर्य, चन्द्र, योगिनी, आदि का दिग्विचार	६००—६०१
६४	नरचक्र	६०२—६०४
६५	नरचक्र से घात-अघात विचार	६०५ ६१२

सन्धिविग्रहप्रकरण

१	शत्रु-विग्रह योग	६१३—६१५
२	सन्धि में लाभ	६१६—६१७
३	सन्धि में हानि	६१८
४	सन्धि-विग्रह योग	६१९

अष्टमप्रकरण

१	वृत्तज्ञान	६२०—६२२
२	वृत्तों का बल तथा अबल	६२३
३	स्त्री का पुष्पवती न होना	६२४
४	स्त्री का पुष्पवती होना	६२५
५	पुष्प के वर्ग	६२६—२७
६	योनिस्थान में ग्रहों के स्वभाव से पुष्पज्ञान	६२८—३०

दोषप्रकरण

७	सूर्य और चन्द्रमा से पीड़ा	६३१
८	मंगल से पीड़ा	६३२
९	बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु से क्लेश	६३३—३४
१०	पाप ग्रहों से क्लेश	६३५ ६३८
११	उच्च नीच विचार	६३९
१२	केन्द्र त्रिकोण से दोष विचार	६४०
१३	अस्त्रग्रह तथा नीचग्रहविचार	६४१
१४	क्षेत्रपालकृत, यत्कृत तथा गोत्र कृत दोष	६४२
१५	शाकिनी आदि दोष	६४३—६४५

१६	पीड़ा, ताप, आदि के दोष	६४६-४७
१७	क्षेत्रपाल आदि से दोष	६४८-४९
१८	जलाश्रय आदि दोष	६५०
१९	स्त्री कृत आदि दोष	६५१
२०	स्वगोत्र कृत आदि दोष	६५२

जीवितमृत्युप्रकरण

१	रोग होने पर भी जीना	६५३-५४
२	मनुष्य की मृत्यु	६५५-६६१
३	मनुष्य का जीवन	६६२
४	नौका-प्रश्न	६६३
५	रोग से मृत्यु का न होना	६६४
६	शस्त्राहत मनुष्य का भी जीना	६६५
७	रोगी का जीना	६६६
८	प्रेत योग से मनुष्य की मृत्यु	६६७-६८

प्रवहणप्रकरण

१	नौकागमन पर चार प्रश्न	६६९
२	नौका का न डूबना	६७०
३	नौका का भ्रमण करना	६७१
४	पोत स्वामी की मृत्यु	६७२
५	पोत का डूबना	६७३
६	व्यवहार से लाभ न होना	६७४
७	व्यवहार से लाभ	६७५
८	जल से लाभ	६७६
९	परदेश की वस्तु के व्यवहार से लाभ	६७७-७८
१०	बड़ा प्रश्न में दूसरा प्रकार	६७९-६८३

नवम प्रकरण

१	प्रब्रज्याकारक योग	६८४ ६८५
२	व्रतत्याग	६८६
३	प्रब्रज्या कारक योगों की दृढ़ता तथा निर्बलता	६८७
४	रोग के कारण दीक्षा	६८८
५	भोजन के लिये व्रत	६८९
६	शान्तिचित्त से प्रब्रज्या ग्रहण	६९०

७	दीक्षा योग	६६१-६६
८	शाक्त योग	६६७
९	स्त्री परिहार	६६८
१०	पाप योग	६६९
११	जैन मार्ग योग तथा ब्रह्महत्या योग	७००
१२	पुण्यशील राजा होने का योग	७०१
१३	धार्मिक राजा तथा राजपूज्य गुरु होने का योग	७०२
१४	कीर्त्तामिद्धि योग समाप्त	७०३

दशमप्रकरण

१	राजयोग	७०४
२	पदप्राप्ति योग	७०५
३	राजयोग	७०६-७०७
४	पदच्युति और पदप्राप्ति	७०८
५	पद प्राप्ति और पदच्युति	७०९
६	उच्च पद प्राप्ति	७१०
७	अज्ञानक पद प्राप्ति	७११
८	इच्छामिद्धि न होना	७१२
९	पदप्राप्ति योग	७१३-७१४
१०	स्थिरपद, राज्यप्राप्ति, पदभ्रश	७१५
११	आकस्मिक राज्यप्राप्ति	७१६
१२	यशस्वी होना	७१७

वृष्टिप्रकरण

१	वृष्टिप्रकरण	७१८
२	वृष्टियोग	७१९-७२६
३	पादोनवृष्टि योग तथा अवृष्टियोग	७२७
४	अर्धवृष्टियोग	७२८
५	त्रिभागवृष्टियोग	७२९
६	दुर्मित्त और विद्युद्योग	७३०
७	वृष्टियोग	७३१-७३५
८	दुर्मित्तयोग	७३६
९	सुमित्तयोग	७३७-७३८
१०	दुर्मित्तयोग	७३९-७४०

११	सद्योत्पत्तियोग	७४१-७४४
१२	महावृष्टि-अनावृष्टि योग	७४५
१३	मूषक आदि का अधिकता में होना	७४६-७४७
१४	धान्योत्पत्ति योग	७४८-७५०
१५	लग्न से ईति का विचार	७५१
१६	भूमिमण्डल	७५२
१७	तेजमण्डल	७५३
१८	जलमण्डल, वातमण्डल	७५४
१९	तरुवफल	७५५-७६०
२०	मीन संक्रान्ति से मेष संक्रान्ति	७६१-७६३
२१	आषाढी पूर्णिमा से वृष्टिज्ञान	७६४-७६६
२२	वृष्टियोग	७६७-७६९
२३	अग्नियोग, पृष्ठयोग आदि	७७०-७७६
ग्यारहवां प्रकरण		
१	अर्घकाण्ड का प्रारम्भ	७७०
२	क्रेता और विक्रेता का विचार	७७८
३	लाभविचार	७७९
४	क्रयविचार	७८०
५	क्रेता और विक्रेता के सम्बन्ध से लाभालाभविचार	७८१-७८२
६	समर्घयोग	७८३
७	समर्घ-महर्घ योग	७८४-७८६
८	अन्य प्रकार से समर्घ-महर्घ योग	७८०-८२४
स्त्रीलाभप्रकरण		
१	कन्याप्राप्ति	८२५
२	स्त्रीलाभ	८२६-८२९
३	स्त्रीप्राप्ति	८३०
४	गुणवती स्त्री की प्राप्ति	८३१
५	शीघ्र स्त्रीलाभ	८३२
६	स्त्रीलाभ	८३३
७	कन्यालाभ	८३४-८३६
८	कन्याप्राप्ति, पतिप्राप्ति	८३७
९	कन्याप्राप्ति तथा वरप्राप्ति	८३८-८३९
१०	लक्ष्मीवान् वर, लक्ष्मीवती कन्या की प्राप्ति	८४०

११	परस्पर धनप्राप्ति	८४१
१२	बधूवरसमृद्धि	८४२
१३	स्त्री-पुरुष का प्रेमपूर्वक तथा वैरभाव से रहना	८४३
१४	दूसरी स्त्री को धन देना, तथा जार को सम्पत्ति देना	८४४
१५	स्त्रीपुरुष का परस्पर प्रेम	८४५
१६	नवोद्वा के साथ सुरत	८४६
१७	कन्या को पति को प्राप्ति	८४७-८४६
१८	कन्या-वर स्वस्थता	८५०

नष्टलाभप्रकरण

१	नष्ट लाभ प्रकरण का आरम्भ	८५१
२	नष्ट वस्तु लाभ योग	८५२
३	नष्ट वस्तु का लाभ तथा अलाभ	८५३-५६
४	नष्ट वस्तु को चोर से प्राप्ति तथा अप्राप्ति	८५७
५	नष्ट वस्तु का लाभ, चोर की मृत्यु	८५८
६	नष्ट वस्तु का अलाभ वा लाभ, नष्ट वस्तु का राजा के अधीन होना	८५६
७	नष्टवस्तुनिर्णय प्रकार	८६०
८	वस्तु का नष्ट न होना	८६१
९	नष्टवस्तुलाभ	८६२-८६३
१०	नष्टवस्तुस्थाननिर्णय	८६४-८६६
११	नष्टवस्तुलाभ	८६७

लाभप्रकरण

१	मेष आदि राशियों का अन्धधधिरादिविचार	८६८
२	शीघ्र लाभ विचार योग	८६९
३	शीघ्र लाभयोग, तथा दरिद्रता योग	८७०
४	लाभयोग	८७१-८८१
५	लाभ का अभाव	८८२
६	लाभ प्रकरण समाप्त	८८३
१	दिनचर्या फल	८८४
२	शास्त्र चुराने पर पाप	८८५
३	दिनफल तथा मासफल से सूर्य आदि का फल	८८६
४	विशोपक दृष्टि	८८७
५	सुन्दर भोजन प्राप्ति	८८८-८८९

६	सुन्दर भोजन, पुत्र और धन की प्राप्ति	८६०
७	रोग, संताप, स्त्रीसुख आदि	८६१
८	सुन्दर स्त्री सुख	८६२
९	मरणा तथा दृढ़ बन्धन	८६३
१०	शस्त्रबध	८६४-६६
११	पुण्यकर्म तथा विभव का उदय	८६७
१२	अकस्मात् पद लाभ	८६८
१३	निधि वस्त्रादि प्राप्ति	८६९
१४	शुभकार्यों में सदृश्य	९००
१५	बन्धन के लिये अवरोध	९०१
१६	मृत्यु योग होने पर भी रक्षा	९०२
१७	दिनश्रेष्ठ योग	९०३
१८	मृत्यु योग होने पर भी रक्षा	९०४
१९	मासफल	९०५
२०	ग्रहों का कवच, स्वगृह, मित्रादि योग	९०६
२१	प्रतापी और शत्रुओं से अधृष्य होने के योग	९०८
२२	दुस्विति, धननाश, पुत्रपीडा आदि योग	९०९
२३	शत्रुनाश आदि योग	९१०
२४	विशिष्ट पदादियोग	९११

गुरुफल

१	बृहस्पति के द्वादश राशियों में फल	९१२-१८
	शुक्रफल	
१	शुक्र के द्वादश राशियों में फल	९१६-२३
	बुधफल	
१	बुध के द्वादश राशियों में फल	९२४-९२६
	भौमफल	
१	भौम के द्वादश राशियों में फल	९२७-३०
	राहुफल	
१	राहु के द्वादश राशियों में फल	९३५-३८
	अंशकुरडलिका	
१	त्रिंशंशकुरडलिका	९३९-७४५

२	द्वादशांशकुण्डलिका	६४६-६४८
३	नवांशकुण्डलिका	६४६-६५०
४	हेमप्रभसूरिविषयक श्लोक	६५१-६५२
	अर्चकाण्ड	
१	शुभसमययोग	६५३-६५४
२	सुभिन्न और दुर्भिन्न योग	६५५
३	मुखसम्पत्तियोग	६५६
४	बृहस्पतिचंवार से सुभिन्न	६५७
५	सुभिन्न और त्रिमह का अभाव	६५८
६	राजमारी आदि उपद्रव	६५९
७	रसक्षय आदि	६६०
८	सुभिन्न, आरोग्य, सुवृद्धि	६६१-६६२
९	दुर्भिन्न और भय	६६३
१०	शुक्रास्तफल	६६४-६६५
११	महर्षयोग	६६८-६७०
१२	इति का उपद्रव	६७१
१३	महर्षयोग	६७२
१४	दुर्भिन्न और राजत्रिमह	६७३
१५	दुःस्थिति और राजत्रिमह	६७४-६७५
१६	सुभिन्न	६७६
१७	सुभिन्न-दुर्भिन्न	६७७-६६४
१८	त्रिकयोग	६६५
१९	पञ्चकयोग	६६६
२०	क्रयविक्रययोग	६६७
२१	क्रययोग	६६८
२२	विक्रययोग	६६९
२३	क्रयविक्रययोग	१०००-१००१
	मासार्चनार्चाः	
२४	महर्षयोग	१००२-१००५
२५	दौस्थ्ययोग	१००६
२६	सौस्थ्ययोग	१००७
२७	सुभिन्न	१००८-१००९
२८	दुर्भिन्न	१०१०
२९	नाक्षत्र	१०११

३०	दुस्थिति, दुर्भिक्ष	१०१२-१०१३
३१	क्रय-विक्रय-योग	१०१४
३२	दुर्भिक्ष	१०१५
३३	रोहिणी का शुभाशुभ फल आपाढीयोग	१०१६-१०२६
३४	आपाढीयोग से वृष्टि का होना अथवा न होना	१०२७-१०४८
३५	नक्षत्र क्रम से समर्घ-महर्घ तथा तिथि, छत्रभंग आदि योग	१०४६-१०६६
३६	चन्द्रमा के परिवेष से वृष्टिज्ञान	१०७०
३७	इन्द्रधनुष से वृष्टि ज्ञान	१०७१
३८	राशिक्रम से महर्घ आदि	१०७२-७४
३९	वारुणा परिवेष से वृष्टि	१०७५
४०	मर्ष के वृत्त पर बढ़ने से वृष्टि निर्णय	१०७६
४१	गङ्गरी के ऊर्ध्वाभिमुख होने से वृष्टिज्ञान	१०७७
४२	तक आदि के पात से वृष्टिज्ञान	१०७८
४३	महर्घ-ममर्घज्ञान	१०७९-१०८१
४४	अङ्क प्रकार से अर्घज्ञान	१०८२-१०८६
४५	मण्डलप्रकार से अर्घज्ञान	१०८७-११०६
४६	हैम प्रभ सूरि के अनुसार अर्घकाण्ड	१११०-१११४
४७	चैत्रार्घ	१११५-१११७
४८	अर्घशास्त्र की सत्यता	१११८
४९	आश्विन और आपाढ़ में अर्घ	१११९
५०	नक्षत्र क्रम से अर्घ	११२०-११२६
५१	राशि संख्या से अर्घ	११२७-११२८
५२	मङ्ग संख्या से अर्घ	११२९-११३३
५३	मङ्ग, नक्षत्र, राशि संख्या से अर्घ	११३४-११३६
५४	अर्घ त्रिगुण	३१३७
५५	अर्घ द्विगुण	११३८
५६	लब्धार्घ से घटा कर अर्घ निश्चय	११३९
५७	राशि, नक्षत्र, मङ्ग क्रम से अर्घ	११४०-११४८
६८	सोत्रका, माणिक्य, पल्लिका, आदि जानने का प्रकार	११४८-११५६
६९	धान्य महर्घ जानने के प्रकार	११५७-११५८
७०	पात्रापात्र को अर्घकाण्ड देने का फल आर अफल	११५९-११६०

FOREWORD

When a little over two years ago Prof. Ram Swarup Bhargava, Jotishacharya, founded the Kushal Astrological Research Institute at 52 C, Model Town, Lahore, he asked me to recommend an old work on astrology which he could publish from his institute. I happened to have in my possession at that time a manuscript of Hemaprabha Suri's *Trailokya-prakasa* belonging to the Jain Bhandar attached to the Svetambar temple, Ambala city. I suggested this work to Prof. Ram Swarup. He readily accepted it and the act of copying it was commenced at once. After two years' labour it is now published, and I am asked to write a foreword to it. Naturally I am glad to see my suggestion carried out so ably and promptly and it gives me much pleasure to add a foreword to the book.

Prof. Ram Swarup has earned a wide reputation in the Punjab as an efficient astrologer. The staff working under him is well-trained and highly qualified. The editing of the *Trailokya-prakasa* has been carefully done. I should however point out one instance where I differ from the learned editor. It is the reading of verse 7. He has selected तुला तु (?) मुख्ययन्त्राणि whereas the readings found in other MSS are श्रभाव. शुलाव, श्वभाव, शुभाव in place of तुला तु. Mr. Mul Raj Jain who published a brief notice of *Trilokya-prakasa* in the *Jain SatyaPrakash* of Ahmedabad for June 1944 committed the same mistake by accepting तुला तु in preference to शुलाव. Evidently the instrument referred here is *sularb* a synonym of *usturlab* which means an Astrolabe, an important instrument of the Greeks and the Arabs. Both the forms *surlab* and *usturlab* are recorded by Steingass in his *Persian-English Dictionary*, Oxford, 1930. The readings relegated to the footnote by Prof. Ram Swarup amply support my suggestion. Clearly तुला तु is a copyist's error while the other words are Indian modifications of *surab*, as there are so many other examples of modified words.

Here I may add a few words on the place of astrology in Jainism. So far as theories and dogmas go, the Jains believe that every soul is the maker of its own career—both past and future. Every moment the souls moving in the cycle of transmigration, are doing actions by deed, word or thought and

their happiness or misery are the direct result of these actions. In short the course of destiny cannot be changed.

In practice, however, Astrology plays an important role in the life of Jains. Even in their oldest scriptures we find references to lucky moments for doing auspicious acts. The Prakrit words सोहृणंसि निद्रिकरणमुहृत्सि i.e., (the ceremony was performed) at an auspicious moment, in an auspicious *Karana* and on an auspicious hour, clearly refer to favourable time determined by astrological calculations. At the birth of a child, even if it be a would-be Tirthankara astrologers were consulted. Kings always kept astrologers at their court and performed their acts according to the advice of the astrologers. The highest belief in astrology is shown by the statement of the *Kalpasutra*, a Svetambara scripture, where it is said that Lord Mahavira died at a moment when the *Kshudra* or *Bhasma-graha* entered his *nama-rasi*. The effect of this was that his followers did not receive due honour for 2,000 years after his demise.¹

Having thus shown the importance and prevalence of Astrology among the Jains, I shall now state what place it holds in a monk's life. As is universally known, the life of a Jain monk is very hard. He is indeed forbidden for selfish motives from practice of Astrology, medicine and other similar sciences. Their study, however, is not prohibited. There are numerous works written by monks which amply reveal the authors' mastery over these sciences. Several instances are found in which the monks actually took practical advantage of these sciences, but that was for the benefit of the whole community, and not for their personal gain.²

The prohibition against practice of Astrology was confined to those monks whom for the sake of convenience we may term the *Samvighna monks* i.e., those indifferent to worldly affairs. Such monks engaged themselves in the mortification of their self. They kept quite aloof from worldly attachments. In short they had broken all family ties. They had reached the stage of *Samnyasa* described in the *Smritis*. They took abode in deserted huts away from habitation. Their wants were very few, they having discarded everything commonly needed by man. They

1. H. Jacobi: Translation of the *Kalpasutra* in the Sacred Books of the East Series, Vol. XXII p. 266.

2. cf. अक्षयेनापि यः कुर्याज् जैनप्रवचनोन्नतिम् ।

स शुभ्यति प्रतिक्रान्तः सुधीः कालकसूरिवन् ॥

विनयचन्द्र कृत कालककथा, श्लो० २

visited cities or villages on their begging tours only for meals. That, too, was not frequent. They would preach the law of morality to those persons who happened to meet them. Apparently such monks did not stand in need of Astrology or medicine.

There was however another class of monks who thought that the *samvigna* monk was no good to the world at large. The monks of this class were called *caityavasin* i. e. living in a *caitya* or temple. They argued that after having acquired perfect control over the senses, one should strive to do good to humanity. Though a *samvigna* and a *caityavasin* monk were on the same footing so far as self-control was concerned, yet in a way the latter was superior to the former so far as the service to humanity was concerned. It required a stronger mind to become a *caityavasin* than a *samvigna* monk. The latter was safe in his seclusion whereas the former had to move in society and to play with fire as it were. A little carelessness would drag him down and send him to a far degraded position. Consequently very few people came forward to assume the role of a *caityavasin* monk, because he had to exert full self-control and yet serve humanity in all its sufferings. It was to relieve and guide his fellow creatures that he freely took aid of medicine and astrology.

In the course of time, however, the *caityavasin* life attracted easy-going people and the whole organisation deteriorated. Only a few noble souls escaped this deterioration. At present the successors of *caityavasin*s are called Pujya, Yati, Gor Ji etc. Rajputana is their stronghold. From there they spread to other parts of India. Among the Digambaras the *caityavasin*s have come to be called *Bhattarakas*. They are just like Hindu *mahants*, trustees of charitable institutions in name, but sole managers, approaching to owners, in practice.

At one time the Pujyas were found in almost every town or city of the Punjab. There was a network of their *gaddis* called *upasrayas*. They were regarded as high class physicians and astrologers, and they extended their hand of service to all without distinction of caste or creed. Many stories about their skill in these sciences can be heard even to day from the lips of the few old people still alive. Thus it is proved beyond question that the Jains have always regarded Astrology as a very useful and important science. They derived full benefit from it in all the periods of history—from the days of the Tirthankaras down to the present day. As a result of this numerous works on Astrology were written by the Jains in various languages of India. So much importance was attached to Astrology that Jaina authors did not hesitate to borrow from foreign sources. The *Trailokyaprakasa* expressly states.

म्लेच्छेषु विस्तृतं लग्नं कलिकालप्रभावतः
प्रभुप्रसादमासाद्य जैने धर्मेऽवतिष्ठते ॥ ६ ॥*

On account of the effects of the Kali Age the science of *Lagna* (Horoscope) spread among the Mlecches, but with Lord's grace, the same is still found among the Jains. Instead of अवतिष्ठते, some MSS read अवतार्यते which clearly refers to a borrowing of the science from the Mlecchas. Probably the original reading was अवतार्यते which was subsequently changed to अवतिष्ठते by some zealous copyist.

Prof. Ram Swarup has done well by giving a brief account of Jaina Cosmology and Astrology for the benefit of such readers as are not acquainted with them. But he is silent about the Jaina school of Astrology. He does not say in what respects it differs, if it does so, from the Hindu School. This is a subject worth studying. Perhaps the Jains did not develop a separate system of Astrology. They took it at a later date in the form it was then current.

I avail of this opportunity to invite the attention of scholars to the importance of the Punjab Jain Bhandars. A preliminary catalogue of five of these Bhandars was prepared by the writer of these lines and published by the University of the Panjab in 1939. The manuscript of the *Trailokyaparakasa* was first found in one of these Bhandars. There are several other works on Astrology and kindred sciences registered in the above catalogue and some of them might be worth publishing. I am sure that many more works of great value will be discovered among these bhandars if a thorough search is made. Some of the Pujyas of the Punjab were great scholars and must have written on these subjects. Their manuscript collections are preserved in these bhandars.

For the benefit of those who are not familiar with Sanskrit Prof. Ram Swarup has added a Hindi translation to the text. But an index of subjects is sorely missing. A full index of subject matter would have greatly enhanced the value of the work.

JAIN VIDYA BHAVAN,
6, Nehru Street,
Krishan Nagar, Lahore.
January 12, 1946.

BANARSI DAS JAIN.

INTRODUCTION.

A detailed description of manuscripts.

The manuscript material utilized in the edition on Hemaprabhasuri's Trailokyaparakasa may be described in the following way :—

The text of the Trailokyaparakasa, edited¹ and translated here for the first time, is based on a manuscript existing in the Svetambara Jain Bhandar at Ambala, Punjab, (India).

This manuscript was obtained from the custodians of the said Bhandar through the courtesy of Dr. Banarsi Das Jain, M.A., Ph.D. (London), Reader in Hindi, Oriental College Lahore. I then informed about it to Prof. Dr. Lakshman Sarup, M.A., D. Phil. (Oxon), Officer d' Academie (France), the Principal, University Oriental College, and Head of the department of Sanskrit at the University of the Punjab, Lahore. The learned doctor put this manuscript at the disposal of the director, the present editor, assisted by the expert staff, of the Kushal Astrological Research Institute, Model Town, Lahore. He also advised me to secure some other manuscripts on behalf of the Institute for collation purposes.

This basic manuscript begins :—

श्री गुरुपदपङ्कजेभ्यो नमः ।

श्री मत्पार्श्वभिर्धं देवं केवलज्ञान भास्करं

वाग्देवीं खेचरांश्चापि नत्वा लग्नमहं भुवे ॥१॥

लग्नं देवः प्रभुः स्वामी लग्नं ज्योतिः परं मतं ।

लग्नं दीपो महान् लोके लग्नं तत्त्वं दिशान् गुरुः ॥

It consists of 33 leaves. It has generally 15 lines to a page. Many pages have 16 lines also. Syllables per line range from 46 to 53, making 1300 granthas in all.

1 Dr. H. D. Velankar states that the text was published by Bhimsi Manek of Bombay but we failed to procure a copy of it. Again Dr. Velankar notes that there are several other titles under which this work is known e.g., भुवनप्रदीप, त्रैलोक्यप्रदीप, मेघमाला etc. Of these the first two are names of independent works by other authors whereas the third is a different treatise by our own author.

It is written on Indian hand made paper and is in a good condition. The whole of the text is written in black ink. It is in old Jain script, bold, beautiful and even hand. It has clean margins without notes and corrections. Left hand marginal top of each folio on its reverse bears a cipher representing the serial number of the folio.

The manuscript ends as follows :—

श्रीमद्देवेन्द्र शिष्य श्री हेम प्रभसूरि विरचितं चैत्रार्घकाण्डं समाप्तं ।

धने चक्रं यदा खेटाः कुर्वन्ति मिजिता घनाः ।
 तदा धान्यं महर्घं स्यात्सर्वं पर्यौघमध्यतः ॥
 रणे वक्रं यदा यान्ति सर्वेऽपि मिजिता प्रहाः ।
 तदा धान्यं समर्घं स्यात् जायते भुवि वै मतं ॥
 अपात्रदानताऽपुण्यं पुण्यं सत्पात्रदानतः ।
 ह्यपात्रे न दातव्यमर्घं काण्डनहोदयं ॥
 प्रतिमास्वल्पदेवानां यावन्तः परिमाणवः ।
 तावद्युगसहस्राणि कर्तुर्भोगभुजः फलं ॥

The scribe's historically important colophon runs as follows :—

इति त्रैलोक्यप्रकाशो ग्रन्थः समाप्तः ॥छा॥ श्रीः ॥छा॥छा॥श्री॥छा॥छा॥श्री॥
 सं० १५०० वर्षे आषाढशुदि ८ (अष्टमी) शुके अश्वेह श्री अहिमदावादनये
 लिखितं विप्रविणायगेन शुभं भवतु ॥ छ ॥ श्रीरस्तु ॥ श्रीः ॥ छ ॥ लेशक-
 पाठकयोः शुभं भवतु ॥ छ ॥ श्रीः ॥ छ ॥ श्रीः ॥ छ ॥ श्रीः ॥ ग्रंथार्थं १३००
 श्लोकसंख्यया मितिः ॥ १ ॥ छ ॥ श्रीः ॥ छ ॥ शुभं भव ॥ श्रीरस्तु ॥

The manuscript is generally correct but unfortunately it is incomplete. It breaks off at leaf 27b and begins at leaf 28a i.e., four leaves are missing. After the verse 824 it reads:

इत्यायेऽर्घकाण्डं । अथ लाभप्रकरण एवार्घकाण्डं निरूप्य स्त्रीलाभ प्रकरणं ।

The rest of the matter on leaves 24-27 which cover verses 825-972 is wanting as the leaves are missing from the manuscript. The manuscript leaf 28a begins with the matter भद्रपदाधिष्ये etc., of verse 972, thus leaving out the opening word पूर्वा of this verse probably on the missing leaf 27.

(2) Five manuscripts of the Trailokyaprakasa exist at the Central Library, Baroda. Of these five manuscripts, only two

were made accessible to us for collation. They have been designated here as A, A¹.

MS. A.

Its No. is 3155. It is complete. Size 11"×6". It has generally 11 lines a page, syllables per line ranging from 36 to 39. It is written on Indian hand made paper and is in a good condition. The whole of the text is written in black ink. It is in old Devanagari script, bold, beautiful, even hand. It has generally clean margins with occasional corrections. Left hand marginal top of each folio on its reverse bears a serial number of the folio. It bears the following historically important colophon:

इति त्रैलोक्यप्रकाशो नाम ग्रन्थः समाप्तः ॥ शुभं भवतु ॥ शार्दूलविक्रीडितं ॥
 अस्ति श्री वटपत्तने क्षितिपतिः श्रीमान् मनीषी वशी
 कर्तुं पुस्तकसंग्रहं धृतरतिर्ग्रन्थालये वै निजे ।
 भर्ता गुर्जरनीवृतोऽखिल कलाविद्यादिरक्तः सदा
 ख्यातो यश्च शियाजिराव वसुधाधीशो गुणैरुज्ज्वलैः ॥
 गीतीच्छन्द ॥ तच्छिष्टे गोसाईनारायणभारतीति विख्यातः ।
 विद्वद्गोष्ठ्या नदीप्रहो यस्वन्तभारतीशिष्यः ॥
 आर्याच्छन्द ॥ संवद्रिकमकालात्क्षोणीवेदाङ्कचन्द्रसंख्याते ।
 वर्षे च हेमलंबेत्याख्ये संवत्सरे चारौ ॥
 गीतीच्छन्द ॥ मार्गे मासे कृष्णे पक्षे गुरुवासरे द्वितीयायां ।
 लेखयति स्म ग्रन्थं खलु पत्तेणहिल्लाख्ये ॥
 श्लोक संख्या १२४६ ।

(3) The manuscript A¹ belongs to the Central Library, Baroda. Its No. is 393; its size 11"×6", leaves 65; lines per page 11, syllables per line 32. Its brief colophon runs as follows:

इति त्रैलोक्यप्रकाशो नाम ग्रन्थः समाप्तः । ग्रन्थाग्रं० संख्या १२४० ॥ ६ ॥
 शुभं भवतु । कल्याणमस्तु ॥ ६ ॥ ६ ॥ मिलित्वा श्लोकसंख्या चत्वारिशताधि-
 कचतुर्दशप्रमाणं ।

(4) A manuscript 'Bh' belongs to the Bhandarkar Research Institute, Poona. It offers a few variants from our basic ms. But such variants as are given in footnotes call for our special attention and scrutiny. At places it improves indeed upon our text. It has been of considerable help specially in reconstituting the portion of the Arghakanda which is missing in the Ambala manuscript. At the end of the Trailokyaprakasa we have Meghamala.

It has leaves 68^a + Meghamala = 74^a.

It has size 8½" × 4"; Lines per page ranging from 10 to 12 :
Letters 26.

It begins ओं नमः सिद्धचक्रादिसन्निभे । श्रीमत्पार्श्वभिधं etc. It ends
इति श्रीमद्देवसूरिशिष्य श्रीहेमप्रभसूरिविरचिते चित्रार्चकाण्डं समाप्तं ।

Then begins मेघमाला at the end of which we read

इति उद्योतिषप्रन्थो जैनकृतः समाप्तः । संवत् १८५३ शके १७१६ विंशत-
नामाब्देऽश्विनशुक्ल १ प्रतिपद्गुरौ संगवेरे वानाभिस्थानार्धकोटितोर्थदक्षिणकूले
हंसख्यप्राकृतसंज्ञाक्षेत्रे कीर्तनोपाख्यशिवात्मजबालभट्टेन लिखितं लेखापयितं च
स्थोपकारार्थं ६ ६ ६


Unfortunately this ms. is incomplete. Leaves 21-23 are missing.

(5-6) Two other manuscripts deserve notice. They hail from Bikaner. One of them contains only the Arghakanda of Trailokyaparakāṣi. It contains leaves 7, its size is 10" × 4½". Lines per page number 9; letters per line ranging from 30 to 33. It is designated as B¹.

Another manuscript from Bikaner is only a shorter recension of the present work. It has therefore been dismissed for the collation work except at places where the verses are tolerably in consonance with the text of adoption. Its size is 10" × 4½"; leaves 12, lines per page 16, letters per line 52. It is incomplete *

Relation of manuscripts.

A, A¹, Amb and Bh. with slight variations fall into one group whereas B, representing, a shorter recension falls into another. The relationship of different groups may be made clear in the following diagram :—



It may be remarked that sometimes, though very rarely, B makes a group with A, A¹, and Bh. separate from Amb. which

* The Arghakanda portion of the text has been compared also with the text of a manuscript from the Pattan Bhandar. This manuscript was in the possession of Mukhtar Shri Jugal Kishore, at Sarsawa, Saharanpur District who obtained it from Shri Punyaviaya ji of Pattan. The Arghakanda portion of the text was copied from the manuscript by a Shastri on behalf of our Institute.

then stands alone. For example, the verse 34 as it stands in the Amb. text is read differently by A. A¹, B and Bh. as noted in the footnotes.

The Tp is a Jain work on Astrology which science is closely associated with Astronomy because its predictions are based on positions of planets determined by astronomical calculations. Consequently it is advisable to say a few words on Jain astronomy. In order to understand the nature of the Jain system of Astronomy let us cast a glance over their cosmography.

Jain Cosmography. The Jains believe that the Universe is eternal, without a beginning or an end. They have, therefore, no cosmology, but have a cosmography—peculiar to themselves, especially with regard to the upper regions. The Universe proper or *Loka* extends as far as the *dharmastikaaya* and the *adharmastikaya*—the media of motion and rest respectively—exist. Beyond the *Loka* there is *Aloka* or absolute space. The *Loka* is conceived to be in the form of a standing woman with her arms akimbo. It is divided into three parts corresponding to the three parts of the woman's body. The upper¹ region(ऊर्ध्वलोक) represents the bust of the figure and comprises the aerial abodes (विमान) of the Vaimanika gods. The middle region(तिर्यग लोक) represents the waist and consists of that portion of the earth Ratnaprabha upon which men live together with the part of the sky occupied by the heavenly luminaries.

(1) The conception of the regions being upper or lower has reference to the Rucaka point formed of four particles at the centre of the Meru. Perpendicularly above the Rucaka there is a similar point in the heavens. The middle region extends 900 yojanas below and 900 yojanas above the Rucaka point. Thus it comprises the upper layer of the Ratnaprabha earth to a thickness of 900 yojanas together with the atmosphere to the same height.

जगत्त्रयं त्वधस्तिर्यगूर्ध्वलोक विभेदतः ।

अधस्तिर्यगूर्ध्वभावो रुचकापेक्षया पुनः ॥ ४८१ ॥

मेवंन्तर्गोस्तनाकारचतुर्व्योमप्रदेशकः ।

रुचकोऽधस्ताद्गूर्ध्वं मेव मष्ट्र प्रदेशकः ॥ ४८२ ॥

तिर्यग् लोकस्तु रुचकस्थोपरिष्ठादधोपि च ।

योजनानां नव नव शतानि भवति स्फुटम् ॥ ४८३ ॥

Trishashtisalakupurushacaritra, Parvan II, Canto 3.

The lower regions (अधोलोक) represents the lower limbs and includes the seven earths in the midst of each of which lies a hell named after its own earth. These earths which gradually increase in size as we go down, are named रत्नप्रभा 'paved with sharp stones, or abounding in diamonds, rubies etc.' शंकर प्रभा 'paved with pointed stones of sugar-loaf shape' वालुका प्रभा 'sprinkled with sand', पंकप्रभा 'full of mud', धूमप्रभा 'filled with smoke' तमःप्रभा 'filled with darkness', and महातमःप्रभा 'filled with thick darkness.'

The middle region is a flat round surface formed of concentric rings which represent alternately seas and islands, with the continent of Jambudvīpa lying at the centre.

Jambudvīpa is surrounded by the Salt sea (लवण समुद्र), the latter by the island (or Continent) of Dhatakikhanda, this again by the Black Sea (कालोदधि); and around this lie successively the islands of Pushkara, Varuna, Kshira, *Ghrita*, Ikshvaku, Nandisvara, Aruna and many others each of which is encircled by a sea of the same name. The total number of islands and seas is countless, the last sea being the Svayambhūramana. Each succeeding ring of island and sea has a width double the preceding one; thus the Jambudvīpa has a diameter of 100,000 Yojanas; the width of the Salt sea ring is 200,000 Yojanas, that of the Dhataki Khanda ring 400,000, of the Black sea ring 800,000 Yojanas and so on.

The seas and islands are separated from one another by high walls called Jagati which like the rampart of a town, have four gates one in each direction. In the centre of the Jambudvīpa stands the mountain Meru, 100,000 Yojanas high and 10,000 Yojanas wide at the base. There are six more ranges which run parallel to each other from east to west and divide the whole continent into seven countries. There are several river systems all of which fall into the salt sea. The names of the the countries and mountain ranges from South to North are Bharata, Himavat (*mt.*); Haimavanta, Mahahimavat (*mt.*); Hari, Nishadha (*mt.*); Mahavideha; Nila (*mt.*); Ramyaka, Rukmin (*mt.*). Hairanyavata Sikharin (*mt.*); and Airavata. Bharata and Airavata are further divided into Northern and Southern halves by their Vaitadhya Mountains.

(1) *Trishashtisalaka purushacaritra*. Parvan I. Sarga I, vv. 22-36: cf. *Markandeya Purana*, chap. 56 (Bombay edition); chap. 59 (Calcutta edition).]

The central country of Mahavideha (or simply Videha) is the largest of all. Its two halves, lying to the East and West of Mount Meru are called the Purva (Eastern) and Aparā (Western) Videha respectively. Each of these halves is subdivided into sixteen provinces named Vijayas.

Around the Mount Meru there are two small regions in the form of semi-circles, called the Uttarakuru (Northern) and the Devakuru (Southern). They are lands of twins whose wants are satisfied by the desire-granting trees (कल्प वृक्ष). The condition of the first Ara is always present there.

A little above the surface of the earth commences the series of the heavenly bodies or the Jyotishka gods which are divided into five classes, viz., the suns, the Moons, the planets (ग्रह) the constellations (नक्षत्र) and other stars (तारक) The nearest to the earth are the stars, being 790 from it. Ten Yojanas above them are the suns. Eighty Yojanas above the suns are the Moons. Four Yojanas above them are the constellations. Four Yojanas further are the Budhas, three Yojanas above them are the Sukras three yojanas above them are the Brihaspatis: three Yojanas above them are the Mangalas; and three Yojanas above them are the Sanaiscaras. Thus the heavenly bodies exist upto 900 Yojanas above the earth.

Far above the heavenly bodies begins the upper region comprising a series of celestial abodes of gods (विमान) These abodes are divided into three classes according to their distance from the earth and the status of their denizens. The lowest class consists of twelve Kalpas which form the breast of the Loka-figure. Above the Kalpas stands the series of nine Graiveyaka vimanas, representing the neck of the Loka-figure. Above them are the five Anuttara or the best abodes which correspond to the crown of the Loka-figure. The denizens of Kalpas have different social ranks among them as men have on the earth, whereas the denizens of the Graiveyoka and Anuttara abodes are all equal among themselves. They are consequently called Ahamindras i. e., masters of their self.

Above these abodes or vimanas the universe (loka) tapers into an end in the region called Ishat-Pragbhara, which is shaped like an umbrella. It is called the Siddha-sila on account of its vicinity to the end of the Loka—the resting place of the Siddhas or the redeemed souls.

Now we come to our proper subject of Astronomy and Astrology. According to the Jains the heavenly bodies are separate worlds similar to ours inhabited by creatures called Jyotishka or luminary gods having human form but possessing supernatural powers. They are of five kinds, i.e., the Suns, the Moons, the planets, the constellations and miscellaneous stars. They in their vimanas revolve round the Meru mountain over the regions inhabited by man and make it possible to measure time. With other aspects of these gods, such as their birth, age, bodily stature, physical power, their stately magnificence, their nature, their religion, their relation with man etc. we are not concerned here.

The Jains in common with the Puranas regard the earth to be a flat and circular surface surrounded alternately by innumerable rings of seas and continents. This view of the Jains has been characterised as fanciful by Bhaskaracarya in his *Siddhanta-siromani* who held that the earth was a sphere.

As regards the orbits of the planets the Jains conceive them to be concentric circles (मण्डल) separated by equal spaces. The opinion that the *mandalas* were spiral is also recorded in the Jain sutras. The method of reckoning time also is peculiar to the Jains. In some respects it resembles that found in the *Jyotirvedanga*. The following points are worth noting :—

1. The Jaina calculation of time is based on a 5-yearly yuga containing 60 months or 1830 days. This makes a year to be of 366 days and a month of $30\frac{1}{2}$ days.
2. The beginning of the yuga is marked by
 - (a) the sun's commencement of its journey to the south (दक्षिणायन),
 - (b) the moon's course being northward (उत्तरायण),
 - (c) the tithi being the first of the dark half of Sravana
 - (d) the Karana being Balava, and
 - (e) the nakshatra being Abhijit.
3. A yuga contains 62 lunar months, (candramasa) each of $29\frac{1}{2}$ solar days.
4. A lunar year (candravarsha) contains $354\frac{1}{2}$ solar days.
5. A tithi is a lunar day (candra dina) of $29\frac{3}{8}$ muhurta or $59\frac{1}{4}$ ghaticas.

6. The moon changes its course (अयन) in the Abhijit and the Pushya nakshatras.

7. There are two intercalatory lunar months in a yuga, i.e. the first two years are ordinary, the third is abhivardhita (leap) having two Ashadha months, the fourth is ordinary and the fifth is leap having two Pausha months.

8. There are 28 nakshatras including the Abhijit. Their names and order are the same as in the Hindu system but their duration in muhurtas (= 2 ghatikas) is 30, 15, 30, 45, 30, 15, 45, 30, 15, 30, 30, 15, 45, 30, 15, 30, 30, 45, $9\frac{2}{3}$ (Abhijit), 30, 30, 15, 30, 45, 30.

Jaina literature on Astronomy and Astrology.

(1) *The Canon.*

The sacred scriptures (sruta) of the Jains are called the Angas, twelve in number of which the twelfth is lost for ever. The eleven Angas, now available, are held authoritative by the Svetambaras only. Corresponding to the 12 angas there are 12 upangas. The division into Angas and upangas is arbitrary without any regard to their contents. The upangas Nos. 5-7, i.e., Jambudvipaprajnapti, Suryaprajnapti and Candraprajnapti are "Scientific" works and deal with geography, astronomy cosmology and chronometry. Of these the Jambuvipaprajnapti contains the mythical geography of the Jains. In the description of Bharatavarsha (India), however, the legends of King Bharata occupy much space.

The Suryaprajnapti contains a systematic presentation of the astronomical views of the Jains. It deals with the orbits which the sun describes during the year, with the rising and setting of the sun, with the speed of the course of the sun through each of its 184 circuits, the light of the sun and the moon, the measure of the shadow at various seasons of the year, the connection of the moon with the lunar mansions, the waxing and waning of the moon, the velocity of the five kinds of heavenly bodies, the qualities of the moonlight, the number of suns in Jambudvipa etc. As the work deals with the sun as well as with the moon, it almost looks as though the original Candraprajnapti had been worked in the Suryaprajnapti. The Candraprajnapti as its title shows should deal with an astronomical theory of the heavens based upon the moon. But curiously enough the Candraprajnapti is almost wholly identical in all available manuscripts with the Suryaprajnapti. It is probable that the Candraprajnapti was originally a separate work from the Suryaprajnapti.

2. "Secondary" or "Substitute" Canon.

The Digambaras hold that the original canon is lost and what the Svetambaras regard as canon is not authoritative. They have, however, produced a "secondary canon" which might perhaps be more correctly termed a "substitute Canon." They sometimes describe it as the "four Vedas." This "Canon" consists of a number of important texts of later times classified into four groups (anuyogas) :

(1) Prathamānuyoga—legendary works describing the biographies of the 63 eminent persons (salakapurushas) i.e. 24 Tirthankaras, 12 Cakravatins, 9 Baladevas, 9 Vasudevas and 9 Prativasudevas. This group includes the Puranas (Padma—, Harivamsa—, Trishashtilakshana—, Maha—, and Uttara— Purana)

2 Karānānuyoga—Cosmological works Suryaprajñapati, Candraprajñati and Jayadhavala ;

3. Dravyānuyoga—philosophical works of Kunda-Kunda, Umāsuami's Tattvarthadhigama—Sutra with commentaries and Samantabhadra's Aptamimānsa with commentaries

4. Carānānuyoga—ritual and disciplinary works such as Vattakera's Mulacara and Samantabhadra's Ratnakarāndasravakacara and Trivarnacara. We are concerned with the second class, v z the Kīrānānuyoga.

3. Non-Canonical works

In the course of centuries several works were produced both by the Svetambaras as well as by the Digambaras, that deal systemically with the subjects explained in the prajñaptis noted above. A few such works can be picked up from any catalogue of manuscripts. Fragmentary treatises dealing with particular subjects are numerous.

Having given a short account of Jaina Cosmology (including Astronomy) and of the old literature on the subject for the sake of readers not acquainted with them, I now come to the Trailokyaprakasa itself; its contents, its author, time and language.

The Trailokyaprakasa is essentially a *lagna*-work, i.e., it deals with the methods of prediction by examination of a horoscope. Works of this type were very popular in India and the production of new ones continued till as late as a century or two ago. It is divided into a number of sections (प्रकरण).

It, too, was fairly popular as is shown by a pretty large number of its manuscripts still extant.

CONTENTS

After saluting the Jina Parsva natha, the author praises the *lagna* (horoscope) as the best of everything in the world. He calls it by all auspicious names like God, Master, brightest Light, father, mother, brother, the planets etc.

In v. 6 it is admitted that the science of horoscope was widely prevalent among the mlecchas from whom it was borrowed by the Jains.

In the next verse stress is laid on the use of instruments (तुला तु मुख्य यन्त्राणि) which provide accurate data to proceed with the sixfold calculations. In the succeeding verses the author explains the title of the work, i.e., it sheds light on the three worlds (the upper, middle and lower regions) through all the three ages (past, present and future) Hereafter, the technical terms are defined in a few verses. All sorts of attributes connected with man and nature are applied to the planets and the *rasis*, e. g. caste, colour, smell, age, anger, kindness, wisdom, folly, male, female, neuter, enemy, friend, etc. etc.

Next come the predictions. They relate to the different aspects of human life and needs such as birth of a son; recovery of health; acquisition of wealth, land etc; marriage; knowledge; profit or loss in trade, going on a journey; victory or defeat in war or law suit; approach of death; forecast of weather esp. fall of rain; rise and fall in prices, etc. Various methods are described to predict about the matters just enumerated.

The Author.

The author's name is mentioned as Hemaprabha Suri disciple of Devendra Suri at several places in the text, e.g., in Vv. 225, 299, 328, 373, 1113, etc. In verse 225 the name is skilfully woven and can be made out by taking the first two letters of each pada as श्री हे । मय । भस् । रिभिः ॥ The colophons at the end of the sections and the work repeat the name देवेन्द्र सूरि शिष्य हेम प्रभ सूरि. This leaves no doubt about the authorship of the treatise. No information about the author, however, is available beyond this. About his personality absolutely nothing is known. Hemaprabha does not give his guruparampara (genealogy of teachers) beyond naming his immediate teacher, nor he mentions the name of the *gaccha* to which he belonged. Under these circumstances it is difficult to say anything more with certainty.

The names Devendra and Hemaprabha are very common in Jain history. About half a dozen authors bore the first

name and three or four the second. No other reference has so far come to light where both these names are mentioned together having the relation of teacher and disciple. In the Nigendra gaccha there was a Devendra and a Hemaprabha who flourished about the time when the Tp. was composed, viz., Sam. 1305, the year given by Prof. H. D. Velankar in his Jinaratnakosa as the date of composition of the Tp. perhaps on the authority of some manuscript.

Language.

Usually the writers of works on technical sciences like astrology, medicine, etc., are careless in grammatical matters. But our author writes a correct language. No case of deviation from grammar has been found in his work. Of course the Arabic words like मुथशिल (मुत्तसिल), मचकूल (मक्कयूत), have not been spelt correctly. The author has ingeniously worked his name in verse 225 which reveals his poetic tendencies.

Other works of Hemaprabha.

Besides the Tp. Hemaprabha is the author of a Meghamala containing about 10) verses noted in the *Jaina-Granthavali*, p. 336. Prof. H. D. Velankar, however, thinks it to be another title of Tp. but that is an independent work by our Author as is shown by the Poona manuscript which contains it along with Tp. The *Jaina-Granthavali* p. 336 mentions another Meghamala of 400 verses without giving the author's name.

Hindi Explanation.

For the use of such readers as find it hard to follow Sanskrit, a Hindi explanation has been added to all the verses.

Thanks,

It is now my pleasant duty to offer thanks to those who co-operated in any way in the production of the present book. First of all I should thank Dr. L. Sarup, Principal Oriental College for inaugurating the copying work of manuscript of the TrailokyaPrakasa and for taking general interest in the Research work carried on by the Kushal Astrological Research Institute.

I must also thank Dr. Banarsi Das Jain, Reader in Hindi, Oriental College, Lahore for lending me the MS of the TP belonging the Jain Bhandar of Ambala city and for writing a foreword to the present edition.

Pt. Jagdish Lal Shastri Assistant Director, Publications Department, and Pt. Raghu Nath Sahai Shastri, Manager deserve thanks for the help they gave me in their own way. Pt. Satya Narayan Pathak Acharya Vishvabandhu, Pt. Bhagavad Datt, Tyagmurti Gosvami Ganesh Datta and Pt. Murali Dhar Jyotishacharya are to be thanked for occasional suggestions given by them.

I must thank Mr. S. S. Saith and Pt. Bala Sahai Shastri of the Panjab University Library for the facilities they afforded me in consulting MSS and books in their charge.

Dr. P.K. Gode of the Bhandarkar Research Institute Poona ; the Director Gaekwad Institute Baroda ; Shriyut Agar Chand Nahta of Bikaner and Shriyut Jugal Kishor Mukhtar of the Vir Sewa Mandir Sarsawa (Saharanpur) deserve my thanks for the loan of MSS, and for furnishing copies of passages and references from other works.

M/s. Ram Lal Kapur and sons put me under obligation by supplying paper at control rate.

Last but not the least, I am indebted to Mahant Girdhari Das, Rai Bahadur Janki Das Kapur, Proprietor Janki Das & Co. L. Bishan Das Kapur, 23 B Model Town, Lahore and Gos. Ishwar Das for financial help given by them to meet the cost of publication of the TP.

BHRIGU ASHRAM,
52C Model Town
Lahore.
Basant Panchmi Sam, 2002

R. S. SHARMA.

ADDITIONAL NOTES.

p. 9 § 1. See H. D. Velankar : *Jinaratnakosa s. v.* (I) त्रैलोक्य प्रकाश where two different works of the same name are mentioned.

p. 9 § 3. This account is based on "Jaina Cosmology" an appendix in Dr. Banarsi Das's *Jama Jatakas*, Lahore, 1924.

p. 9 § 3. The heavenly bodies (planets and stars) are included in the middle region. The Vaimanika gods of the upper region are different from the Jyotishka gods.

p 10. § 1. For Pauranic descriptions of the hells see :

<i>Markandeya Purana</i>	Chaps. 12 and 14
Vayu	Chap. 101.
Brahmanda	IV. 2.
Vishnu	II. 6. VI. 5.
Matsya	Chap. 39.
Vamana	Chap. 11.
Varaha	Chap. 198-206.
Brahma	Chap. 214-18.
Garuda	Smriti chapters of Uttarakhanda

p. 10 § 2. For the mythical geography of India, read W. Kirfel: *Kosmographie der Inder*, Bonn and Leipzig 1920.

p. 11 § 3. In the Jambudvipa alone there are two sets of 88 grahas and other stars—*Trilokasara* vv. 363-70. According to the Jains there are 8 mahagrahas, viz., (1) Chandra, (2) Surya, (3) Sukra, (4) Budha, (5) Brihaspati, (6) Angara (mangala), (7) Sanaiscara and (8) Ketu. (Sthananga, Sutar 612). The theory of multiplicity of the heavenly bodies has been bitterly criticised by Hindu astronomers. "But what shall I say of thy folly, O Jain, who without object or use, supposest a double set of constellations, two suns and two moons? Dost thou not see that the visible circumpolar constellations take a whole day to complete their revolutions?" W. Brennand's *Hindu Astronomy* p. 86, quotation from Suryasiddhanta.

p. 12 § 1. (१) ज्योतिष्काः सूर्यश्चन्द्रमसो ग्रहनक्षत्रप्रकीर्णतारकाश्च ॥१३॥
मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके ॥ १४ ॥

तत्कृतः कालविभागः ॥ १५ ॥

Tattvarthadhigamasutra, Chapter IV.

p. 13 § 4. G. Thibaut: *On the Suryaprajnapti* in JASB 1880, 49, 107 ff., 181 ff.

p. 13 § 4. Cf. the Brahmanic term Sruti. The terms Anga, upanga and sutra are common to both the faiths, even to the Buddhist.

p. 13 § 4. Taken from Winternitz: *History of Indian Literature*, Vol. II, p. 457.

p. 14 § 1. *Ib.* p. 474.

p. 15. See *Jaina Granthavali*. Section on जैन विज्ञान

p. 16 Mohanlal Dalichand Desai: जैन साहित्य नो संक्षिप्त इतिहास (Index of authors).

p. 14 *Ibid* Sections 495 and 598.

ॐ स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः ।

श्रीहेमप्रभसुरिविरचितः

त्रैलोक्यप्रकाशः



श्रीमत्पार्श्वामिधं¹ देवं केवलज्ञानभास्करम् ।
वाग्देवीं खेचरांश्चापि नत्वा लग्नमहं ब्रुवे ॥१॥
लग्नं देवः प्रभुः स्वामी लग्नं ज्योतिः परं मतम् ।
लग्नं दीपो महान् लोके लग्नं तत्त्वं दिशन् गुरुः ॥२॥
लग्नं माता पिता लग्नं लग्नं बन्धुनिजः स्मृतम्² ।
लग्नं⁴ वृद्धिर्महालक्ष्मीर्लग्नं देवी सरस्वती ॥३॥
लग्नं सूर्यो विधुर्लग्नं लग्नं भौमो बुधोऽपि च ।
लग्नं गुरुः कविर्मन्दो लग्नं राहुः सकेतुकः ॥४॥

वक्रतुण्ड ! महाकाय ! सूर्यकोटिसमप्रम !

अविघ्नं कुरु मे देव ! सर्वकार्येषु सर्वदा ॥

मैं, ज्ञानसूर्य अपने इष्टदेव पार्श्वनाथ, सरस्वती और नक्षत्रों को नमस्कार कर, लग्न के विषय में कहता हूँ ॥१॥

लग्न ही देवता है, लग्न ही स्वामी है, लग्न ही परम प्रकाश अर्थात् ज्ञान है। लग्न ही संसार में महान् दीप है और लग्न ही तत्त्व को दिखलाने वाला गुरु है ॥२॥

लग्न ही माता है, लग्न ही पिता है और लग्न ही अपना बन्धु है। लग्न ही वृद्धि का कारण महालक्ष्मी है। लग्न ही देवी सरस्वती है ॥३॥

लग्न ही सूर्य है, लग्न ही चन्द्रमा है, लग्न ही मंगल और बुध है। लग्न ही बृहस्पति, शुक्र और शनि है। लग्न ही राहु और केतु है ॥४॥

1. श्रीसर्वज्ञामिधं for श्रीमत्पार्श्वामिधं A, A¹. 2. The opening verse is a salutation to *Sriparsvadeva*, Vagdevi, i.e. the goddess of speech and the grahas. It is clear, therefore, that the author of this work is Jain. 3. सताम् for स्मृतम् A, A¹, B, Bh. 4. वृद्धिं for वृद्धिं Bh.

लग्नं पृथ्वी जलं लग्नं लग्नं तेजस्तथानिलः ।

लग्नं व्योम परानन्दो लग्नं विश्वमयात्मकम् ॥५॥

म्लेच्छेषु^१ विस्तृतं लग्नं कलिकालप्रभावतः ।

प्रभुप्रसादमासाद्य जैने धर्मेऽवतिष्ठते^२ ॥६॥^३

तुला तु^४ (?) मुख्ययन्त्राणि तिष्ठन्ति किल ताजिके ।

षड्वर्गशुद्धिमाख्यान्ति लग्ननिश्चयमिच्छताम् ॥७॥

दिव्यज्ञानप्रतिच्छन्दं^५ करणी^६ केवलस्य च ।

उपकाराय लोकानां लग्नशास्त्रं करोम्यहम्^८ ॥८॥

लग्न ही पृथ्वी है, लग्न ही जल है, लग्न ही अग्नि और वायु है । लग्न ही आकाश है । ब्रह्माण्डस्वरूप लग्न ही परम आनन्द है ॥५॥

कलियुग के प्रभाव से लग्न म्लेच्छों में विस्तृत है । प्रभु की प्रसन्नता से जैन धर्म में भी विद्यमान है ॥६॥

ताजिक में भावों के जानने के लिये मुख्य साधन यन्त्र हैं । इन से लग्न का निश्चय करने वालों को छः वर्गों का शुद्ध ज्ञान हो जाता है ॥७॥

दिव्यज्ञान तथा केवलज्ञान के कारणरूप इस लग्नशास्त्र को मैं उपकार के लिये बनाता हूँ ॥८॥

1. विभ्रुतं for विस्तृतं Bh. 2. स्वतार्यते for स्वतिष्ठते B., Bh.

3. The science of astrology and astronomy was to a greater extent prevalent amongst the Greeks in the days of Alexander the Great. This was due to the iron age, according to our author.

If the reading 'अवतार्यते' instead of 'अवतिष्ठते' is adopted it would suggest that this science is borrowed from foreigners, Greeks and the like who are called here Mlecchas.

The fact of the foreign influence in this branch of literature is disputed by some Indian scholars.

4. अभाव, for तुला तु A; शुलाव A^१; श्भाव B., शुभावेमुष्य for तुला तु मुख्य Bh. 5. ज्ञातृ for ज्ञान A^१. 6. छन्दः for • छन्दं Bh. 7. करणी for करणी A, A^१. 8. धर्मशास्त्रं स्मराम्यहम् for लग्नशास्त्रं करोम्यहम् B.

त्रीन् कालान् त्रिषु लोकेषु यस्माद्बुद्धिः प्रकाशते ।
 तत् त्रैलोक्यप्रकाशाख्यं ध्यात्वा शास्त्रं प्रकाशयते ॥९॥
 ब्रह्मणाऽऽचेष्टितं साक्षात्^१ ज्ञानमानन्दमिश्रितम् ।
 स्फुटीकर्तुमिवारब्धं चतुर्जैनतनुद्भवम् ॥१०॥
 ब्रूमो ग्रहरहः,^२ सौम्याः सोमज्ञगुरुभार्गवाः ।
 तमोऽर्काकिंकुजाः क्रूराः राहोः केतुश्च सप्तमः ॥११॥
 सक्रूरो ज्ञः शश्यफलश्चतुर्दश्याद्यहस्रये ।
 शनिराहुबुधाः क्लीबाः शुक्रेन्दू स्त्री परे नराः ॥१२॥
 बुधः शिशुर्युवा भौमः शुक्रेन्दू मध्यमौ परे ।
 वृद्धा बुधे विधौ काले^३ बालिका स्त्री प्रकीर्तिता ॥१३॥

तीनों कालों में, तीनों लोकों में, जिस से बुद्धि का प्रकाश होता है, इस प्रकार के त्रैलोक्यप्रकाश नामक शास्त्र का मैं ध्यानपूर्वक प्रकाश करता हूँ ॥९॥

आनन्दयुक्त जिस ज्ञान का ब्रह्मा ने साक्षात् अनुभव किया, जैन के चार आश्रमों से उत्पन्न उल ज्ञान को मैंने प्रकट करना आरम्भ किया है ॥१०॥

प्रहों के रहस्य को हम कहते हैं। चन्द्र, बुध, बृहस्पति और शुक्र शुभ ग्रह हैं। राहु, सूर्य, शनि और मंगल पापग्रह हैं। राहु से सातवां केतु भी (पापग्रह) है ॥११॥

बुध अथवा चन्द्रमा यदि क्रूरग्रह के साथ पड़े हों तो चतुर्दशी आदि तीन दिनों में उनका शुभ फल नहीं होता। शनि, राहु और बुध - ये नपुंसकग्रह हैं। शुक्र और चन्द्रमा स्त्रीग्रह हैं। इनके अतिरिक्त अन्य ग्रह पुरुष हैं ॥१२॥

बुध बालक है। मंगल युवा है। शुक्र और चन्द्रमा मध्यम अवस्था के हैं। इनके अतिरिक्त अन्य ग्रह वृद्ध हैं। प्रभकाल के लग्न में बुध वा चन्द्रमा हो तो स्त्री बालिका होती है ॥१३॥

1. This *pada* clearly expresses the antiquity and the Aryan origin of this science, although owing to the perversity of the age it spread amongst the Mlecchas (Cf. v. 6). 2. ग्रहरह for ग्रहरहः A¹, 3. शश्यफल for शश्यफल Bh. 4. अतुर्दश्याद्य for अतुर्दश्याद्य A, A¹. 5. बाले for काले A¹, B.

चन्द्रात्सप्तमगेऽर्के विधवामसतीं कुजे बुधे चापि ।
 ससुतां गुरौ च शुक्रे ससपत्नीं निःस्त्रतां च शनौ ॥१४॥^१ ।
 शनौ वन्ध्या^२ गुरौ सूता^३ भौमे दैत्यगुरौ रवौ ।
 मूर्ते^४ वा सप्तमे स्थाने यद्यायान्ति ग्रहा अमी ॥१५॥
 दन्तुरां श्यामिकां जीर्णां शनौ राहौ वयोतिगाम् ।
 प्रश्ने नारीं सदा ब्रूयात् पुमांसं चापि लग्नवित् ॥१६॥
 आपाढो भास्करो ज्ञेयो ज्येष्ठमासः कुजे पुनः ।
 श्रावणः सबले शुक्रे चन्द्रे भाद्रपदः पुनः ॥१७॥
 पौषश्च मार्गशीर्षश्च गुरौ ज्ञेऽश्विनकार्तिकौ ।
 चैत्रवैशाखकौ राहौ मन्देऽथ माघफाल्गुनौ ॥१८॥

प्रश्नकाल में यदि सूर्य चन्द्रमा से सप्तम हो तो कन्या विधवा होगी, मंगल और बुध हों तो व्यभिचारिणी, बृहस्पति हो तो पुत्रयुक्ता, शुक्र हो तो सौतिनवाली, शनि हो तो दरिद्रा होगी ॥१४॥

यदि (चन्द्रमा अथवा लग्न से सप्तम) शनि हो तो वन्ध्या, बृहस्पति, मंगल, शुक्र और सूर्य में से कोई ग्रह हो तो सन्तान प्राप्त करने वाली कन्या का जन्म होगा ॥१५॥

यदि प्रश्नकाल में प्रश्नलग्न से सप्तम शनि वा राहु हों तो ऊंचे दांत वाली, श्यामवर्णा, दुर्बल और वृद्ध स्त्री वा पुरुष होंगे ॥१६॥

प्रश्नकाल में यदि सूर्य (बली) हो तो आषाढ में, मंगल (बली) हो तो ज्येष्ठ में, शुक्र बली हो तो श्रावण में, चन्द्र बली हो तो भाद्रपद में (प्रसव होगा) ॥१७॥

प्रश्नलग्न में यदि गुरु बली हो तो मार्गशीर्ष वा पौष, यदि बुध हो तो आश्विन वा कार्तिक, यदि राहु हो तो चैत्र वा वैशाख और यदि शनि बली हो तो माघ वा फाल्गुन में (प्रसवकाल समझना चाहिए) ॥१८॥

1. This verse is missing in B. 2. वृद्धां for वन्ध्या A., B. 3. सूतां for सूता A., B. For this line Bh. reads :— शनौ वृद्धां गुरुसुतां भौमादित्ये गुरौ रवौ । 4. I have adopted the reading of मूर्ते for मूर्ते (Amb.) 5. One of the peculiarities of this ms. is the use of ष for ल, as in वैशाख ।

मार्गवेन्दु जलचरौ ज्ञजीवौ ग्रामचारिणौ ।¹
 राहुक्षितिजमन्दार्कान् ब्रुवतेऽरण्यचारिणः ॥१९॥
 प्रातःकाले जीवबुधौ मध्याह्ने कुजभास्करौ ।
 अपराह्णे चन्द्रसितौ² सन्ध्याकाले तमःशनी ॥२०॥
 उर्ध्वदृष्टी कुजादित्यावधोदृष्टी तमःशनी ।
 तिर्यग्दृष्टी भृगुबुधौ चन्द्रजीवौ समेक्षणौ ॥२१॥
 भौमाकौ पित्तमाख्यातौ श्लेष्मिकौ चन्द्रभार्गवौ ।
 समधात् गुरुबुधौ ग्रहाः शेषास्तु वातिकाः ॥२२॥
 कटुकौ³ कुजमार्तण्डौ क्षाराम्लौ चन्द्रभार्गवौ ।

शुक्र और चन्द्रमा जलचर हैं । बुध और बृहस्पति ग्रामचारी हैं । राहु, मंगल, शनि और सूर्य वनचर कहे गये हैं ॥१९॥

बुध और बृहस्पति प्रातःकाल में, मंगल और सूर्य दोपहर में, चन्द्र और शुक्र अपराह्नकाल में, राहु और शनि सन्ध्याकाल में बली होते हैं ॥२०॥

मंगल और सूर्य की दृष्टि ऊपर की ओर होती है । राहु और शनि की दृष्टि नीचे की ओर होती है । शुक्र और बुध की दृष्टि तिरछी होती है । चन्द्र और गुरु की दृष्टि चारों ओर होती है ॥२१॥

सूर्य और मंगल की प्रकृति पित्तवाली होती है । चन्द्र और शुक्र कफप्रकृतिक हैं । गुरु और बुध कफ-पित्तप्रकृतिक होते हैं । और अन्य ग्रह वातप्रकृतिक होते हैं ॥२२॥

सूर्य और मंगल कडुवे रस वाले, चन्द्र और शुक्र चार तथा खट्टे रस वाले, बुध और बृहस्पति कषाय रस वाले, शनि और राहु मधुर और तिक्त रस वाले होते हैं ॥२३॥

1. B. and Bh. often differ from the Amb. text. For this line they read :—जीवबुधौ ग्रामचरौ जलजौ चन्द्रभार्गवौ । It may be remarked here, that the readings of the ms B. have not been recorded in all places as the ms. is only a shorter recension of the present work. It has therefore been dismissed for the collation work except at places where the verses are tolerably in consonance with the text of adoption. 2. मितौ for सितौ A. 3. A, B. The text is कटुको which is obviously incorrect.

बुधः कषायिको जीवो मधुतिकौ तमःशनी ॥२३॥^१
 जीवो गुरुबुधौ केतुशनिराहुकुजेन्दवः ।
 शुक्राकौ मूलमाधिक्यं बलं^४ यस्याधिकं तु तत् ॥२४॥
 द्विपदौ मार्गवगुरु भूपुत्राकौ^५ चतुष्पदौ ।
 पक्षिणौ बुधसौरी च चन्द्रराहु सरीसृपौ ॥२५॥
 विप्रौ शुक्रगुरु क्षत्रं कुजाकौ^६ शूद्र इन्दुजः ।
 इन्दुर्वैश्यः स्मृतो म्लेच्छौ सैहिकेयशनिश्चरौ ॥२६॥^७
 राजा मुनिः स्वर्णकारो द्विजो वणिग् विशां पतिः ।
 दासोऽन्त्यजः सूर्यमुख्याः^८ क्रमादष्टौ ग्रहा अमी ॥२७॥

गुरु और बुध में गुरु का बल अधिक है । केतु, शनि, राहु, मंगल और चन्द्रमा से शुक्र और सूर्य का बल अधिक होता है ॥२४॥

शुक्र और गुरु दो चरण वाले ग्रह माने गये हैं । सूर्य और मंगल चतुष्पद अर्थात् चार चरणों वाले ग्रह हैं । बुध और शनि पक्षिजातिक हैं । चन्द्रमा और राहु कीटजातिक हैं ॥२५॥

गुरु और शुक्र ब्राह्मण हैं । सूर्य और मंगल क्षत्रिय हैं । बुध शूद्र है । चन्द्रमा वैश्य है । शनि और राहु म्लेच्छ माने गये हैं ॥२६॥

सूर्य आदि आठों ग्रह क्रम से राजा, मुनि, सुतार, ब्राह्मण, बनिया, वैश्य, दास और चाण्डाल कहे गये हैं ॥२७॥

1. B. adds, after this verse, the following:—कटुकत्तारस्तिक्तौ मिश्रौ मधुराम्लकषायकौ । यद्वाकौ ह्यबलाधिक्ये रसाधिक्यस्य निर्णयः । 2. Bh. adds a verse here : कटुत्तारास्तिक्तमिश्रे मधुराम्लकषायकाः । यद्वाकौ ह्यबलाधिक्ये रसाधिक्ये सन्निर्णयः । 3. The reading केतु (A) for भानु is better, since the sun occurs in the third *pada* of this verse (शुक्राकौ) । 4. बले for बलं B., बाल Bh. 5. भूमिजाकौ for भूपुत्राकौ A. 6. भौमाकौ for कुजाकौ A, A^१. 7. For this verse B. and Bh. read:—ब्राह्मणौ भृगुजीवौ क्षत्रियौ रविमङ्गलौ । वैश्यस्तु चन्द्रमाः शूद्रो बुधो म्लेच्छौ तमःशनी । 8. If the reading of the text सूर्यमुखाः is adopted a syllable would run too short and the metrical symmetry be ignored. The reading सूर्यमुख्याः as found in A, A^१, and B is there-

स्थूल इन्दुः सितः खण्डश्चतुरस्रौ कुजोष्णगू ।
 वर्तिलौ सौम्यधिषणौ दीर्घौ शनिमुजंगमौ ॥२८॥
 भौमो रक्तो गुरुः पीतो बुधो नीलः शशी सितः ।
 कविः शुभ्रो रविर्गौरः कृष्णौ राहुशनी पुनः ॥२९॥
 कुजो ह्रस्वो बुधो मध्यः शशी दीर्घो लघुः सितः ।
 सूक्ष्मः शनिस्तु शुषिरो दीर्घश्चोक्तो विशेषयोः ॥३०॥
 मर्त्यौ चन्द्रबुधौ स्वर्ग्यौ गुरुसितौ विवरं परे ।
 स्वस्थानस्थाः प्रयच्छन्ति नष्टद्रव्यादिकं ग्रहाः ॥३१॥
 शुक्रे चन्द्रे भवेद्रौप्यं बुधे स्वर्णमुदाहृतम् ।
 गुरौ रत्नयुतं हेम सूर्ये मौक्तिकमुच्यते ॥३२॥^१

चन्द्रमा की आकृति स्थूल है । शुक्र कृश है । मंगल और सूर्य मध्यम शरीर वाले हैं । बुध और गुरु गोलाकार हैं । शनि और राहु लम्बे आकार वाले हैं ॥२८॥

मंगल का वर्ण सुरख है । गुरु पीला है । बुध नीला है । चन्द्रमा और शुक्र सफेद हैं । सूर्य का गौर वर्ण है । शनि और राहु काले वर्ण के हैं ॥२९॥

मंगल का स्वरूप छोटा है, बुध का मध्यम अर्थात् न बड़ा न छोटा । चन्द्रमा का स्वरूप लम्बा है, शुक्र का छोटा है । शनि का स्वरूप सूक्ष्म और बृहस्पति का लम्बा कहा गया है ॥३०॥

चन्द्रमा और बुध मर्त्यलोक के ग्रह हैं । शुक्र और बृहस्पति स्वर्ग के ग्रह हैं । अन्य ग्रह पाताल के कहे जाते हैं । अपने अपने स्थान में बैठे हुए सभी ग्रह नष्ट वस्तु को देने वाले होते हैं ॥३१॥

चन्द्रमा अथवा शुक्र अपने स्थान में यदि हों तो रूप्यों की प्राप्ति होती है । बुध के रहने पर सुवर्ण, बृहस्पति के रहने पर रत्न और सूर्य के रहने पर मोती की प्राप्ति होती है ॥३२॥

adopted. B. and Bh. read for this verse:—चतुरस्रौ रवि-
 कुजौ वृत्तौ गुरुबुधौ स्मृतौ । राहुमन्दौ तथा दीर्घौ सितोर्ध्व स्थूलकः शशी ।

1. For this verse A., A¹, B. and Bh. read;—
 शुक्रं चन्द्रे भवेद्रौप्यं हेमजीवे सरत्नकम् । रवौ मुक्ता तमस्यस्थि कुजे त्रु-
 शानावयः ॥

मौमे त्रपु शनौ लौहं राहावस्थीति कीर्तयेत् ।
 चातोर्विनिश्चये जाते विशेषोऽस्मादुदाहृतः ॥३३॥
 शुक्रे चन्द्रे जलधारो देवतावसतिगुरौ ।
 राहौ चतुष्पदस्थानमिष्टिकानिचयो बुधे ॥३४॥¹
 दग्धं स्थानं कुजे प्रोक्तं शनौ राहौ च बाह्यभूः ।²
 त्र्ये स्थाने निधिर्वीक्ष्यो नष्टस्थापित एव च ॥३५॥
 इष्टिकारक्तपाषाणताम्रशृङ्गिचतुष्पदाः ।
 शृङ्गलायुषमेदानां धान्यघातोः कुजोऽधिपः ॥३६॥
 चर्मरोमोपलारोहमहिषीदन्तसूकराः ।
 मधपा मूषका रोगाः कथ्यन्ते सवले शनौ ॥३७॥

मंगल यदि अपने स्थान में हो तो मूंगे की प्राप्ति, शनि के रहने पर सोहे की, राहु में हड्डी की प्राप्ति कहनी चाहिये । इस प्रकार धातु के निश्चय होने पर इसी से विशेष बातें भी कहनी चाहिएं ॥३३॥

चन्द्रमा और शुक्र यदि अपने अपने स्थान में हों तो गोशाला में, गुरु यदि अपने स्थान में हो तो मन्दिर में, सूर्य यदि अपने स्थान में हो तो गोशाला में, बुध यदि अपने स्थान में हो तो ईंटों के ढेर अर्थात् भट्टे आदि स्थानों पर निधि कहनी चाहिये ॥३४॥

मंगल के चौथे स्थान में होने से किसी जले हुए स्थान पर निधि होगी । शनि और राहु चौथे स्थान के हों तो बाहर की भूमि में निधि होनी चाहिये ॥३५॥

ईटे, लाल पत्थर, तांबा, सींघों वाले पशु, जंजीर, शस्त्रविशेष तथा धान्य आदि धातुओं का मंगल स्वामी है ॥३६॥

चमड़ा, बाल, पत्थर के घर, भैंस, दांत, सूअर, शराबी लोग बुध और रोग अधिक मात्रा में होते हैं यदि शनि बली हो ॥३७॥

1. A, A¹, B. and Bh. read for this verse :—
 जलाभयं क्षुगाविन्दाविष्टिकाश्रयकं बुधे । देवाश्रयं गुरौ तिर्यगाश्रयं
 चतुष्पदस्थे ॥ 2. Cf. B. and Bh. दग्धं स्थानं कुजे बाह्यभारं
 राहुसमैवरे ।

शिप्रिकास्थालकञ्चोल्हृष्यकणां बुधोधिपः ।

भृगुः प्रतिमाभरणगौल्यखाद्यशुभस्रजाम् ॥३८॥

मणिमुक्तामृद्भिरत्नादीनां नाथस्तु भानुमान् ।

नौक्षारयोः शशी सर्वस्थलधान्याधिपो बुधः ॥३९॥

श्रीखंडागुरुकर्पूरकस्तूर्यामोदिवस्तुनः ।

स्वामी बृहस्पतिर्ज्ञेयो लग्नतत्त्वविदा पुनः ॥४०॥

एतेभ्यो ग्रहेभ्यो मणिमुक्तारत्नादिनिर्णयः ॥

आत्मचिन्ता भवेद्भानौ^२ कुटुम्बस्य^३ भृगो पुनः ।

चन्द्रे च जननीचिन्ता भार्याचिन्ता बृहस्पतौ ॥४१॥

भ्रातृव्यस्य बुधे चिन्ता पितृपितृव्ययो रवौ ।

शनौ राहौ च शत्रूणामेवं चिन्ताः प्रकीर्तिताः ॥४२॥

शिप्रिका, स्थाल, कञ्चोल, तथा रुपया आदि मुद्राओं का बुध स्वामी है। प्रतिमा अर्थात् देवमूर्ति, गहने, गोलाकार खाद्य पदार्थ तथा शुभ मालाओं का शुक्र स्वामी है ॥३८॥

मणि, मोती, सीधों वाले पशु तथा रत्न आदि वस्तुओं का स्वामी सूर्य है। नाव तथा खारी वस्तुओं का स्वामी चन्द्रमा है। सभी थल कंधान्यों का स्वामी बुध है ॥३९॥

नारिकेल, अगर, कपूर, कस्तूरी आदि सुगन्धित वस्तुओं के स्वामी बृहस्पति हैं। लग्नतत्त्व के ज्ञाता को इस प्रकार जानना चाहिये ॥४०॥

[इन ग्रहों के आधार पर मणि, मोती, और रत्न आदि का निर्णय समझना चाहिये ।]

सूर्य यदि सबल हो तो अपनी चिन्ता होनी चाहिये। इसी तरह शुक्र से कुटुम्ब की, चन्द्रमा से माता की, गुरु से स्त्री की चिन्ता होनी चाहिये ॥४१॥

बुध यदि सबल हो तो भाई के पुत्र की, सूर्य यदि सबल हो तो पिता तथा चचा की, शनि और राहु यदि सबल हों तो शत्रुओं की चिन्ता होनी चाहिये ॥४२॥

1. स्वाद्य for खाद्य Bh. 2. भौमे for भानो A, A¹.
3. दुर्बलस्य for कुटुम्बस्य Amb.

रविः कर्मणि लाभे^१ च बुधचन्द्रौ कुजः क्षितौ ।

पञ्चमे सप्तमे शुक्रः सुते जीवः शनिवृषे ॥४३॥

जायास्थानस्य भावा न भृगुसुतमृते नो शनि धर्मभावा
नो सूर्य^२ कर्मभावा न भृगुहिमकरो लाभभावा भवन्ति ।

विद्यास्थानस्य भावा न गुरुमवनिजं नावनिस्थानभावा
नेन्दुं मृत्युर्न सर्वे न तनयपदं भार्गवश्चेतरश्मी ॥४४॥^३

रवी राजा शशी राज्ञी मङ्गलो मण्डलाधिपः^४

इः कुमारो गुरुर्मन्त्री सितो नेता परौ^५ भृती ॥४५॥

प्राच्यादीशा रविसितकुजराहुयमेन्दुसौम्यवाग्यतयः^६ ।

काले स्वमनः सत्त्वं^७ वाङ्मतिमुखकामदुःखानि ॥४६॥

सूर्य दसवें में, बुध और चन्द्रमा ग्यारहवें में, मंगल लग्न में, शुक्र पञ्चम वा सप्तम स्थान में, बृहस्पति पांचवे में और शनि वृष में हो तो भी उपर्युक्त बात जाननी चाहिये ॥४३॥

सप्तम स्थान में शुक्र नहीं रहे तो सप्तम भाव का दौर्बल्य कहना चाहिये । इस प्रकार ६वें में शनि, १०वें में सूर्य, ११वें में शुक्र वा चन्द्रमा, विद्यास्थान में बृहस्पति, धनस्थान में मंगल, ८वें में चन्द्रमा, पुत्रस्थान में शुक्र वा सूर्य न रहें तो उन उन भावों की दुर्बलता कहनी चाहिये ॥४४॥

प्रहों में सूर्य राजा है । चन्द्रमा रानी है । मंगल मंडलेश है । बुध राजकुमार है । बृहस्पति मन्त्री है । शुक्र नेता है । अन्य दो शनि और राहु नौकर हैं ॥४५॥

सूर्य, शुक्र, मंगल, राहु, शनि, सोम, बुध और बृहस्पति क्रम से पूर्वादि दिशाओं के स्वामी होते हैं । वे समय पाकर मनोबल, सुबुद्धि, कामपूर्ति तथा सुख और दुख के देने वाले होते हैं ॥४६॥

1. भावे for लाभे Amb. 2. Amb. reads सूर्यो for सूर्य । 3. This verse is missing in Bh. 4. मण्डलेश्वरः for मण्डलाधिपः B. 5. परो for परौ Bh. 6. For सौ...तयः B. and Bh. read :—बुधगुरुस्वगाद्याः । 7. वाग्भीत for वाङ्मति Amb.

पतिर्भुवो ज्ञस्तोयस्य शुक्रेन्दू तेजसे रविः ।
कुजश्च मरुतो राहुः शनिश्च नभसो गुरुः ॥४७॥
मांसत्वगुरोमणां मज्जास्थ्रां स्वामिनौ शनिभास्करो ।
शोणिताधिपतिर्भौमः शुक्रस्याधिपतिर्भृगुः ४८॥
बुधश्चैतन्यबुद्धीनां जीवो जीवाधिपो भवेत् ।
मनसश्चन्द्रमाः स्वामी भवेदेषां^२ वपुःस्थितिः ॥४९॥
सौरार्कक्षितिजाः शुष्काः सजलाविन्दुभार्गवौ ।
जीवज्ञावाश्रयवशाज्जलजाजलजौ स्मृतौ ॥५०॥
स्थानकालदृष्टिचेष्टादिग्निसर्गबलानि षट् ।
^३आयसुहृत्स्वत्रिकोणनवांशोच्चबलानि षट् ॥५१॥

पृथ्वी का स्वामी बुध है, जल के स्वामी शुक्र और चन्द्रमा हैं; सूर्य और मंगल तेज के स्वामी हैं; शनि और राहु वायु के और आकाश का स्वामी बृहस्पति है ॥४७॥

मांस, त्वचा और रोमों का स्वामी शनि है । मज्जा और हड्डियों का सूर्य स्वामी है । मंगल मांस का स्वामी है । शुक्र वीर्य का स्वामी है ॥४८॥

ज्ञान और बुद्धि का बुध स्वामी है । बृहस्पति जीव का स्वामी है । चन्द्रमा मन का स्वामी है । इस प्रकार ग्रहों की स्थिति शरीर में बतलाई गई है ॥४९॥

शनि, सूर्य और मंगल—ये तीन ग्रह नीरस होते हैं । चन्द्रमा और शुक्र सज्जल, गुरु और बुध अपने अपने आश्रय लेकर सज्जल और निर्जल होते हैं ॥५०॥

ग्रहों के स्थान, काल, दृष्टि, चेष्टा, दिग्, निसर्ग ये छः बल हैं । आयबल, सुहृद्बल, स्वबल, त्रिकोणबल, नवांशबल और उच्चबल—ये छः बल भी होते हैं ॥५१॥

1. The text reads :—आस for मांस ; सत्वयोम्लां for मांसत्वगुरोमणां Bh. 2. एषा for एषा A, B. 3. For आयसुहृत्स्व. B. reads आद्येषु हृत्स्व० ; This line is missing in Bb.

उच्चांशस्थे ग्रहे पूर्णं पादोनं स्वत्रिकोणगे ।
 अर्द्धं स्वर्क्षेऽधिमित्रक्षे चतुर्विंशति लिप्तकम् ॥५२॥
 पादोनं मित्रमे ज्ञेयं समर्क्षे^१ तु कलाष्टकम् ।
 चतस्रः शत्रुमे लिप्ता द्वे लिप्ते अधिशत्रुमे ॥५३॥
 स्वर्क्षादिषु ग्रहैः प्रोक्तं यत्तद्वर्गेषु तद्बलम् ।
 तदीशभादिभैः खेटैर्मूलपादोनराशिकैः ॥५४॥^२
 शुक्रेन्दू समराश्यशेषा न्यस्तवलाधिकाः ।
 रूपाद् पादवीर्याः स्युः केन्द्रादिस्थानभाश्वराः ॥५५॥

इति स्थानबलम् ।

ग्रहों के अपने उच्च अंश में होने पर पूर्ण बल होता है । अपने त्रिकोण में (अर्थात् अपने से नवम और पञ्चम में) चतुर्थांश बल कम हो जाता है । अपने राशि में आधा और अधिमित्र के गृह में चौबीस कलात्मक बल रह जाता है ॥५२॥

मित्र के घर में रहने से ग्रहों का बल चतुर्थांश कम हो जाता है । बराबर के घर में रहने से आठ कला बल होता है । शत्रु के घर में चार कला और अधिशत्रु के घर में दो कला समझना चाहिये ॥५३॥

अपनी अपनी राशि आदि में स्थित ग्रहों द्वारा उन उन वर्गों में उनका बल समझना चाहिये । ग्रहों का राशिस्थ बल ग्रहस्वामी के मूल बल से एक पाद कम होता है ॥५४॥

शुक्र और चन्द्रमा सम राशि के अंश में बलवान होते हैं । शेष ग्रहों में स्थान के अनुसार अधिक, आधा तथा पाद अर्थात् चौथाई बल होता है । केन्द्रादि स्थानों के ग्रह चर होते हैं अर्थात् उनका बल घटता बढ़ता रहता है ॥५५॥

1. समर्थे for समर्क्षे Amb. 2. For this verse B. reads : स्वर्क्षादिग्रहणो प्रोक्तं यत् षड्वर्गेषु तद् बलम् । तदंशाद्भादिगैः खेटैर्मूलपादोनरादिकैः ॥ Bh. differs from B. in the fourth *pada* as it reads :—मूलं पादोत्तरादिकैः for मूलपादोनरादिकैः ।

रात्रौ शशिकुजमन्दाः सर्वत्र ज्ञो दिने परे बलिनः ।

पक्षे बहुले रजनीग्रहाः परे शुक्रपक्षे स्युः ॥५६॥

बलं बलक्षपञ्चम्याश्चतुर्लिप्तं तिथौ तिथौ ।

शुभानामशुभानाञ्च कृष्णपञ्चमिकातिथेः^१ ॥५७॥

अहोरात्रेस्त्रिभागेषु ज्ञार्कार्कीणां बलं क्रमात् ।

चन्द्रशुक्रकुजानां च गुरोः सर्वत्र रूपकम् ॥५८॥

अब्दे मासे दिने काले होरायां च क्षणे बलम्^३ ।

पादवृद्ध्या परिज्ञेयं चैवं कालबले स्थितिः ॥५९॥

दशमत्तीये नवपञ्चमे च चतुर्थाष्टमे कलत्रञ्च ।

पश्यन्ति पादवृद्ध्या मतेन पूर्णं निजाश्रयोपान्ते^४ ॥६०॥

चन्द्रमा मंगल और शनि रात को बली होते हैं। बुध दिन और रात दोनों में बली होता है। अन्य ग्रह दिन में बली होते हैं। रात्रिग्रह अर्थात् चन्द्रमा, मंगल और शनि कृष्णपक्ष में बली होते हैं। अन्य ग्रह शुक्रपक्ष में बली होते हैं ॥५६॥

शुभ ग्रहों का बल शुक्रपञ्चमी से लेकर प्रत्येक तिथि को एक पाद घट जाता है और अशुभ ग्रहों का बल कृष्णपञ्चमी से लेकर ॥५७॥

पूरे अहोरात्र को छः भागों में बाँट कर एक एक भाग में क्रम से बुध, सूर्य, शनि, चन्द्र, शुक्र, मंगल बली होते हैं। पूरे २४ घण्टों में सूर्योदय से लेकर एक एक चार घण्टों में पूर्वोक्त बुध आदि ग्रह बली होते हैं। गुरु सर्वदा समान ही बल वाला होता है ॥५८॥

ग्रहों का कालबल—वर्ष, मास, पक्ष, दिन, होरा, क्षण में पादवृद्धि से समझना चाहिये ॥५९॥

सभी ग्रह अपने से दसवें और तीसरे को एक चरण से, नवम और पंचम को दो चरणों से, चौथे और आठवें को तीन चरणों से और सातवें को चारों चरणों से देखते हैं और फल भी उसी तरह देते हैं ॥६०॥

1. शुक्र for कृष्ण Amb, A. A¹. 2. तिथौ for तिथे: Bh.
3. बलम् is missing in B. 4. For मतेन...पान्ते B. reads-
फलानि चैवं प्रयच्छन्त। This verse is missing in Bh.
After this verse A, A¹ read :—एकादशमायभवन् सर्वे
पश्यन्ति खेचराः सम्यक् । मूर्ति च सकलदृष्ट्या फलानि चैवं प्रयच्छन्ति ॥
पूर्वी परयति रविजस्तृतीयदशमे त्रिकोणमपि जीवः । चतुरस्रं भूमिसुतो
रविसितबुधहिमकराः कलत्रं च ॥

वक्रगा अबला वक्रान्मार्गाः शुभदा रविः ।

उत्तरायणगो युद्धे ग्रहाणामुत्तरो बली ॥६१॥

दिक्षु ज्ञो गुरुरविक्रजशनिसितशशिनो निसर्गास्तु^१ ।

कुजशनिबुधगुरुसितशशिरविवले क्रमाद्राहुरधिकबलः ॥६२॥

अस्तमिताः शत्रुजिता नीचस्था नीचगामिनो विरुचः^३ ।

रिपुग्रहगरूक्षहस्वा अणवः कार्याक्षमा अबलाः ॥६३॥

क्रूरैर्युक्ता क्रान्ता दृष्टा विद्धा जिता न कार्यकराः ।

शुभफलदा विपरीताः स्वावस्थाविकलाः सर्वे^४ ॥६४॥

दीप्तः स्वस्यो नीचो मुदितः पीडितः शान्तः खलः शक्तो विकलः^५

ग्रह वक्री होने से निर्बल हो जाते हैं । फिर वक्री से मार्गी होने पर शुभ फल को देने वाले होते हैं । सूर्य उत्तरायण होने पर अर्थात् मकरादि ६ राशि में रहने से बली होता है । ग्रहयुद्ध में उत्तर दिशा में दिखने वाले ग्रह बली होते हैं ॥६१॥

पूर्वादि दिशाओं में क्रम से बुध, गुरु, भौम, शुक्र, चन्द्र और शनि बली होते हैं । भौम, शनि, बुध, गुरु, शुक्र, चन्द्र, सूर्य इन ग्रहों में क्रमिक एक से दूसरा बलवान होता है । राहु सब से अधिक बलवान होता है ॥६२॥

यदि कोई ग्रह सूर्यबिम्ब से अस्त हो अथवा शत्रु से जीता हुआ हो, वा नीच में हो, वा नीचगामी हो वा कान्तिहीन हो, वा शत्रु के घर में होने से स्तान अथवा छोटा हो गया हो तो वह निर्बल होता है और कायसाधक नहीं होता ॥६३॥

यदि कभी कोई ग्रह पापग्रहों से युक्त वा आक्रान्त हो, वा उनसे देखा गया हो, वा उनसे विद्ध हो, वा पराजित हो तो कार्यसाधक नहीं होता । शुभ फल को देने वाले भी ग्रह यदि स्वस्थ न रहें अर्थात् पाप आदि ग्रहों से पराजित हों तो वे भी अशुभ फल को ही देते हैं ॥६४॥

दीप्तावस्था, स्वस्थावस्था, नीचावस्था, प्रसन्नावस्था, पीडितावस्था, शान्तावस्था, खलावस्था, शक्तावस्था और विकलावस्था—ये

1. निसर्गास्तु शनिः A., B. and Bh. 2 'शनि' is missing in A, B. & Bh. 3. निरुचयः for विरुचः Bh. 4. स्वावस्थोचि-
वकलाः सर्वे for स्वावस्थाविकलाः सर्वे A, A¹, B. and Bh. 5.
शान्तः खलशक्विकलाः for शान्तः खलः शक्तो विकलः A, B. & Bh.

स्वोच्चे दीप्तः स्वगृहे स्वस्थो नीचो वीक्षितो ह्यबलः^१ ॥६५॥
 मित्रगृहे मुदितो गृहविजितः पीडितः स्ववर्गगः शान्तः ।
 अरिगः खलोऽतिकिरणः शक्तो रविहतरुचिर्विकलः ॥६६॥
 शत्रु मन्दसितौ समश्च शशिशो मित्राणि शेषा रवे-
 स्तीक्ष्णांशुर्हिमरश्मिजश्च सुहृदौ शेषाः समाः शीतगोः ।
 जीवेन्द्रुष्णकराः कुजस्य सुहृदो ज्ञोऽरिः सितार्की समौ
 मित्रे सूर्यसितौ बुधस्य हिमगुः शत्रुः समाश्चापरे ॥६७॥
 सौरैः^२ सौम्यसितावरी रविसुतो मध्ये परे त्वन्यथा
 सूर्यार्कीसुहृदौ समौ कुजगुरु शुक्रस्य शेषावरी ।
 शुक्रज्ञौ सुहृदौ^३ समः सुरगुरुः^४ सौरस्य चान्येऽरयः
 तत्काले च दशायचन्धुसहजस्वान्तेषु मित्रस्थिताः ॥६८॥

अवस्थायें होती हैं जब ग्रह अपने उच्च में रहें तो दीप्त, अपने घर में रहें तो स्वस्थ और नीच में रहें वा नीच से देखे जायें तो अबल होते हैं ॥६५॥

ग्रह अपने मित्र के घर में रहने से प्रसन्न और किसी अन्य ग्रह से पराजित होने पर पीडित और अपने वर्ग में रहने से शान्त रहते हैं। शत्रु के घर में रहने से खल, अति किरण वाले दिखाई देने पर शक्त और सूर्य की किरणों से हतप्रभ हो जाने पर विकल होते हैं ॥६६॥

गुरु के शुक्र और बुध शत्रु हैं, शनि सम और अन्य चन्द्रमा, मंगल, गुरु मित्र हैं। चन्द्रमा के सूर्य और बुध मित्र और अन्य ग्रह सम हैं। मंगल के गुरु, चन्द्र, रवि मित्र, बुध शत्रु और शुक्र-शनि सम हैं। बुध के सूर्य शुक्र मित्र, चन्द्रमा शत्रु और अन्य ग्रह सम हैं ॥६७॥

सूर्य के शुक्र और शनि शत्रु हैं, बुध सम, चन्द्रमा और मंगल मित्र हैं। शुक्र के बुध और शनि मित्र, मंगल और गुरु सम, और अन्य शत्रु हैं। शनि के बुध, शुक्र मित्र, गुरु सम और अन्य शत्रु हैं। १०१११४३१२१२ इन स्थानों में रहने वाले ग्रह तात्कालिक मित्र हैं ॥६८॥

1. नीचानीचस्थितिदीनः for नीचो वीक्षितो ह्यबलः । A, B, & Bh. 2. सौरैः for सूरैः A, A¹. 3. शुक्रोज्ञैरसुहृदो for शुक्रज्ञौ A¹. 4. The *Visarga* is missing in A.

कन्या राहुगृहं^१ प्रोक्तं राहुचं मिथुनं स्मृतम् ।

राहुनीचं धनुर्वर्णादिकं शनिवदस्य च ॥६९॥

मेवाद्या राशयो न्यस्ताः^२ खे चक्रे द्वादशारके ।

उदयैर्ग्रहयोगार्थैर्व्यञ्जयन्तीष्टमङ्गिनाम् ॥७०॥

क्रियतावुरिजितुमकुलीरलेयपाथेनयूपक्रयाख्याः ।

तार्क्षिक आकौकेरो हृद्रोगश्चान्तिमं रिष्यम्^३ ॥७१॥

शीर्षमुखबाहुररुदरकटिबस्तयः ।

युग्लोरु जानुजंघे च पादौ राशिरजादिकः^४ ॥७२॥

क्रूराक्रूरनरस्त्रीकाश्चरान्यद्विविधाः क्रमात् ।

राहु का घर कन्या कहा गया है । मिथुन उसका उच्च है । उसका नीच धनु और अन्य वर्णा आदि भी शनि की तरह जानने चाहिये ॥६९॥

द्वादशात्मक चक्र में स्थित मेवादि राशि लग्न और ग्रहों के योगादि से मनुष्य के शुभ फल को प्रकाशित करते हैं ॥७०॥

मेवादि राशियों की संज्ञायें क्रम से क्रिय, तावुरि, जितुम, कुलीर लेय, पाथेन, यूप, क्रय, तार्क्षिक, आकौकेर, हृद्रोग, रिष्य होती हैं ॥७१॥

मेवादि राशियों के क्रम से शिर, मुख, बाहु, छाती, पेट, कटि, बस्ति, (कटिपश्चाद्भाग) गुदामार्ग, खुट्टियां, घुटने, जांघे और पांव अंग होते हैं ॥७२॥

मेष आदि राशि क्रम से क्रूर, अक्रूर, नर-स्त्री-जातिक और चर स्थिर स्वभाव वाले होते हैं । जैसे—

मेष = क्रूर

” नर

” चर

वृष = अक्रूर

” स्त्री

” स्थिर

और मेवादि तीन तीन पूर्वादि दिशाओं में बली होते हैं ॥७३॥

1. शनिवर्णा for धनुर्वर्णा Bh. 2. न्यस्तं for न्यस्ताः A, B. 3. For this verse A, A¹ read :—क्रियतावुरिजितितानुमु-कुलीरलेयपाथेनयूपक्रयाख्या । तार्क्षिक आकौकेराद्ग्रेरगश्चान्तिमं ऋक्षम् । Cf. Bh. त्रिजितावुरिजितुमुकुलीरलेयपाथेनयूपक्रयाख्या तार्क्षिका आपोषुकरे कुट्टापश्चाविरिष्यम् । 4. रजादयः for रजादिकः Bh. 5. अरान्यवि for अरान्यद्वि० Bh.

मेषाद्यास्ते च पूर्वाद्यास्त्रिंशदित्युष्टयाः ॥७३॥

स्वनाम्ना सदृशाकाराः समाचारा^१ धनुस्त्वह ।

ह्यतुल्यपूर्वकायो मकरश्च मृगाननः ॥७४॥

वर्णा रक्तशुक्लपीतनीलपाटलधूसराः ।

चित्रोजसितः सुवर्णामः पिङ्गकबु^२ रचभ्रवः ॥७५॥

चतुष्पादा^३ वृषो मेषो मृगो धनुरघोऽग्नयः ।

सिंहो धनुरजोभूमिर्मरुत्कन्या^३ वृषो मृगः ॥७६॥

खं मिथुनतुलाकुम्भा जलं मीनालिकर्कटाः ।

अग्निस्तुलामृगाश्चापि यथास्थानफला अमी ॥७७॥

दग्धस्थानमधः स्वोशः तुलायाः प्रथमोलिनः^४ ।

शब्दौ मेषो वृषः सिंहमिथुनौ च धनुस्तुलौ ॥७८॥

मेषादि क्रम से पूर्वादि दिशाओं में आवृत्ति कर के तीन तीन राशि बली होते हैं जैसे—

मेषादि प्रत्येक राशि के आकार और आचार अपने अपने नाम वाले जीवों से मिलते हैं । धनु के पूरे भाग का आकार घोड़े के शरीर के पूर्व-भाग के समान होता है, मकर का आकार मकर के समान होता है ॥७४॥

राशियों के वर्ण क्रम से लाल, सफेद, पीला, नीला, थोड़ा लाल, धूसर, रंगों की मिलावट से विचित्र, काला, सुवर्ण की तरह, पिङ्ग, कर्बुर और बभ्रु होते हैं ॥७५॥

मेष, वृष, मकर, धनु, चतुष्पाद अर्थात् पशु हैं । इनका स्वभाव अग्नि के समान है । सिंह, धनु और मेष भूमि हैं । कन्या, वृष और मकर वायु हैं । मिथुन, तुल और कुम्भ आकाश हैं । मीन, वृश्चिक और कर्क जल हैं । तुल और मकर अग्नि भी हैं । स्थानानुसार इनका फल होता है ॥७६-७७॥

तुल के अपने अंश का नीचे वाला स्थान दग्ध होता है । वृश्चिक का पहला अपना अंश दग्ध स्थान होता है । मेष, वृष, सिंह और मिथुन

1. समवारा for समाचारा Bh. 2. चतुष्पदो for चतुष्पादा A, A¹ & Bh. 3. रूढाः कन्या for मरुत्कन्या A, & Bh 4. अस्तं for अग्नि A, A¹, Bh. 4. प्रथमोलिनः for प्रथमोलिनः Bh.

अर्द्धशब्दौ^१ षट्कन्यामकराः शब्दवर्जिताः ।
 कर्कशृश्विकमीनाश्च संप्रतिप्रसवा यथा ॥७९॥
 कर्कशृश्विकमीनाः स्युर्वह्नपत्या मिथुनो वृषः ।
 कुम्भो मध्या^२ हरिमेषकन्यामृगतुलाल्पकाः ॥८०॥
 तुलालिमकराः कुंभः पाठीनः ककटो वृषः ।
 सजलाश्चार्द्राः स्निग्धाश्च सप्ताजाद्याः परेऽन्यथा ॥८१॥
 सिंहमेषधनुर्जेयाः स्वर्णादिवर्णतापिनः ।
 राजानो ब्रुवते^३ मीनमृगकर्कास्तनुस्थिताः ॥८२॥
 रूक्षाः^४ सिंहधनुर्मेषाः पीतोष्णाः पित्तघातवः ।
 दिने चैषां पतिः सूर्यो रात्रौ जीवः सदा शनिः ॥८३॥
 वृषकन्यामृगा रूक्षा उष्णा शीताश्च वातलाः ।
 एषां स्वामी दिने शुक्रो रात्रौ चन्द्रः सदा कुजः ॥८४॥

पूर्ण शब्द वाले हैं । धनुष और तुल अर्द्ध शब्द वाले हैं । कुम्भ, कन्या और मकर शब्दहीन हैं । कर्क, वृश्विक और मीन सद्यःप्रसव अर्थात् शीघ्र फलदायक हैं ॥७८-७९॥

राशियों में कर्क, वृश्विक, मीन अधिक सन्तान वाले होते हैं; वृष, मिथुन, कुम्भ मध्यम सन्तान वाले, सिंह, मेष, कन्या, मकर, तुल थोड़ी सन्तान वाले होते हैं ॥८०॥

तुला, वृश्विक, मकर, कुम्भ, मीन, कर्क, वृष ये राशि सजल, आर्द्र और स्निग्ध होते हैं । मेषादिक अन्य राशियों को इन से विपरीत समझना चाहिये ॥८१॥

सिंह, मेष, धनु राशि सुवर्ण की तरह प्रकाश वाले होते हैं । मीन, मकर, कर्क यदि लग्न में स्थित हों तो इन्हें राजा कहना चाहिये ॥८२॥

सिंह, धनु, मेष रूक्ष लग्न होते हैं । उनका वर्ण पीला और वे पित्त प्रकृति वाले होते हैं । दिन में इन के स्वामी सूर्य और रात में गुरु और शनि सर्वदा स्वामी होते हैं ॥८३॥

वृष, कन्या और मकर रूक्ष लग्न होते हैं । क्रमशः गम, शीत और वायुप्रकृति होते हैं । इनके दिन में शुक्र और रात में चन्द्रमा और मंगल सर्वदा स्वामी होते हैं ॥८४॥

1. षट् for षट् Amb. 2. मध्या for मध्या Bh. 3. क्रमतो for ब्रुवते Amb 4. सूर्याः for रूक्षा : A.

^१ युग्मकुम्भतुला उष्णाः स्निग्धाङ्गा वातघातवः ।
 रात्रौ चैषां बुधः स्वामी दिने मन्दः सदा गुरुः ॥८५॥
 कर्कशीनालिनः शीताः स्निग्धाश्च श्लेष्मघातवः ।
 दिने चैषां सितः स्वामी रात्रौ भौमः सदा गुरुः^२ ॥८६॥

अथ राशिवैचित्र्यप्रकरणम्

चत्वारो राशयोऽजाद्या धनुर्मृगो निशा इमे^३ ।
 अन्ये दिवसमाख्याताः शेषाः षडपि राशयः ॥८७॥
 पृष्ठोदयाः कर्कमृगधनुर्मेघवृषा अमी ।
 शेषाः शीर्षोदया ज्ञेया मीनस्तूभयजः स्मृतः ॥८८॥
 गृहे होरा च द्रेष्काणा नवांशो द्वादशांशकः ।
 त्रिंशांशश्चेति षड्वर्गः शुद्धिः शुद्धांशतोच्यते ॥८९॥
 कुजभृगुबुधविधुरविवुधसितकुजगुरुमन्दमन्दरीजीवपतिः^४ ।

मिथुन कुम्भ और तुला लग्न गर्म कोमल तथा वायुप्रकृतिक होते हैं । इनके दिन में शनि, रात में बुध, और गुरु सर्वदा स्वामी हैं ॥८५॥

कर्क, मीन, वृश्चिक लग्न शीत, कोमल तथा कफप्रकृतिक हैं । शुक्र इनके दिन में, मंगल रात में और बृहस्पति सर्वदा स्वामी हैं ॥८६॥

राशिवैचित्र्यप्रकरण

मेषादिक चार और धनु तथा मकर ये छः राशियां रात को बली होते हैं । इनके अतिरिक्त अन्य छः राशियां दिन को बली होते हैं ॥८७॥

कर्क, मकर, धनु, मेष, और वृष पृष्ठोदया होते हैं । इनके अतिरिक्त अन्य लग्न शीर्ष से, केवल मीन मुख-पुच्छ दोनों से उदित होता है ॥८८॥

राशि, होरा, द्रेष्काण (अर्थात् राशि का तीसरा भाग), नवांश, द्वादशांश और त्रिंशांश ये षड्वर्ग हैं ॥८९॥

1. The reading युग्म for मिथुन (Amb.) fits in with metre. 2. सदोद्भूतः for सदा गुरुः A, A¹. 3. निशामिमे for निशा इमे A. 4. शनिजीवपतिकः for मन्दरीजीवपतिः A, शनिश्च जीवपतिः Bh.

मेषादिराशिरजमृगतुलाकर्कादिस्त्रिधा वृत्त्या ॥९०॥

द्वित्रिनवद्विरसत्रिंशद्भागो लग्नेऽथ^१ होराद्याः ।

होराद्यार्की परा चान्द्री विषमे व्यत्ययः समे ॥९१॥

लग्नं तत्पञ्चनवमाद् द्रेष्काणा आदितो नवांशेशः ।

स्वगृहादकर्कांशेशास्त्रिंशांशाधिपतयस्तु यथा ॥९२॥

कुञ्जयमग्नीवज्जसिताः पञ्चेन्द्रियवसुमुनीन्द्रियांशानाम्^२ ।

विषमेषु समर्धेषु^३ क्रमेण त्रिंशांशकाः कल्प्याः ॥९३॥

तनुर्धनानुजमित्र ४ सुत ५ रिपु ६ गृहिणी ७ मृतिः ८

मेषादि राशियों के क्रम से मंगल, शुक्र, बुध, चन्द्र, रवि, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, शनि, गुरु प्रहस्वामी हैं ॥६०॥

राशि का आधा तृतीयांश, नवमांश द्वादशांश, त्रिंशांश स्वगृह ये क्रम से होरा, द्रेष्काणा, नवांश, द्वादशांश, त्रिंशांश, गृह, षड्वर्ग होते हैं। उस में विषम राशि में पहले पन्द्रह अंश तक सूर्य की होरा, उस के बाद तीस अंश तक चन्द्रमा की होरा होती है। सम राशि में पहली चन्द्रमा की दूसरी सूर्य की होरा होती है ॥६१॥

राशि के दश अंश तक वही राशि द्रेष्काणा होता है। उसके बाद बीस अंश तक उस राशि का पाँचवाँ राशि द्रेष्काणा होता है। उस के बाद तीस अंश तक उस राशि का नवम राशि द्रेष्काणा होता है। और चर (मेष, कर्क, तुल, मकर) राशि में स्वराशि से ही नवमांश की गणना होती है और स्थिर (वृष, सिंह, वृश्चिक कुम्भ) राशि में इसके नवम (मकर, मेष, कर्क, तुल) से नवमांश की गणना होती है और द्विस्वभाव (मिथुन, कन्या, धनु, मीन) राशि में इसके पञ्चम (तुल, मकर, मेष, कर्क) से नवमांश की गणना होती है और द्वादशांश की गणना स्वराशि से ही होती है ॥६२॥

विषम राशियों में मंगल, शनि, गुरु, बुध, शुक्र क्रम से ५वें, ५वें, ८वें, ७वें ५वें त्रिंशांशकों के स्वामी होते हैं। सम राशियों में विपरीत क्रम से त्रिंशांशों के स्वामी होते हैं ॥६३॥

तनु, धन, अनुज, मित्र, सुत, रिपु, गृहिणी, मृत्यु, धर्म, कर्म.

1. त्रिंशांशोणी च for त्रिंशद्भागो लग्नेऽथ Amb.
2. वसुमतीन्द्रियांशान्ताः for वसुमतीन्द्रियांशानाम् Amb. वसुमतीन्द्रियांशानाम् A.
3. समर्धेषु for समर्धेषु Amb.

धर्म ९ कर्मा १० य ११ व्ययतो^१ भावा द्वादश लग्नाः ॥९४॥

तनुलग्नमूर्तिहोराकल्पोदया धनमथ^२ कुटुम्बञ्च ।

विक्रमदुश्चिक्यमथ सुहृद्धिबुकपातालम् ॥९५॥

वेदमाम्बुबान्धवसुखं चतुरस्रं त्वष्टमे चतुर्थे च ।

पुत्रो धीः प्रतिभारिक्षतं कलत्रं तथा घनम् ॥९६॥

जामित्रं चित्तोत्थं घनमस्तं मृत्युरन्ध्रछिद्राणि ।

धर्मो गुरुस्तपस्त्रिकोणमिदमत्र सुतसहितम् ॥९७॥

कर्मास्पदमेष्टरणमानाज्ञायभवनलाभान्त्यरिक्थम् ।

कटककेन्द्रचतुष्टयमेकचतुर्थास्तदशमानाम् ॥९८॥

आय, व्यय—ये लग्नादि द्वादश भावों की क्रमिक संज्ञाएं हैं ॥९४॥

तनुभाव की संज्ञा—तनु, लग्न, मूर्ति, होरा, कल्प, उदय है ।

धनभाव की संज्ञा—कुटुम्ब भी है ।

अनुजभाव की संज्ञा—विक्रम, दुश्चिक्य भी हैं ।

मित्रभाव के लिये सुहृद्, हिवुक और पाताल भी कहे जाते हैं ॥९५॥

मित्रभाव के लिये वेदम, अम्बु बान्धव, सुख ये भी संज्ञाएं हैं ।

चतुरस्र से चौथा और आठवां दोनों का ग्रहण होता है । सुतभाव के लिये धी, रिपुभाव के लिये प्रतिभ, अरि, क्षत तथा सप्तमभाव के लिये कलत्र तथा घन शब्दों का भी प्रयोग होता है ॥९६॥

इसी भाव के लिये जामित्र, चित्तोत्थ, घन, अस्त भी पर्याय हैं ।

अष्टमभाव के लिये मृत्यु, रन्ध्र, छिद्र, नवमभाव के लिये धर्म, गुरु, तप पर्याय हैं । त्रिकोण से नवम तथा पञ्चम दोनों का ग्रहण होता है ॥९७॥

दशम भाव के लिये कर्म, आस्पद, मेष्टरण । ग्यारहवें भाव के लिये आय, लाभ । बारहवें भाव के लिये अन्त्य, रिक्थ । कटक, केन्द्रचतुष्टय लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम स्थानों को कहते हैं ॥९८॥

1. व्ययिता for व्ययतो A. 2. मघधनं for धनमथ A.

3. A reads मानान्यज्ञायभवनलाभान्त्यरिक्थुः for मानाज्ञाय
etc. ॥ मांसं नान्यायभुवनलाभान्त्यरिक्थं Bb.

लघुभूस्वभ्रखकेन्द्रमाद्यं तुर्यास्तिकर्मजम् ।

केन्द्रात्परं पणपरं तस्मादापोक्तिमं परम् ॥९९॥

पणफराद्भावि कार्यं ज्ञेयमापोक्तिमाद्रतम् ।

केन्द्रे सर्वे ग्रहाः पुष्टास्त्रैलोक्यैकफलप्रदाः ॥१००॥

घटमीनौ च चत्वारः सिंहाद्वाच्या दिनेश्वराः ।

मेषाद्या मृगचापौ च चत्वारश्च निशाह्वयाः ॥१०१॥

रव्यादय उच्चा अजवृषमृगकन्याकुलीरभ्रषतौलौ ।

परमोच्चा दश १० त्रिरे मोहर २८ तिथि १५ शर ५ मर ७ नखैः २० ॥

उच्चस्थानास्तगा नीचाः परमोच्चास्तदंशगाः ।

त्रिकोणोऽर्कादिर्मिहोऽक्षोऽजन्त्रीचापतुला घटाः ॥१०३॥

भू लघु की संज्ञा है । श्वभ्र, ख दशम स्थान की संज्ञा और लघु, चतुर्थ, सप्तम, दशम केन्द्र कहलाते हैं और केन्द्र के बाद द्वितीय, पञ्चम, अष्टम, एकादश स्थान पणपर कहलाते हैं । उसके बाद तीसरा, छठा, नवम, बारहवाँ स्थान आपोक्तिम कहलाते हैं । १६६॥

परफण से भविष्य का और आपोक्तिम से भूतकार्य का ज्ञान होता है । केन्द्रस्थित यदि सभी ग्रह पुष्ट हों तो भूत, भविष्य और वर्तमान कालों के फल को बतलाते हैं ॥१००॥

सिंह से चार, तथा कुम्भ और मीन दिन में बली होते हैं । मेष आदि चार, मकर और धनु ये रात्री में बली होते हैं ॥१०१॥

मेष, वृष, मकर, कन्या, कर्क, मीन, तुल राशियों में सूर्यादि ग्रहों के उच्च होते हैं । यही ग्रह १०३१२८१५१५१२७२० अंशों से परमोच्च होते हैं ॥१०२॥

उच्च स्थान से सप्तम में ग्रह नीच होते हैं । परमोच्च के अंश ही नीच राशि में परम नीच कहलाते हैं । सूर्यादि सात ग्रहों के क्रम से सिंह, वृष, मेष, कन्या, तुल, धनु, कुम्भ ये मूल त्रिकोण कहलाते हैं ॥१०३॥

1. श्व for स्व A. 2 पणपरं for पणपरं Bh. 3. क्तिमं for क्तिमं Bh. 4. फरण्या for पणफरा A. 5 क्रि for क्ति A. 6. ०क्षैकाक्षिक० for ० क्षैलोक्यै० A. 7. परमोच्चा for परमोच्चा A.

चरादिचादिमध्यान्त्या वर्गोत्तमनवांशकाः ।
 त्रिषट्दशैकादशमोपचयाः स्युः परेऽन्यथा ॥१०४॥
 कर्मणा येन येनेह प्रेरितोऽभ्येति पृच्छकः ।
 जन्मपृच्छारम्भलग्नेस्तत्तस्य व्यज्यते त्रिभिः ॥१०५॥
 यो भावः स्वामिना सौम्यो^२ दृष्टो युक्तः^३ समृद्धिमान्^४ ।
 पापैस्तु हानिमानेवं द्वयमिन्दोर्युतौ दृशि^५ ॥१०६॥
 लग्नसौम्यान्तरा योगा लग्नेश्वरशुभान्तराः ।
 चन्द्रसौम्यान्तरः पुण्यस्तरणिश्च^६ शुभान्तरा ॥१०७॥
 मुद्यशिलास्तु विज्ञेया रवेस्तुल्याः^७ शुभान्तराः ।
 तावन्तो मचकूलाश्च ज्ञेयाः शुभनिरीक्षणे ॥१०८॥
 लग्ने चन्द्रः शनिः कुम्भो रवौ बुधे^{१०} विरश्मितः^{११} ।

चर, स्थिर, द्विस्वभाव, राशियों के क्रम से आदि, मध्य, अन्य
 नवमांश वर्गोत्तम कहलाते हैं और ३, ६, १०, ११ वें उपचय कह-
 लाते हैं ॥१०४॥

प्रष्टा जिस जिस कर्म से प्रेरित होकर आता है वह कर्म, जन्म,
 तथा भ्रूच्छाकाल अथवा कर्म के आरम्भकाल—इन तीनों से प्रकट हो
 जातों हैं ॥१०५॥

जो भाव शुभ ग्रह वा स्वामी से युक्त हो वा देखा जाय वह समृद्धि-
 प्रद होता है। यदि पापग्रहों से युक्त हो वा देखा जाय तो हानिकारक
 होता है। यदि चन्द्रमा से युक्त हो वा देखा जाय तो वृद्धि-हानि दोनों
 होते हैं। अर्थात् पूर्वाचन्द्र से वृद्धि और क्षीणाचन्द्र से हानि होती है ॥१०६॥

सौम्य लग्न के अन्तरयोग लग्नेश के शुभान्तर होते हैं। सौम्य
 चन्द्र का अन्तर भी शुभकारक है। तरणियोग भी शुभान्तर है। बारह
 मुन्यशिला भी शुभान्तर हैं। बारह मचकूल भी शुभान्तर हैं। शुभ दृष्टि
 में इन का भी विचार करना चाहिये ॥१०७-१०८॥

1. चरादावादि for चरादिचादि A. 2. सौम्ये for सौम्यो A.
 3. वृद्धः for युक्तः Amb. 4. समृद्धि for समृद्धि A. 5. तद्विन्दो-
 र्युतौ दृशि for द्वयमिन्दोर्युतौ दृशि Bh. 6. ंस्तरयोश्च for ंस्तरणिश्च
 A. 7. मुन्य for मुद्य A, A¹ मयुशला Bh. 8. द्वादशव for
 रवेस्तुल्याः A, A¹. 9. मचकूलाश्च for मचकूलाश्च Bh. 10. रविबुधौ
 for रवौ बुधे Bh. 11. रश्मितः sor वराश्मितः Amb,¹.

कौटिल्येनागतः प्रष्टा¹ विज्ञायैवं ततो वदेत् ॥१०९॥
उदयादागतः नाख्यस्तासामर्द्धेन संख्यया ।

सूर्यर्धा²द्भवेदृशं तेन लग्नस्य निर्णयः ॥११०॥³

इति लग्नज्ञानम् ।

धनस्थाने यदा चन्द्रः सौम्यो वा यदि गच्छति ।

धनेशो वापि लग्नेशो यदोदेति तदा धनी ॥१११॥

भ्रातृगेहे यदा चन्द्रः सौम्यो वाभ्येति वा पुनः ।

भ्रात्रीशो वापि लग्नेशो यदोदेति तदा धनी⁴ ॥११२॥

निधिस्थाने यदा चन्द्रः सौम्यो वा यदि वा धनः ।

निधीशो वापि लग्नेशस्तदा सौख्यं निधिस्थितिः ॥११३॥

पुत्रभावे यदा चन्द्रः सौम्यो वा प्रथमोदितः⁵ ।

पुत्रेशो वापि लग्नेशः सुतप्राप्तिस्तदा ध्रुवम् ॥११४॥

लग्न में यदि चन्द्रमा, शनि हो, कुंभ राशि में सूर्य और बुध तेज होने हो तो प्रष्टा का मन कुटिल समझना चाहिये। यह जान कर उत्तर भी उसी प्रकार देना चाहिये ॥१०६॥

सूर्योदय से नाड़ियों की आधी संख्या द्वारा सूर्यनक्षत्र से जो नक्षत्र निकले उससे लग्न का निर्णय करना चाहिये ॥११०॥

चन्द्र वा बुध धनस्थान में हों अथवा वे धनेश वा लग्नेश हों तो मनुष्य अवश्य धनी होगा ॥१११॥

चन्द्र वा बुध भ्रातृस्थान में हों अथवा वे भ्रात्रीश वा लग्नेश होकर रहें तो मनुष्य अवश्य धनी होगा ॥११२॥

चन्द्र वा पुष्ट बुध चतुर्थस्थान में हों अथवा वे निधीश वा लग्नेश होकर रहें तो वह अवश्य सुखी होगा ॥११३॥

चन्द्र वा बुध पुत्रभाव में हों अथवा वे पुत्रेश तथा लग्नेश होकर रहें तो पुत्रप्राप्ति अवश्य होनी चाहिये ॥११४॥

1. पृष्टा for प्रष्टा A. 2. सूर्यभाद् for सूर्यर्धा A.

3. A, A¹ add : गतः कटिकाः षड्गुणितगतसंक्रान्तेर्दिनानि सम्मील्य । त्रिंशन्त्या च हरेद् भागं शेषं तात्कालिकं लग्नम् ॥ 4. This verse is repeated in the text. तदानुजः for तदा धनी Bh. 5. वाय माहितः for वा प्रथमादितः । वान्य प्रमोदितः Bh.

पुत्रौकसि यदा चन्द्रः शुभखेटविलोकितः ।
 उपायाः सामदण्डावाश्वाष्टधापि धिया सह ॥११५॥
 रिष्वोकसि यदा चन्द्रः सौम्यो वा सघनो बलः^१ ।
 रिपुणा^२ वापि लग्नेशो रिपुरोगौ घनौ कुधीः ॥११६॥
 अस्तगेहे चन्द्रशुक्रौ शुभदैरुदितैस्सह ।
 भार्येशो वापि लग्नेशः स्त्रीराज्यं च तदा ध्रुवम् ॥११७॥
^३मृत्यूपेन्दू यदा मृत्यौ सौम्यो वापि यदोदितः ।
 द्वाविंशतितमे त्र्यंशे तदा मृत्युः स्वयं ध्रुवम् ॥११८॥
 पदस्थाने यदा चन्द्रः शुभो वा सरविर्भवेत्^४ ।
 पादेशो वापि^५ लग्नेशो मुद्राप्राप्तिस्तदैव हि ॥११९॥
 पुण्यगेहे यदा चन्द्रः सौम्यो^६ वापि यदोदितः^७ ।
 धर्मेशो वापि लग्नेशो राज्यप्राप्तिस्तदा ध्रुवम् ॥१२०॥

चन्द्र यदि पुत्रस्थान में हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो संतानों के साथ साम-दण्ड आदि सभी उपाय सफल हो जाते हैं ॥११५॥

यदि चन्द्र वा बुध शत्रुस्थान में पुष्ट और बली हो अथवा लग्नेश होकर शत्रु के साथ रहे तो शत्रुभय और रोगभय तथा मनुष्य मूर्ख होता है ॥११६॥


चन्द्र और शुक्र सप्तम स्थान में हों, उदित शुभ ग्रहों से देखे जाते हों और वे लग्नेश तथा जायेश होकर रहें तो निश्चय ही स्त्री का प्रभुत्व होता है ॥११७॥

चन्द्र और शुक्र यदि अष्टम स्थान में हों और उदित बुध से युक्त या देखे जायें तो बाईसवें वर्ष के तीसरे अंश में निश्चय ही मृत्यु होती है ॥११८॥

चन्द्र अथवा अन्य शुभ ग्रह तृतीय स्थान में सूर्य के साथ हों अथवा वे तृतीयेश तथा लग्नेश होकर रहें तो रूपयों की प्राप्ति होती है ॥११९॥

चन्द्र वा बुध पुण्यस्थान में हों अथवा वे धर्मेश वा लग्नेश होकर रहें तो निश्चय ही राज्यप्राप्ति होती है ॥१२०॥

1. सबलाधनां for सघनो बलः Bh. 2. रिपुणा for रिपुणा
 Bh. 3. मृत्यु for मृत्यु A. 4. सौम्यो वापि सविर्भवेत् for शुभो वा
 सरविर्भवेत् A. 5. शुभो वाथवा for पादेशो वापि A. पादेशो वापि Bh.
 6. सोमो for सौम्यो A., साम् A. 7. यदोदितः for यदोदितः A.



9294

पृच्छाकाले ग्रहाधीशो यत्र भावे भवेद्यदा^१।

रिपुभावे धिया हीनो मित्रभावे फलाधिकः ॥१२१॥

लाभस्थाने यदा चन्द्रः सौम्यो वा सोमजोदयः^१ ।

लाभेशो वापि लग्नेशो लाभाधिक्यं तदा भवेत्^२ ॥१२२॥

व्ययस्थाने यदा चन्द्रः सौम्यो वा स्वगृहादिगः ।

व्ययेशो वापि लग्नेशो व्ययो भवति भूमिपात् ॥१२३॥

अंशकाभिप्रायेण कथयति ।

सौम्यदृष्टिक्षिते^३ वापि सौम्यदृष्टे^४ स्वतुङ्गभे ।

यदा धनांशके चन्द्रस्तदावश्यं धनं धनम् ॥१२४॥

प्रश्नकाल में जिस घर का स्वामी जिस भाव में हो वैसा ही फल कहना चाहिये । यदि शत्रुभाव में हो तो बुद्धिहीन होता है, यदि मित्र भाव में हो तो अधिक फलदायक होता है ॥१२१॥

यदि चन्द्र वा बुध लाभस्थान में हों और कुछ उदित हों, वे लाभेश वा लग्नेश होकर रहें तो उसको अधिक धन लाभ होता है ॥१२२॥

चन्द्रमा वा बुध व्यय स्थान में स्थित होकर यदि स्वगृहादि में हों और वे यदि व्ययेश या लाभेश हो जाय तो राजा से उसके धन का व्यय होता है ॥१२३॥

जब चन्द्र अपने उच्च में रहते हुए बुध अथवा अन्य शुभ ग्रह से युक्त हो वा देखा जाय और जब चन्द्रमा धनस्थान के नवांशक में हो तो अवश्य ही बहुत धन होता है ॥१२४॥

1. सोमजादिकः for सोमजोदयः A. 2. A., A¹ add. लग्नेशो बीजते लग्ने धनेशो बीजते धनम् । धनवान् लग्नपे लग्ने धने च धनपो धनी ॥ लग्नेशधनपौ लग्ने द्वौ धने च तदा धनी । चतुर्भङ्ग्येऽपि सर्वेऽपि भावास्तरात्फलप्रदाः ॥ लग्नस्य लग्नाधिपतेः सूर्यस्येन्दोरितस्ततः । प्रत्येकं तोरण्ये सौम्याः शुभान्तरचतुष्टयम् ॥ for लाभाधिक्यं तदा भवेत् Bh. reads व्ययो भवति भूमिपात् । Bh. adds पृच्छाकाले गृहाधीशो मित्र भावो भवेद्यदि । रिपुभावे धिया हीनो मित्रभावे फलाधिकः ॥

3. युते ofr क्षिते A. 4. विद्धे for दृष्टे A.

सौम्यदृष्टेक्षिते^१ वापि सौम्यदृष्टे^२ स्वतुङ्गभे ।
 निध्यंशके यदा चन्द्रो निधिभोगौ तदा खलु ॥१२५॥
 सौम्ययुक्तेक्षिते^१ वापि सौम्यदृष्टे^२ स्वतुङ्गभे ।
 सुतांशके यदा चन्द्रः सुतो वापि तदा पुनः ॥१२६॥
 सौम्ययुक्तेक्षिते विद्धे स्वीयगेहे स्वतुङ्गभे ।
 यदा रोगांशके चन्द्रस्तदोद्वेगश्चतुष्पदे ॥१२७॥
 सौम्ययुक्तेक्षिते विद्धे स्वीयगेहे स्वतुङ्गभे ।
 यदा भार्याशके चन्द्रस्तदा भार्याशितं स्मृतम् ॥१२८॥
 सौम्ययुक्तेक्षिते विद्धे मृत्युभावे स्वतुङ्गभे ।
 यदा मृत्यंशके चन्द्रस्तदा मृत्युरसंशयम् ॥१२९॥
 सौम्ययुक्तेक्षिते विद्धे स्वीयगेहे स्वतुङ्गभे ।
 यदा पुण्यांशके शुक्रस्तदा द्रव्यं स्त्रिया सह ॥१३०॥

स्वोच्चस्थ चन्द्र, बुध वा अन्य शुभ ग्रह से युक्त हो वा देखा जाय और जब वह चतुर्थस्थान के नवांशक में हो तो निधि और भोग दोनों की प्राप्ति समझनी चाहिये ॥१२५॥

उच्च का चन्द्र यदि बुध वा अन्य किसी शुभ ग्रह से युक्त हो वा देखा जाय और जब वह सुतस्थान के नवांशक में हो तो पुत्रजन्म अवश्य कहना चाहिये ॥१२६॥

स्वगृह का वा उच्च का चन्द्र यदि बुध अथवा शुभ ग्रह से युक्त अथवा देखा जाय वा विद्ध हो और यदि वह रोगस्थान के नवांशक में हो तो उसे पशुचिन्ता कहनी चाहिये ॥१२७॥

स्वगृह का वा उच्च का चन्द्र शुभ ग्रह से युक्त अथवा देखा वा विद्ध हो जाय और जब वह स्त्रीस्थान के नवांशक में हो तो उसके बहुत विवाह कहने चाहिये ॥१२८॥

उच्च का चन्द्र, अष्टम भाव में बुध अथवा अन्य किसी शुभ ग्रह से युक्त, दृष्ट अथवा विद्ध हो, और जब वह अष्टम भाव के नवांशक में हो तो निश्चय ही उसकी मृत्यु कहनी चाहिये ॥१२९॥

स्वगृह का वा उच्च का शुक्र बुध अथवा किसी अन्य शुभ ग्रह से युक्त, दृष्ट अथवा विद्ध हो और पुण्यस्थान के नवांशक में हो तो स्त्री-प्राप्ति के साथ धनप्राप्ति कहनी चाहिये ॥१३०॥

सौम्ययुक्तेक्षिते विद्धे स्वीयगेहादिसंस्थिते^१ ।

यदा पुण्यांशके चन्द्रो राज्यप्राप्तिर्धनैः सह ॥१३१॥

सौम्ययुक्तेक्षिते विद्धे स्वीयतुङ्गादिसंस्थिते^१ ।

यदा भार्याशके चन्द्रो मुद्राप्राप्तिस्तदा क्षणे ॥१३२॥

सौम्ययुक्तेक्षिते विद्धे स्वीयतुङ्गादिसंस्थिते^१ ।

यदा लाभांशके चन्द्रः कोटिप्राप्तिः श्रियस्तदा ॥१३३॥

सौम्ययुक्तेक्षिते विद्धे स्वीयतुङ्गादिसंस्थिते^१ ।

व्ययस्थाने यदा चन्द्रो व्ययो भवति सर्वदा ॥१३४॥

एवमंशकफलम् ॥

अतः परं जन्मदशा फलञ्च जन्मलग्नतः ।

“मूर्तिर्भूयाद् व्ययाङ्को भवति च चरमो यावता जन्मपत्र्या-

मङ्काः सर्वेऽपि गण्याः प्रतिगृहमिलिता जन्मवर्षा भवन्ति ।

स्वगृह का, उच्च का वा मूल त्रिकोण का चन्द्र, बुध अथवा किसी अन्य शुभ ग्रह से युक्त, दृष्ट वा विद्ध हो और जब वह पुण्यस्थान के नवांशक में हो तो धन के साथ राज्यप्राप्ति होती है ॥१३१॥

यदि स्वगेह आदि स्थित चन्द्र, बुध अथवा किसी अन्य शुभ ग्रह से युक्त, दृष्ट अथवा विद्ध हो और जब वह जायास्थान के नवांश में हो तो उसे तत्काल रूपयों की प्राप्ति होती है ॥१३२॥

अपने उच्च गेहादि में स्थित चन्द्र, यदि बुध वा अन्य किसी शुभ ग्रह से युक्त, दृष्ट तथा विद्ध होकर लाभस्थान के नवांश में हो तो कोटि संख्या में धन की प्राप्ति होती है ॥१३३॥

अपने उच्च गेहादि में स्थित चन्द्रमा यदि बुध अथवा अन्य किसी शुभ ग्रह से युक्त, दृष्ट अथवा विद्ध होकर व्यय स्थान के नवांश में आता है तो सदा खर्च होता रहता है ॥१३४॥

लग्न से बारहवां व्ययस्थान होता है । जन्मपत्री में सभी अंक इसी प्रकार गिनने चाहिए । प्रत्येक गृह में जन्मपत्री में शुभ ग्रह हो सकते

1, The text sometimes reads स्वीयगेहादिसंस्थिते and sometimes स्वीयतुङ्गादिसंस्थिते or स्वीयगेहे स्वतुङ्गमे. I have followed 'A' which is consistent throughout. 2. मूर्ते-भूयाद् for मूर्तिर्भूयात् A., मूर्तेद्वयात् A^१.

सौम्याः सौम्यैरवस्थास्त्वशुभगृहखगैर्दुःखदाः^१ शेषवर्षा
इत्येवं जातकाद्वाप्यशुभशुभ^२फलं दर्शितं जन्मलग्नात् ॥१३५॥

जन्मतो यत्तमे गेहे यत्र स्युः सौम्यस्वेचराः ।

जन्मतस्तत्तमेऽदाहे लक्ष्मीर्भवति जन्मिनः^३ ॥१३६॥

जन्मतो यत्तमे भावे यत्रापि क्ररस्वेचराः ।

जन्मतस्तत्तमेऽदाहे विपद्भवति दुःखदा ॥१३७॥

जन्मतो यत्तमे गेहे यत्रैवं मिश्रस्वेचराः ।

जन्मतस्तत्तमेऽदाहे मिश्रं भवति निश्चितम्^४ ॥१३८॥

प्रकारान्तरेण जन्मदशा जन्मकुण्डल्याम्^५ ।

मध्यग्रहैर्दशा पूर्णा बाह्यगैरद्विका ततः ।

मूर्त्यस्तगैस्त्रिभागोना चैवं जन्मग्रहादशा ॥१३९॥

मूर्तिविभुर्यदि मूर्ति कार्याधिपतिश्च^६ वीक्षते कार्यम् ।

लप्राधीशः कार्यं कार्येशः पश्यति विलग्नम्^७ ॥१४०॥

हैं जिस घर में शुभ ग्रह का सम्बन्ध हो उसमें सुख, पापग्रह के सम्बन्ध से दुःख होता है । इस प्रकार जन्म लग्न से फल कहना चाहिये ॥१३५॥

जन्म लग्न से जितने घर में जहाँ पर शुभग्रह हों, जन्म से उतने ही वर्ष और दिन पर उसको सुख और धन होता है ॥१३६॥

जन्म लग्न से जितने भाव में पापग्रह हों, जन्म से उतने वर्ष में उसको दुःख देने वाली विपत्ति होगी ॥१३७॥

जन्मलग्न से जितने गृह में शुभग्रह और पापग्रह दोनों हों, जन्म से उतने वर्ष में मिश्रफल अर्थात् सुख और दुःख दोनों निश्चित होते हैं ॥१३८॥

मध्यग्रहों से पूर्ण दशा होती है । बाह्यगत ग्रहों से आधी दशा; लग्न और सप्तमस्थ ग्रहों से तृतीयांशोन दशा होती है । इस प्रकार जन्म-कालिक ग्रहों से दशा होती है ॥१३९॥

लग्नश यदि लग्न को, कार्येश कार्य को, अथवा लग्नेश कार्य को और कार्येश लग्न को देखे ॥१४०॥

1. सौम्यैरवस्थास्वाशुभग्रह वर्गोदुःख दाः for सौम्यैरवस्थारुचशुभ-
गृहखगैर्दुःखदाः A¹ 2. mi ssing in A 3. निश्चितम् for जन्मिनः
A, A¹ 4. जन्मिनः for निश्चितम् A. 5. कुण्डल्याः for
कुण्डल्याम् A. 6. कार्योधिपतिश्च for कार्योधिपतिश्च A. 7. विलगने
for विलग्नम् A.

लग्नेशः कार्येशं विलोकते लग्नपं च कार्येशः ।
 शीतगुदष्टौ सत्यां परिपूर्णा ¹कार्यनिष्पत्तिः ॥१४१॥
 कथयन्ति पादयोगं पश्यति सौम्येन लग्नपे लग्नम् ।
 लग्नाधिपे च पश्यति शुभग्रहेनार्द्धयोगं च ² ॥१४२॥
 लग्नपतिदर्शने सति शुभग्रहौ द्वौ त्रयोऽथवा लग्नम् ।
 पश्यन्ति यदि तदानीं प्राहुर्योगं तु ³ भागोनम् ॥१४३॥
 क्रूरावेक्षणवर्जाश्चत्वारः सौम्यस्वेचरा लग्नम् ।
 लग्नेशदर्शने सति पश्यन्तः पूर्णयोगकराः ॥१४४॥
 आद्यो लग्नपतिः कार्ये लग्ने कार्याधिपो यदि ।
 द्वितीयो लग्नपो ⁴ लग्ने कार्ये कार्याधिपो भवेत् ॥१४५॥
 लग्नपः कार्यपश्चापि लग्ने यदि तृतीयकः ।
 चतुर्थः कार्यगौ स्यातां यदि लग्नपकार्यपौ ॥१४६॥

लग्नेश कार्येश को, कार्येश लग्नेश को देखें और चन्द्रमा की दृष्टि रहे तो कार्यसिद्धि अच्छी तरह होती है ॥१४१॥

लग्न को कोई शुभ ग्रह देखता हो और लग्नेश लग्न को न देखे तो पादयोग होता है । यदि लग्नेश लग्न को देखें और शुभग्रह की दृष्टि नहीं हो तो अर्द्धयोग कहते हैं ॥१४२॥

लग्न को लग्नेश और दो वा तीन शुभग्रह भी देखे तो उस को कुछ अंश से न्यून योग कहना चाहिये ॥१४३॥

लग्न को लग्नेश और चार शुभग्रह पापग्रहों की दृष्टि से रहित यदि देखें तो पूर्ण योग होता है ॥१४४॥

लग्नेश कार्यक्षेत्र में और कार्येश लग्न में यदि हों तो एक प्रकार का योग होता है ।

लग्नेश लग्न में और कार्येश कार्य में हो तो दूसरा योग होता है ॥१४५॥

लग्नेश और कार्येश लग्न में हो तो तीसरा योग होता है ॥

यदि लग्नेश और कार्येश दोनों कार्यक्षेत्र में हों तो चौथा योग होता है ॥१४६॥

1. काय for कार्य A. 2. A and A¹ add इति दशा 3. त्रिभागोनम् for तु भागोनम् Bh. 4. क्रूरा विचक्षणया for क्रूरावेक्षणा A. A¹ क्रूरावेक्षणवर्त्या Bh. 5. लग्नपो for लग्नपौ A.

चतुर्ष्वप्युभयत्रापि चन्द्रदृग्दर्शनं मिथः ।
 कार्यसिद्धिस्तदा ज्ञेया मित्रे चेदधिकं फलम् ॥१४७॥
 चन्द्रदृष्टिं विनान्यस्य शुभस्य यदि दृग् भवेत् ।
 शुभं प्रयोजनं किञ्चिदन्यदुत्पद्यते तदा ॥१४८॥
 राजयोगा अमी ख्याताश्चत्वारोऽपि महाफलाः ।
 अत्रैव दृष्टियोगेन सामान्येन फलं स्मृतम् ॥१४९॥
 अर्द्धयोगा विनिर्दिष्टाः परस्परदृशं विना ।
 चन्द्रदृष्टिं विना ज्ञेयं शुभं पादफलं बुधैः ॥१५०॥
 परस्परं दृश्यमृते चन्द्रयोगो भवेद्यदि ।
 तदाद्दफलमाख्यातं प्रपञ्चोऽयं मतो मतेः ॥१५१॥
 लग्नेशो वीक्षते लग्नं कार्येशः कार्यमीक्षते ।
 कार्यसिद्धिर्भवेदिन्दुः कार्यमेति परं यदा ॥१५२॥
 क्रूराक्रान्तः क्रूरयुतः क्रूरदृष्टश्च यो ग्रहः ।
 विरश्मितां प्रपन्नश्च स विनष्टो बुधैः स्मृतः ॥१५३॥

इन चारों योगों में चन्द्रमा की दृष्टि परस्पर हो तो कार्यसिद्धि होती है । यदि यही मित्र के घर में पड़े हों तो अधिक फल होता है ॥१४७॥

यदि उक्त योगों में चन्द्रमा की दृष्टि न हो और अन्य किसी शुभ-ग्रह की दृष्टि हो तो किसी अन्य ही प्रकार का शुभफल उत्पन्न हो जाता है ॥१४८॥

ये चार राजयोग कहे गये हैं जिनके उत्कृष्ट फल होते हैं । इन में सामान्य दृष्टियोग से सामान्य फल होता है ॥१४९॥

परस्परिक दृष्टि न होने से अर्धयोग होता है । चन्द्रदृष्टि के बिना चतुर्थीश शुभ जानना चाहिये ॥१५०॥

परस्परिक दृष्टि के न होने पर यदि चन्द्रमा के साथ योग हो तो अर्धफल कहना चाहिये ॥१५१॥

लग्नेश लग्न को देखे और कार्येश कार्यक्षेत्र को देखे और चन्द्रमा कार्यक्षेत्र में जब हो तो कार्यसिद्धि अवश्य होती है ॥१५२॥

जो ग्रह पापग्रहों से आक्रान्त, युक्त वा दृष्ट हो वा सूर्यराशि में प्रवेश कर गया हो तो वह विनष्ट-सा हो जाता है अर्थात् उसकी सत्ता नहीं रहती ॥१५३॥

क्रूरं ज्ञीयमानो यो राहुपार्श्वे यथा रविः ।
 क्रूराक्रान्तः स विज्ञेयः क्रूरयुक्तः समंशके ॥१५४॥
 पूर्णया दृश्यते दृष्ट्या क्रूरो दृष्टः^१ स उच्यते ।
 प्रविषिषुः प्रविष्टो वा सूर्यराशौ विरश्मिकः ॥१५५॥
 लग्नाधिपे विनष्टे स्याद्विनष्टावयवः पुमान् ।
 विनष्टजातिवर्णश्च शुभाकारो विपर्यये ॥१५६॥

राजयोगानाह

भावेभ्योऽप्युत्तमं भाग्यं तृतीयेन समन्वितम् ।
 उभयत्राश्रिताः सौम्या भाग्यस्यैव हि पोषकाः ॥१५७॥
 तृतीयेऽपि ग्रहे^२ सौम्या^३ भाग्यप्रकर्षपोषकाः ।
 तत्रापि पूर्णदृष्ट्या च पुण्योपचयसाधकाः ॥१५८॥

जिस तरह राहु के पास सूर्य दिखाई देते हैं उसी तरह पापग्रहों से जो ग्रह पराश्रित किया गया हो वह क्रूराक्रान्त कहलाता है ।

यदि क्रूरग्रह के समान अंश में कोई ग्रह हो तो वह क्रूरयुक्त कहलाता है ॥१५४॥

जब कोई ग्रह पापग्रह से पूर्णदृष्टि से देखा जाय तो क्रूरदृष्ट कहलाता है । जो ग्रह सूर्यराशि में प्रवेश करना चाहता अथवा प्रविष्ट हो गया हो वह विरश्मिक समझा जाता है ॥१५५॥

लग्नाधीश यदि विनष्ट हो तो उसे किसी अङ्ग से हीन कहना चाहिये । उसके जाति और वर्ण सभी नष्ट कहने चाहियें । इसकी विपरीतावस्था में उसे शुभ आकार वाला कहना चाहिये ॥१५६॥

सभी भावों में भाग्यस्थान और तृतीय स्थान उत्तम कहा गया है । इन दोनों स्थानों में यदि शुभग्रह हों तो वे भाग्य के पूर्ण वर्द्धक होते हैं ॥१५७॥

तृतीय भाव में यदि शुभग्रह हों तो वे भाग्य के प्रकृष्ट पोषक होते हैं । फिर भी यदि वे पूर्ण दृष्टि से भाग्येश को देखते हों तो उसे पुण्यशील कहना चाहिये ॥१५८॥

१. क्रूरदृष्टः for क्रूरो दृष्टः A. २. ग्रहाः for ग्रहे A. ३. भाग्याप्रकर्ष A., भाग्यप्रकर Bh.

ततो मूर्तिः पुनः श्रेष्ठा भाग्यानां तु समाश्रयः ।
 भावानां परमो भावस्तनुर्द्वादशपोषकः ॥१५९॥
 तूर्ये सौम्याः शुभा एव मातृद्रव्यादिभोज्यदाः ।
 राज्यप्रदाः शुभैर्दृष्टाः सर्वे सम्पत्तिदायकाः ॥१६०॥
 ततस्तूर्यं निधिः श्रेष्ठं राज्यभावसमन्वयम्^१ ।
 ततः शुभं^२ शुभैर्दृष्टं लाभेन सहितं नभम्^३ ॥१६१॥
 ततो धनं शुभाक्रान्तं जायास्थानं ततः शुभम् ।
 शुभमप्यस्तकेन्द्रत्वाच्छुभस्थानं वले गते^४ ॥१६२॥
 उदयगते वृषराशौ भाग्यं पश्यति भाग्यये ।
 तत्कालं यः पुमान् जातो यावज्जीवं समृद्धिमान् ॥१६३॥
 उदयतो वृषेशस्य स्वोच्चं तदैव गच्छतः^५ ।
 स्वयं पश्यति लग्नेशे जातश्चिरं समृद्धिमान् ॥१६४॥

भाग्यादिकों का आश्रय होने के कारण लग्न भी श्रेष्ठ माना गया है और सब भावों को पुष्ट करने वाला लग्न सब से श्रेष्ठ है ॥१५९॥

चतुर्बं स्थान में शुभग्रह रहने से ही शुभ होता है और वे मातृ-धन-भोज्य आदि सुख को देने वाले होते हैं। यदि वे शुभग्रहों से देखे जायें तो राज्य वा सम्पत्ति देने वाले होते हैं ॥१६०॥

उसके बाद राज्यस्थान को समन्वय करने वाला चतुर्थ स्थान श्रेष्ठ है। उसके बाद लाभस्थान से सम्बन्ध रखने वाला दशम भाव शुभ ग्रह से युक्त या देखा जाय तो शुभ फल देता है ॥ १६१ ॥

शुभ ग्रह से सम्बन्ध रखने वाला धनस्थान और सप्तम स्थान हो तो शुभ होता है। सप्तम स्थान भी केन्द्र होने के कारण बलवान्, शुभ ग्रह से युक्त, दृष्ट होने से शुभ होता है ॥ १६२ ॥

वृष लग्न हो और भाग्येश भाग्य स्थान को देखता हो उस समय में जो लड़का पैदा हो उसे आजीवन ऐश्वर्ययुक्त कहना चाहिये ॥ १६३ ॥

वृष लग्न हो और लग्नेश स्वोच्चाभिमुख अर्थात् उच्च स्थान में जाता हो और लग्नेश लग्न को देखे तो बालक चिरकाल तक ऐश्वर्ययुक्त होगा ॥ १६४ ॥

1. भावसमं द्वयम् for भावसमन्वयम् A. 2. सतं for शुभं A.
3. The reading मत्तम् (A. Bh.) for नभम् is correct.
4. गतम् for गते A. 5. भाग्यं पश्यति भाग्यये । तत्कालं यः पुमान् जातो यावज्जीवं for स्वोच्चं तदैव गच्छतः । स्वयं पश्यति लग्नेशे Bh.

¹ लग्नस्वनिधिभाग्येशेऽभ्युदयात् पञ्चतुर्यके² ॥
 तत्कालं यः पुमान् जातः स च कोटीश्वरो भवेत् ॥१६५॥
 सर्वग्रहैः पुरे दृष्टेऽभ्युदयत्येव लग्नपे ।
 स्वोच्चमित्रस्थगृहे³ वा जातो भवति भूमिपः ॥१६५॥
 केन्द्रगतैः सर्वग्रहैरुदयत्येव लग्नपे ।
 मूर्तिं पश्यति लग्नेशे चक्रवर्ती नरस्तु सः ॥१६७॥
 भाग्यपेऽभ्यन्तरे राशौ गते जन्म यदा भवेत् ।
 लग्नपे च विशेषेण यावज्जीवं समृद्धिमान् ॥१६८॥
 त्रिभिश्छत्रं महाच्छत्रं पञ्चभिश्चातिच्छत्रकम् ।
 सप्तभिस्तुर्यपङ्क्त्यन्तं ग्रहैश्छत्रादिनिर्णयः ॥१६९॥
 लग्नाधारो भवेज्जीवः शरीरं चन्द्रमाः पुनः ।
 तेजस्तेजोनिधिः प्रोक्तः शाखाः स्युस्त्वितरे ग्रहाः ॥१७०॥

लग्नेश, धनेश, चतुर्थेश और भाग्येश यदि लग्न से पञ्चम वा चतुर्थ स्थान में हों तो उस लग्न में उत्पन्न बालक कोटीश्वर अर्थात् बड़ा धनवान् होता है ॥ १६५ ॥

लग्नेश लग्न वा अपने उच्च अथवा मित्र स्थान में रहे और शुभ ग्रहों से देखा जाय तो वह शिशु राजा होता है ॥ १६६ ॥

सभी ग्रह केन्द्र में और लग्नेश लग्न में रहे वा लग्नेश लग्न को देखे तो वह मनुष्य चक्रवर्ती होता है ॥ १६७ ॥

भाग्येश लग्न और भाग्य स्थान के बीच किसी राशि में हो वा लग्नेश लग्न और भाग्य के बीच हो तो वह शिशु जीवनपर्यन्त समृद्धि-शास्त्री होता है ॥ १६८ ॥

तीन ग्रहों से छत्र, पांच ग्रहों से महाछत्र, सात से अतिछत्रक, चार से दस तक इस प्रकार ग्रहों से छत्र आदि का निर्णय सम्भन्ना चाहिये ॥ १६९ ॥

गुरु शरीर का आधार, चन्द्रमा शरीर और सूर्य शरीर का तेज माने गये हैं । और संगलादि अन्य ग्रह उसकी शाखा होती हैं ॥ १७० ॥

1. लग्नस्य for लग्नस्व A., लग्नेशो B. 2. ऽभ्युदयत्येव तुर्यके for ऽभ्युदयात् पञ्चतुर्यके A. 3. स्वगृहे for स्वगृहे A. 4. पञ्चभिरति for पञ्चभिश्चाति A.

लग्ने गुरुर्निधौ चन्द्रः छिद्रे शुक्रः पदे रविः ।
 स्वमित्रे निजगेहादौ वाञ्छितेशो भवेन्नरः ॥१७१॥
 मूर्तौ जीवः सितस्तुर्ये स्मरे सोमः पदे रविः ।
 राहुणा सहितो लग्ने स प्रौढः पुण्यभाजनम् ॥१७२॥
 विद्या संजीवनी नाम शुक्रस्यैव न वाक्पतेः ।
 अतोऽपि हेतुना जीवात्कविरेव बलाधिकः ॥१७३॥
 लग्नवित्ताधिपौ लग्ने दृष्टौ जीवहिमांशुना ।
 नीचे वा शत्रुलाभे वा कीटिशो वस्तु यच्छतः ॥१७४॥
 यत्र यद्राशिपो राजा भवन्नुदेति तत्क्षणम् ।
 तद्राशिलग्नवाक्यानामुदयस्तत्र वत्सरे ॥१७५॥
 उच्चस्थो मुदितो राजा राशिपो^१ लग्नतो^२ यदि ।
 तत्र वर्षे शुभं कुर्याद्दुष्टो वापि गृहाधिपः ॥१७६॥

यदि लग्न में गुरु, चतुर्थ स्थान में चन्द्रमा, अष्टम स्थान में शुक्र और पद स्थान में सूर्य हों और अपने मित्र या स्वगृह इत्यादि में स्थित हों तो स्वेच्छापूर्ति वाला होता है ॥ १७१ ॥

लग्न में गुरु, चतुर्थ स्थान में शुक्र, सप्तम में चन्द्र और पदस्थान में सूर्य, राहु से युक्त लग्न हो तो वह मनुष्य प्रौढ पुण्यराशि वाला होता है ॥ १७२ ॥

संजीवनी विद्या शुक्र के पास ही है, बृहस्पति के पास नहीं । इस लिये भी गुरु से शुक्र ही बल में अधिक है ॥ १७३ ॥

लग्नेश और धनेश लग्न में रहें, गुरु तथा चन्द्रमा की दृष्टि उन पर रहे तो लग्नेश और धनेश नीच शत्रु वा लाभ स्थान में भी रहें तो वे मनुष्य को करोड़ों वस्तुएँ देते हैं ॥१७४॥

जिस किमी राशि का भी स्वामी वर्षेश होकर उस समय लग्न में हो तो उस वर्ष उस राशि वा लग्न वालों को लाभ होता है ॥१७५॥

किसी राशि का स्वामी वर्षेश होकर यदि उच्च का हो उस उच्च-स्थ राशि का स्वामी दुष्ट हो, उस वर्ष में वह प्रसन्न होकर शुभ फल ही पाते हैं ॥१७६॥

1. वाक्याना for वाक्याना A. 2. राशिपौ for राशिपो A.
 3. लग्नपौ for लग्नतो A.

षष्ठाष्टमान्त्ये सौम्यास्तत्फलाः करास्तदर्थहाः ।

नेन्दुर्लप्रान्त्यषष्ठाष्टः शेषस्थानौघपोषकाः ॥१७७॥

इतिग्रहस्वरूपम् ।¹

मूर्त्तौ ज्ञेयं रूपवृत्तं लक्षणायुर्वयो व्रणम् ।

वर्णक्लेशदोषमानपूजारोग्यं² शुभं सुखम् ॥१७८॥

घने मौक्तिकरत्नानि हेमाद्याः सप्तधातवः ।

पशुधान्याम्बरं क्रय्यं क्रयाणकगणो धनम् ॥१७९॥

सहजात्प्रशुभदासीभगिनीभ्रातृपदादयः ।

सुहृत्सुखं दुःखमैत्री निधिस्थानगमागमौ ॥१८०॥

ग्रामपितृमातृकृषिर्वाटीधृतिगेहिनीमहोषधयः ।

सुक्तिर्विलप्रवेशादेशो⁴ लाभं च कुशलं च ॥१८१॥

सुतान्मन्त्रसुतौ⁵ विद्याप्रतापशिष्यबुद्ध्यः ।

गर्भसन्धिः शुभद्रव्यं स्थानोपायनयादयः ॥१८२॥

६, ८, १२ वें गृहों में सौम्य ग्रह शुभ फल देते हैं और क्रूर ग्रह धन की हानि करते हैं अन्य स्थानों में ग्रह पुष्टिकारक होते हैं । १, १२, ६, ८ वें स्थानों में चन्द्र शुभ नहीं होता है ॥१७७॥

लग्न स्थान से रूप, लक्षणा, आयु, अवस्था, वर्ण, क्लेश, दोष, मान, पूजा, आरोग्य, शभ, सुख इत्यादि विषयों का विचार किया जाता है ॥१७८॥

धनभाव से मोती रत्न और सुवर्ण आदि सात धातु पशु, धान्य, वस्त्र और अन्य भी क्रय वस्तुओं का विचार करना चाहिये ॥१७९॥

सहज स्थान से शुभ दासी, बहिन, भाई, पद आदि का विचार, सुहृद्भाव से मित्र, सुख, दुःख निधि का आना वा जाना, ग्राम-मातृ-पितृ सुख, कृषि, बाग, धैर्य, स्त्री, महोषधि, भोग, विलप्रवेश, आज्ञा, लाभ और कुशल, का विचार करना चाहिये ॥१८०-८१॥

पञ्चम स्थान से पुत्र, मन्त्र, विद्या, प्रताप, शिष्य बुद्धि, गर्भ, सन्धि, शुभ द्रव्य की प्राप्ति, स्थानप्राप्ति, उपायसिद्धि, नीति सफलता आदि का विचार करना चाहिये ॥ १८२ ॥

1. After this A¹ reads: इदानीं द्वादशभावेभ्यो वपुषो (१ जो ms) यस्य निर्णयः कियते तान् भावानाह । 2. पूज्या for पूजा A. 3. वृद्धि for निधि A A¹ 4 प्रवेशादेशो for प्रवेशादेशो Bh. 5. सुतो for सुतौ A. 6. गर्भः सन्धिः for गर्भसन्धिः A¹

रिपौ चतुष्पदं नीचं मातुलः क्रूरकर्म च ।
 दासी दासो रिपुर्व्याधिः परतोऽहङ्कृतिर्व्रणम् ॥१८३॥
 अस्तात्साध्यव्यवहारः कलहश्च गमागमौ ।
 चौरौ विजयः स्वस्थत्वं हर्षो भगटकः^१ स्मृतः ॥१८४॥
 मृत्योर्नद्युत्तारगणो^२ यथाधिदुर्गमापदः ।
 योनिविस्मृतिनिष्पत्तिः^३ संवादो^४ भेदपत्तयः ॥१८५॥
 शत्रुद्रव्यं परीवारो मृतार्थश्चिरवस्तुनः^५ ।
 निधनं^६ पोतजार्थाप्तिराकुलत्वं^७ च चिन्तयेत् ॥१८६॥
 धर्माद्वापी कूपसरः प्रपामठं^८ सुरालयाः ।
 दीक्षायात्रानव्यविद्या पुण्यं भाग्यं गुरुस्तपः ॥१८७॥

षष्ठ स्थान से नीच पशु, मामा, क्रूरकर्म, दासी, दास, शत्रु, व्याधि, दूसरे से अहंकार तथा क्षति आदि बातों का विचार करना चाहिये ॥ १८३ ॥

सप्तम स्थान से योग्य व्यापार, आना, जाना, व्यय, चोर, विजय, स्वस्थता, हर्ष, रोग, आदि का विचार करना चाहिये ॥ १८४ ॥

अष्टम स्थान से नदी को पार करना, आधि, मार्ग के संकट, मार्गभ्रम, मार्गापत्ति, योनि, विस्मृति, संवाद, भेद, शत्रु, द्रव्य, परिवार, चिरनष्ट धन तथा वस्तु, मरण, सामुद्रिक व्यवसाय से अर्थलाभ तथा राजकुल के सम्बन्ध आदि का विचार करना चाहिये ॥ १८५-८६ ॥

धर्मस्थान से बावड़ी, कूप, तालाब, प्याऊ मन्दिर तथा मठ, दीक्षा, यात्रा, नवीन प्रकार की विद्या, पुण्य, भाग्य गुरु और तपश्चर्या आदि के विषयों का विचार करना चाहिये ॥१८७॥

१ रुकटकः for भगटकः Amb. 2. for मृत्योर्नद्युत्तारगणो मृत्योर्नद्युत्तारगणो A. नद्यो मृत्युत्तारगणो पथ्याधि० 3. नष्टाप्तिः for निष्पत्तिः A, Bh. 4. संवादो for संवादो A. 5. मृतार्था भगटकः स्मृता Bh. 6. निधनं for निधनं A. 7. राजकुलत्वं for राकुलत्वं A. 8. पाठ for मठ A.

कर्मतो राजवृद्धयादि पितृमुद्रापुरादिकम् ।

खेचरत्वं पुण्यमानौ निर्वाहश्चाधिकारिता ॥१८८॥

राजवेश्म मित्रवेश्म पशुप्रारब्धकर्म च ।

आचार^१स्थानमायातुर्यानानि^२ करिवाजिनः ॥१८९॥

वस्त्रायुः स्वर्णसस्यस्त्रीविद्याराजपरिच्छुदः ।

मित्राश्रमौ रूपवित्तं^३ लाभो राजकुलादपि^४ ॥१९०॥

व्ययाद्विवाहयज्ञादि महायुद्धानि कीर्त्तनम् ।

त्यागभोगौ कृषिभ्रंशः विश्वासकुपथा व्ययः ॥१९१॥

इति द्वादशभावेभ्यस्तत्त्वचिन्ता ।

सर्वश्रियां परीणामो यत्स्वरूपं जगत्त्रयम् ।

सिद्धचक्रं नमस्कृत्य वक्ष्ये किञ्चित्तमोऽपहम् ॥१९२॥

कर्मस्थान से राजकुल में प्रतिष्ठा, सम्मान आदि, पैतृक सम्पत्ति की प्राप्ति, ग्राम आदि की प्राप्ति, व्योमयानों में उड़ना अथवा देवाह सम्मान की प्राप्ति, पुण्यप्राप्ति, श्रेयप्राप्ति, अच्छा निर्वाह तथा अधिकार-प्राप्ति—इन बातों का विचार करना चाहिये ॥१८८॥

राजभवन से सम्बन्ध, मित्र के घर से सम्बन्ध, पशु के साथ सम्बन्ध, प्रारब्ध कर्म की सफलता, आचार, स्थान, तथा हाथी, घोड़ा आदि यानों के विषय में विचार करना चाहिये ॥१८९॥

आय स्थान से वस्त्र, आयु, सुवर्ण, धान्य, स्त्री, विद्या, राज-सम्बन्ध, मित्र, आश्रम, रूप, धन राजकुल से लाभ आदि बातों का विचार करना चाहिये ॥१९०॥

व्यय स्थान से विवाह, यज्ञ, आदि, युद्ध, त्याग, भोग, कृषि की हानि, किसी पर विश्वास तथा कुमार्ग से धन व्यय आदि विचार करना चाहिये ॥१९१॥

जो सब प्रकार की सम्पत्तियों के कारण हैं, जो तीनों लोकों के स्वरूप हैं ऐसे सिद्ध महापुरुषों को नमस्कार करके मैं कुछ अज्ञाननाशक बातें कहता हूँ ॥१९२॥

1. आचाराः for आचार A. 2. मायान्त यानानि for माया-तुर्यानानि A. 3. भूपवित्तं for रूपवित्तं A. भूमिवित्तं Bh. 4. The reading of the Amb. text (राजलाभो कुलादपि) is obviously in- correct, I have, therefore, adopted the reading of A, A¹.

अश्विनी मृगशीर्षश्च हस्तः पुष्यः पुनर्वसुः ।
 स्वातिश्च रेवती चैव जन्मकाले धनप्रदाः ॥१९३॥
 भरणी च मघा चित्रा विशाखा शततारिका ।
 धनिष्ठाऽऽश्लेषिका प्रोक्ता जन्मन्यशुभदायिनः^१ ॥१९४॥
 कृत्तिका रोहिणी चार्द्रा ज्येष्ठा मूलाख्यतारिका ।
 श्रवणं चानुराधा च मघा पूर्वोत्तराधिकम्^२ ॥१९५॥
 सोमो बुधो गुरुः शुक्रो वाराश्चत्वार उत्तमाः ।
 रविर्भौमः शनिर्वारो^३ विपरीतः समासतः^४ ॥१९६॥
 नन्दा भद्रा जया पूर्णा शुभदास्तिथयो मताः ।
 द्वादश्याद्याश्च रिक्ताश्च सर्वकमसु वर्जयेत् ॥१९७॥
 तिथिनक्षत्रवारेषु शुभेषु जन्म यस्य वै ।
 त्रिकोणोच्चग्रहैर्लग्ने राजा भवति सात्त्विकः ॥१९८॥

अश्विनी, मृगशिरा, हस्त, पुष्य, पुनर्वसु, स्वाती और रेवती—
 ये नक्षत्र जन्मकाल में प्रशस्त तथा धन को देने वाले हैं ॥१९३॥

भरणी, मघा, चित्रा, विशाखा, शतभिषा, धनिष्ठा, आश्लेषा—ये
 नक्षत्र यदि जन्मकाल में हों तो अशुभ फल देते हैं ॥१९४॥

कृत्तिका, रोहिणी, आर्द्रा, ज्येष्ठा, मूला, श्रवणा, अनुराधा, मघा
 और तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा—ये मध्यम नक्षत्र कहे गये हैं ॥१९५॥

सोम, बुध, गुरु, शुक्र—ये चार ग्रह शुभ होते हैं। रवि, मंगल,
 शनि—ये अशुभ वार हैं अर्थात् शुभ वार में जन्म शुभफलदा अन्यथा
 अशुभफलदायक होता है ॥१९६॥

नन्दा, भद्रा, जया, और पूर्णा ये तिथियां शुभ होती हैं। द्वादशी
 आदि तथा रिक्ता—इनको सभी शुभ कार्यों में त्याग देना चाहिये ॥१९७॥

शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, और शुभ वार में जिस मनुष्य का जन्म
 हो और लग्न का त्रिकोण वा उच्च ग्रहों से सम्बन्ध हो तो वह मनुष्य
 सात्त्विक राजा होता है ॥१९८॥

1. ऽदायिनी for दायिनः A, A¹. 2. मध्यं सर्वोत्तरात्रिकम् A,
 A¹. 3. ऽर्वा for ऽर्वारो A. 4. विपरीताः सतां मताः for विपरीतः
 समासतः । A, Bh.

वर्षादौ दिवसादौ तु यस्य जन्म प्रवर्तते ।

स दीर्घायुर्बुधैर्वाच्यो ज्योतिःशास्त्रानुसारिभिः ^१ ॥१९९॥

त्रिलोकीतिलकः प्राज्यप्रभावोऽतिशयाधिकः ^२ ।

तीर्थकृतपूज्यपुण्यात्मा मध्यरात्रोद्भवः पुमान् ॥२००॥

द्वौ प्रहरौ घटिकाहीनौ द्वौ प्रहरौ घटिकाधिकौ ।

विजया^३ नाम योगोऽयं सर्वकार्यप्रसाधकः ॥२०१॥ ^४

वर्षान्ते दिवसान्ते च यस्य जन्म ध्रुवं भवेत् ।

अल्पायुः स च विज्ञेयो दिव्यशास्त्रविचक्षणैः ॥२०२॥

मासमध्येषु^५ यत्संख्यदिवसे जायते पुमान्^६ ।

तत्संख्यवर्षभुक्तौ तु लक्ष्मीर्भवति निश्चितम् ॥२०३॥

वर्षादि एवं दिनादि में जिस मनुष्य का जन्म हो, ज्योतिःशास्त्र-वेत्ताओं को उसे दीर्घायु कहना चाहिये ॥१९९॥

जिस मनुष्य का जन्म मध्यरात्रि में अर्थात् १२ बजे रात को हो वह त्रैलोक्यश्रेष्ठ, महाप्रतापी, महातेजस्वी, तथा तीर्थस्थानों में जाकर पुण्य करने वाला होता है ॥२००॥

१२ बजे के एक घटी पहले से लेकर १२ बजे के बाद १ घटी तक का समय विजय नाम वाले योग का होता है जो सभी कार्यों को सिद्ध करता है ॥२०१॥

वर्षान्त अथवा दिनान्त में जिसका जन्म हो वह निश्चय ही अल्पायु होता है। ऐसा दिव्य शास्त्रज्ञों ने बतलाया है ॥२०२॥

जिस किसी भी मास के जितने दिन में शिशु उत्पन्न हों उसके जन्म से उतने वर्ष में निश्चय ही लक्ष्मी की वृद्धि होती है ॥२०३॥

1. ०शास्त्रविशारदैः for ०शास्त्रानुसारिभिः A^१. 2. ०शयानुतः for ०शयाधिकः A. A^१. 3. विज्ञयो for विजया A, Bh. 4. सर्व-कार्याणि साधयेत् for सर्वकार्यप्रसाधकः A, A^१. ०कार्यार्थं० for ०कार्यं प्र० Bh. 5. ०तु for ०षु Bh. 6. यत्संख्ये दिवसे जन्म जायते for यत्संख्यदिवसे जायते पुमान् A.

शनिश्चरे सदा दुःस्थो बुधे जातो ¹ महाजडः।
 मातृभिर्गुरुभिः ² सार्द्धं हृदये कुटिलः कटुः ॥२०४॥
 उत्तमतिथिसंयोगे रविवारोदये पुनः ³ ।
 स्त्रीलग्ने स्त्रीगृहे ⁴ चैव नारी पुण्यवती मता ॥२०५॥
 उत्तमतिथिसंयोगे रविवारोदये पुनः ।
 कापि सुखी क्वचिद्दुःखी ⁵ जायते कटुभाषकः ॥२०६॥
 महाभोगी महाचक्षुः स्त्रीषु लोलाङ्गनाप्रियः ।
 सुभगः पात्रभूतश्च शुक्रे शुक्राधिको मतः ॥२०७॥
 महाभोगी महात्यागी गुरुभक्तो गुरुप्रियः
 निजक्षेत्रे गुरौ जातः पात्रभूतः पुमान् पुनः ॥२०८॥
 अश्विन्याद्युत्तमे स्थाने जातो भवति पुण्यवान् ।
 मध्येषु ⁶ कृत्तिकाद्येषु भरण्यादिषु दुर्गतः ॥२०९॥

शनिश्चर वार में उत्पन्न बालक सर्वदा दुःखावस्था में रहता है ।
 बुध में महाजड और अपने माता, गुरुओं के साथ कौटिल्यपूर्वक
 व्यवहार करने वाला होता है ॥२०४॥

उत्तम तिथि के साथ रविवार का संयोग हो और कन्या लग्न
 तथा कन्या राशि रहे तो पुण्यवती कन्या का जन्म कहना चाहिये ॥२०५॥

रविवार में उत्तम तिथि के संयोग रहने पर भी उत्पन्न शिशु
 कभी सुखी कभी दुखी कभी कटुभाषी होता है ॥२०६॥

शुक्रवार में उत्तम तिथि के संयोग रहने पर महाभोगी, दिव्यबल,
 सुन्दर स्त्रियों का प्रेमी तथा स्वयं भी सुन्दर और पुष्ट वीर्य वाला योग्य
 होता है ॥२०७॥

बृहस्पति वार में शुभतिथियों के संयोग रहने पर बालक महा-
 भोगी, त्यागशील, गुरुभक्त, गुरुप्रिय तथा सुपात्र होता है ॥२०८॥

अश्विनी आदि उत्तम नक्षत्रों में उत्पन्न बालक पुण्यवान् होता है ।
 कृत्तिकादि उक्त मध्यम नक्षत्रों में मध्यम और भरणी आदि अधम
 नक्षत्रों में अधम होता है ॥२०९॥

1. जडः पुमान् for महाजडः A. A¹. 2. मातृभिः पितृभिः for
 मातृभिर्गुरुभिः A. A¹. 3. तनुः for पुनः A. 4. ग्रहे for गृहे A.
 5. क्वचिद्दुःखी सुखी कापि A. A¹. 6. मध्येषु for मध्येषु Amb.

पृच्छायां गौरगात्राणां यत्र मासे^१ गुरोर्भवेत् ।

उदयस्तत्र मासे स्यादुदयोऽस्तेऽस्तमादिशेत् ॥२१०॥

पृच्छायां श्यामगात्राणां यत्र मासे कवेर्भवेत् ।

उदयस्तत्र मासे स्यादुदयोऽस्तेऽस्तमादिशेत् ॥२११॥

घातव्रणितगात्राणां यत्र मासे कुजोदयः ।

उदयस्तत्र मासे स्यात् पुंसामस्तेऽस्तमादिशेत्^३ ॥२१२॥

पृच्छायां भिन्नगात्राणां यत्र मासे बुधोदयः ।

उदयस्तत्र मासे स्यात् पुंसामस्तेऽस्तमादिशेत्^४ ॥२१३॥

उदयात्पृष्ठलगने^५ चेत् पृच्छायां पृच्छकस्य च ।

न स्यात् पृच्छार्थसम्पत्तिस्ततो लग्नान्तरे पुनः ॥२१४॥

प्रश्न करते समय यदि प्रश्न करने वाला गौर वर्ण का रहे तो गुरु का उदय जब हो उस समय प्रश्न कर्ता का भाग्योदय और गुरु के अस्त समय पर अस्त कहना चाहिये ॥२१०॥

यदि प्रश्नकर्ता श्यामवर्ण का हो तो शुक्रोदय के महीने उसका उदय और शुक्रास्त के महीने उसका अस्त कहना चाहिये ॥२११॥

यदि प्रश्नकर्ता घात तथा व्रणों से युक्त शरीर वाला हो तो मङ्गलोदय के समय उसका उदय और मङ्गलास्त के समय उसका अस्त कहना चाहिये ॥२१२॥

यदि प्रश्नकर्ता द्विज भिन्न शरीर वाला हो तो बुध के उदयकाल में उसका उदय और अस्तकाल में अस्त कहना चाहिये ॥२१३॥

प्रश्नकर्ताओं के प्रश्न के समय यदि पृष्ठोदय लग्न हो तो अभीष्ट सिद्धि नहीं होती । अन्य लगनों में होती है ॥२१४॥

1. मासेन for मासे; the addition of न is redundant
 2. कवि for कवे Amb. 3. For ०मस्तेऽस्तमादिशेत् A. reads मस्ते च दुर्गतिः 4. A, A¹ add here : आतंकं भग्नगात्राणां यत्र मासे शनेर्भवेत् । उदयस्तत्र मासे स्यात्पुंसामस्ते च पूर्ववत् । Bh. reads आतंकरुगात्राणां यत्र मासे शनिर्भवेत् । etc. 5. पृष्ठलगने for पृष्ठलगने A. Amb, चतुर्गतिः Bh. षष्ठे लगने for पृष्ठलगने Bh.

अतः कृष्णगात्राणां यत्र मासे शने भवेत् ।

उदयस्तत्र मासे स्यात्पुंसामस्ते च दुर्गतिः^१ ॥२१५॥

पृच्छाकाले यदा स्वामी विलग्नस्योदयं भजेत्^२ ।

तदा सिद्धिर्बुधैर्वाच्या प्रष्टुर्मनसि या स्थिता ॥२१६॥

पृच्छाकाले यदा खेटा उदयं यान्ति भावपाः ।

अभ्युदयस्तदा वाच्यः प्रष्टुर्ग्रामपदादिभिः ॥२१७॥

पृच्छाकाले चतुर्णां च कंटकानामिना यदि ।

एककालमुदीर्यन्ते^४ तदा प्रष्टुर्महोदयः ॥२१८॥

पृच्छायां गोचरे शुद्धिर्यदा काले प्रजायते ।

प्रष्टुरभ्युदयो वाच्यः शुभभाववशात्पुनः ॥२१९॥

पृच्छायां राशिनाथस्य यदा दशा शुभा भवेत् ।

प्रष्टुस्तदोदयो देश्यो राशेरपि प्रमाणतः ॥२२०॥

यदि प्रश्न करने वाला भीत वा रोगी हो तो शनि का जिस मास में उदय हो उस मास में उदय और अस्त के समय अस्त कहना चाहिये ॥२१५॥

प्रश्नकाल में यदि लग्नेश लग्न में रहे तो प्रश्नकर्ता की मनोगत बातों की सिद्धि होती है ॥२१६॥

प्रश्नकाल में जिन २ भावों के स्वामी जिस जिस समय में उदय होंगे उसी २ समय में प्रश्नकर्ता का ग्राम, पद, आदि विषयों का अभ्युदय कहना चाहिये ॥२१७॥

प्रश्नकाल में चारों केन्द्रस्थानों के स्वामी जब एक ही काल में उदित हों तब प्रश्नकर्ता का महान अभ्युदय कहना चाहिये ॥२१८॥

प्रश्नकाल में गोचरशुद्धि देखनी चाहिये । गोचरशुद्धि जब हो उस समय शुभ भाव के सम्बन्ध से प्रश्न करने वाले का अभ्युदय कहना चाहिये ॥२१९॥

प्रश्नकाल म राशीश की दशा जब शुभ हो, तब राशि के भी प्रमाण से प्रश्न करने वाले का अभ्युदय कहना चाहिये ॥२२०॥

1. चतुर्गतिः for च दुर्गतिः Amb. 2. ब्रजेत् for भजेत् A, A¹
- लग्नस्योदयतां भजेत् for विलग्नस्योदयं Bh. 3. मास for ग्राम A.
4. मुदियन्ते for मुदीर्यन्ते A¹.

नाथोऽद्ये¹ दशा सौम्या गोचरे शुद्धिरुत्तमा ।
 शकुनैः शोभनैर्जातैर्भवेत्पुंसां महोदयः ॥२२१॥
 लग्नेशेऽभ्युदिते वाच्यं मासाब्दं तिथिलग्नभम्² ।
 वयो वर्णं दिशां भाग्यं³ त्रैलोक्यं च सदोदितम् ॥२२२॥
 भावा अभ्युदिता⁴ ज्ञेयाः दशा अपि⁵ धनादयः ।
 विपरीते विपर्यस्तं सर्वं ज्ञेयं धनादिकम् ॥२२३॥
 सिंहलग्ने समायाते लग्नं पश्यति सिंहपे⁶ ।
 साम्राज्यं जायते पुंसां सिंहस्येव पराक्रमः ॥२२४॥
 यो यो नाथयुतो दृष्टो भावः सौम्ययुतोऽथवा ।
 समृद्धिस्तस्य तस्यैव पापैरेवं विपर्ययः ॥२२५॥
 आद्यं⁷ भूदयकंटकं क्षितिगृहं पातालकेन्द्रं पुनः

प्रश्नकाल में जिस भाव का स्वामी उदित हो और गोचर शुद्धि उत्तम हो उसकी दशा शुभ होती है। इस स्थिति में यदि शुभ शकुन हो तो प्रश्नकर्ता का महान अभ्युदय कहना चाहिये ॥२२१॥

प्रश्नकाल में लग्नेश यदि उदित हों तो वह मास, वर्ष, तिथि लग्न, वय, वर्ण, भाग्य और त्रैलोक्य उसके लिये उदित रहते हैं ॥२२२॥

धनादि भावों के उदित रहने पर उनकी उदित दशा में धनादि विषयों का अभ्युदय कहना चाहिये और विपरीत होने पर उन विषयों की अवनति कहना चाहिये ॥२२३॥

प्रश्नकाल में सिंह लग्न हो, सिंह का स्वामी (सूर्य) लग्न को देखता हो तो प्रश्नकर्ता को साम्राज्य की प्राप्ति तथा सिंह के समान पराक्रम होता है ॥२२४॥

जो जो भाव अपने स्वामी तथा शुभ ग्रह से युक्त तथा उससे देखा गया हो प्रश्नकर्ता की उस उस भाव में समृद्धि होती है। यदि वही पापग्रह से युक्त वा इष्ट हो तो अशुभ फल देता है ॥२२५॥

1. माघोदये for नाथोदये A. Amb. 2. मासाब्दं तिथिलग्नभम् for मासाब्दतिथिलग्नपात् Amb. 3. वर्णवर्णदशां भावाः for वयो वर्णं दिशां भाग्यं Amb. दिशां भावाः Bh. दिशां भाग्यं 4. अभ्युदिता for अभ्युदिता A, A¹. 5. द्वादशापि for दशा अपि A. 6. लग्ने for सिंहपे Bh. 7. सौम्यैर for सौम्य A. 8. तू for भू Amb.

स्त्रीकेन्द्रं च तृतीयकं बुधजनैर्हर्षस्त्र्यकेन्द्रं स्मृतम् ।
 अभ्राख्यं दशमं मतं सुमनसां क्षोणीन्द्रकेन्द्रं पदं
 पुष्टास्ते किल कण्टका बलयुता यच्छन्ति पूर्णं फलम् ॥२२६॥
 तन्वादिसप्तमं यावदुत्तरो^२ भाव उत्तमः ।
 सप्तमं^३ प्रथमं यावदक्षिणस्त्वबलोऽधमः^४ ॥२२७॥
 आद्याः^५ केन्द्रगताः खेटाः समस्ता उदिता मताः ।
 अस्तकेन्द्रस्थिता^६ सर्वेऽप्यस्तामिताः शुभाशुभाः ॥२२८॥
 पातालेऽप्युत्तमाः प्रोक्ता आकाशे मध्यमाः स्थिताः ।
 उत्तरेऽभ्युदिता ज्ञेया विशेषेण बलाधिकाः ॥२२९॥
 दक्षिणेऽप्युत्तमे^७ भागे बलहीना ग्रहा मताः ।
 एवं लग्नबलं ज्ञात्वा विलग्ने फलमादिशेत् ॥२३०॥

केन्द्र पहला, चौथा, सातवां, दशवां कहलाते हैं । उसमें पहला उदयकंटक और क्षितिग्रह, दूसरा पातालकेन्द्र, तीसरा, स्त्रीकेन्द्र और हर्ष-केन्द्र चौथा अर्थात् दशम स्थान को अभ्राख्यकेन्द्र वा क्षोणीन्द्रकेन्द्र कहते हैं । यदि ये स्थान सबल पुष्ट रहें तो पूर्ण फल को देते हैं ॥२२६॥

केन्द्रों में लग्न से सप्तम तक उत्तर भाव कहलाते हैं । वह उत्तम हैं और सप्तम से प्रथम तक दक्षिण भाव कहलाते हैं वह अधम अबल होते हैं ॥ २२७ ॥

पहले केन्द्रस्थित सब ग्रह उदित कहलाते हैं । और सप्तमकेन्द्र में स्थितग्रह शुभ अशुभ कहलाते हैं ॥२२८॥

पातालकेन्द्र में स्थित ग्रह उत्तम कहलाते हैं और दशम में मध्यम कहलाते हैं । उत्तर में स्थित ग्रह अभ्युदित कहलाते हैं उनमें बल भी होता है ॥२२९॥

दक्षिण में उत्तम भाग में रहने पर भी ग्रह बलहीन होते हैं । इस प्रकार लग्न जान कर फलादेश कहना चाहिये ॥२३०॥

1. तन्वादि for तन्वादि Amb. 2. दुत्तमौ for दुत्तरो Amb.
 3. सप्तमात् for सप्तमं Amb. 4. स्यनः for सधमः Amb. 5.
 आद्याः for अथ Amb. 6. गता० for स्थिता A. 7. त्वधमा
 for प्युत्तमे A., Bh.

पृच्छालगनेषु सर्वेषु जन्मपत्र्यां विचक्षणैः ।

केन्द्रस्थग्रहयोगेन फलं वाच्यं मनीषिणा ॥२३१॥

आद्यकेन्द्रैर्ग्रहैर्जातः^१ पुण्यवान् पुरुषः स्मृतः ।

अस्तग्रहैर्द्वैर्ग्रहैर्वा हीनो भवति मूर्तितः ॥२३२॥

कोऽत्र^२ वर्षः शुभोऽस्माकमिति प्रश्ने समागते ।

तत्ताजिकानुसारेण कीर्त्यते वर्षलक्षणम्^३ ॥२३३॥

जन्मतः प्रथमे लग्ने जन्मकालगतैर्ग्रहैः ।

वर्षं यावत्फलं ज्ञेयं^४ जन्मपत्र्यां विचक्षणैः ॥२३४॥

द्वितीये वत्सरे वाच्यं^५ द्वितीयलग्नतः फलम् ।

तृतीये वत्सरे^६ ज्ञेयं तृतीयादपि लग्नतः ॥२३५॥

एवं द्वादश वर्षाणि जन्म द्वादश लग्नतः ।

जन्मकालगतैरेव ग्रहैर्वाच्यं शुभाशुभम् ॥२३६॥

इस प्रकार जन्मपत्री तथा प्रश्नकुण्डली में भी केन्द्रस्थित ग्रह यदि बली हों तो शुभ अन्यथा विपरीत फल कहना चाहिये ॥२३१॥

आद्यकेन्द्र अर्थात् लग्न और चतुर्थ में स्थित ग्रह से बालक को पुण्यवान् कहना चाहिये । सप्तम और दशमस्थ ग्रहों से उससे हीन कहना चाहिये ॥२३२॥

कौन सा वर्ष मेरे लिये शुभप्रद है इस प्रकार के प्रश्नों के लिये ताजिक के अनुसार वर्षफल कहा जाता है ॥२३३॥

जन्म कालिक लग्न से जिस घर में जो ग्रह स्थित हो उसके अनुसार एक वर्ष तक फल कहना चाहिये ॥२३४॥

इसी प्रकार द्वितीय वर्ष में द्वितीय स्थान से, तृतीय वर्ष में तृतीय स्थान से फलादेश कहना चाहिये ॥२३५॥

इस प्रकार जन्म लग्न से बारह स्थानों के द्वारा जन्म कालिक ग्रहों से बारह वर्ष तक शुभ और अशुभ फल कहना चाहिये ॥२३६॥

1. केन्द्रस्थ for केन्द्रस्था A. 2. केन्द्रगतैः खेटैः for केन्द्रैर्ग्रहैर्जातः A. 3. गतै for ग्रहै A. 4. कोऽस्ति for कोऽत्र A. 5. वर्षजं फलम् for वर्षलक्षणम् A., Bh. 6. वाच्यं for ज्ञेयं A¹. 7. The portion beginning with वाच्यं and ending with वत्सरे is missing in A.

द्वादश नवका यावदष्टोत्तरशतं भवेत् ।
 एवमायुषि सम्पूर्णे नवा वार्ता^१ भवन्ति हि ॥२३७॥
 मेषसंक्रान्तिकाले च वर्षे पूर्णेऽखिलेऽपि हि ।
 धनानुजादयो भावाः पुनर्लघ्नीभवन्त्यमी^२ ॥२३८॥
 जन्मकालगताः खेटाः सन्तिष्ठन्ति तथैव हि ।
 मुखहासंज्ञितं लग्नं वर्षलग्नं^३ भवेदिदम् ॥२३९॥
 मेषसंक्रान्तिकाले हि^४ वर्षलग्नं प्रवर्तते ।
 जन्मकालग्रहैरेव पुनर्वर्षफलं वदेत् ॥२४०॥
 सर्वे तन्वाद्यो भावाः शुभयुक्ता बलावहाः^५ ।
 क्रूरयुक्ताश्च ते दृष्टा विपरीतफलप्रदाः ॥२४१॥
 उदयात्पञ्चमं यावदवस्था प्रथमा समा ।
 पञ्चमात्रवमं यावदवस्था हि द्वितीयका ॥२४२॥

इस प्रकार बारह भावों को ६ बार करके १०८ वर्ष होते हैं ।
 सम्पूर्णा आयु में बारह भावों के नौ चक्र होते हैं ॥२३७॥

मेष संक्रान्ति के समय वर्षपूर्ति हो जाने पर फिर धन, भ्रातृ
 आदि भाव और लग्न बन जाते हैं ॥२३८॥

जन्म काल में जैसे ग्रह स्थित होते हैं । वैसे ही पहले वर्ष में
 वर्षकुरण्ड में भी होते हैं और वर्ष लग्न ही मुखहा कहलाते हैं ॥२३९॥

मेष संक्रान्ति काल में जिसका वर्ष बदलता है उसको उसी काल
 का लग्न तथा ग्रह से वर्षफल कहा जाता है ॥२४०॥

सभी तनु आदि भाव शुभ ग्रहों से युक्त हों तो बलिष्ठ होकर शुभ
 फल देते हैं । वे ही यदि पाप ग्रहों से युक्त देखे जाते हों तो विपरीत
 फलदायक होते हैं ॥२४१॥

लग्न से पञ्चम भाव तक प्रथम अवस्था कहलाती है । पञ्चम
 भाव से नवम भाव तक दूसरी अवस्था होती है ॥२४२॥

1. नवावर्ता for नवा वार्ता A., Bh. 2. भवन्ति ते for
 भवन्त्यमी A. 3. वर्षलग्नं is missing in the text. 4. च for
 हि A. 5. शुभा० for बला० A.

नवमात्प्रथमं यावदवस्था स्यात्तृतीयका ।

अर्द्धपञ्चमसन्धौ हि पूर्वं पूर्वं^१ पतन्त्यघः ॥२४३॥

पञ्चमाभवमं यावत्तन्वादिषु शुभैर्ग्रहैः^२ ।

जन्ममध्ये च यस्यैवं^३ सौख्यं भवति निश्चितम् ॥२४४॥

उदयात्पञ्चमं यावज्जन्मपत्र्यां शुभग्रहैः ।

वयसि प्रथमे सौख्यं प्रष्टुर्वाच्यं नवं नवम् ॥२४५॥

नवमात्प्रथमं यावत् सर्वभावे शुभग्रहैः ।

वृद्धत्वेऽपि हि जन्तूनां^४ सर्वसौख्यं प्रवर्तते ॥२४६॥

अवस्थात्रये सौम्याश्चेद्वाच्यं वयस्त्रये^५ सुखम् ।

यत्र^६ वयसि तुङ्गाश्चेद्वाज्यलक्ष्मीप्रदा मताः ॥२४७॥

नवम भाव से प्रथम भाव तक तीसरी अवस्था होती है और आधे की सन्धि से पञ्चम भाव की सन्धि तक पहली अवस्था में परिणत होती है । और उससे नवम भाव की सन्धि तक दूसरी अवस्था, उस से आगे तृतीय अवस्था में परिणत होती है ॥२४३॥

जन्मकाल में पञ्चम से नवम तक तन्वादि भावों में यदि शुभ ग्रह हों तो उसे निश्चित ही सुख प्राप्ति होती है ॥२४४॥

जन्म लग्न से पञ्चम तक यदि शुभ ग्रह पड़े हों तो बालक को प्रथम अवस्था में कुछ नए प्रकार का सुख होना चाहिये ॥२४५॥

नवम भाव से प्रथम भाव तक यदि सभी भावों में शुभ ग्रह पड़े हों तो वृद्धावस्था में भी सुखप्राप्ति होती है ॥२४६॥

तीनों अवस्थाओं में यदि शुभग्रह हों तो बाल्य, युवा और वृद्ध इन तीनों अवस्थाओं में सुख कहना चाहिये । किन्तु जिस अवस्था में शुभ ग्रह अपनी उच्च अवस्था में हों तो उस में राज्यलक्ष्मी होती है ॥२४७॥

१. पूर्वं: पूर्वं: for पूर्वं पूर्वं A. २. शुभग्रहैः A. ३. जन्ममध्ये-मयस्यैव for जन्म मध्ये च यस्यैवं A. ४. सम्प्राप्ते for जन्तूनां ५. मये ६. यस्मिन् for यत्र A.

आद्यावस्था गतास्तु^१ राज्यामाद्यवयोगतम् ।
 मध्यावस्थागतास्तु^२ यौवने राज्यदाः स्मृताः ॥२४८॥
 अन्त्यावस्थागतास्तु^३ वार्द्धके राज्यदा मताः^४ ।
 आद्यावस्थास्थिताः^५ क्रूरा बाल्ये दारिद्र्यदाः स्मृताः ॥२४९॥
 मध्यावस्था यदा^६ क्रूरा यौवने दौःख्यदायकाः ।
 अन्त्यावस्थागताः क्रूरा अन्ते^७ वयसि दुःखदाः ॥२५०॥
 एवं ग्रहानुमानेन सुखदुःखं सतां^८ भवेत् ।
 यस्मिन् वयसि तु^९ ज्ञानश्चेन्मुदिताः सौख्यसंयुताः ॥२५१॥
 तत्र राज्यं सुखं लक्ष्मीस्तेजो भवति निश्चितम् ।
 यस्मिन् वयसि मन्दाः स्युः क्रूरदृष्टा विरश्मिकाः^९ ॥२५२॥

यदि आद्य अवस्था में उच्च के ग्रह रहें तो बाल्य अवस्था में ही राज्यप्राप्ति होती है। यदि वे मध्यावस्था में उच्च के हों तो युवावस्था में राज्यप्रद होंगे ॥२४८॥

यदि अन्त्यावस्था में उच्च ग्रह हों तो वृद्धावस्था में राज्यप्राप्ति होती है। आद्यावस्था में यदि क्रूर ग्रह हों तो बाल्यकाल में उसे दरिद्र कहना चाहिये ॥२४९॥

मध्यावस्था में यदि पापग्रह हों तो उस पुरुष की यौवनावस्था में दुःख देने वाले होते हैं। अन्त्यावस्था में यदि पापग्रह हों तो बुढ़ापे में भी दुःख देने वाले होते हैं ॥२५०॥

इस प्रकार ग्रह स्थिति के अनुसार सुख दुःख सदा कहना चाहिये। जिस किसी भी अवस्था में उच्च के ग्रह हों उस अवस्था में प्रसन्न एवं सुखपूर्णा हों ॥२५१॥

उस समय मनुष्य को राज्य, सुख, लक्ष्मी, तेज आदि निश्चय से होते हैं। जिस अवस्था में स्वयं भी पापग्रह अन्य पापग्रहों से देखे जाय तथा सूर्य में प्रवेश कर जाय ॥२५२॥

1. वयोचितम् for वयोगतम् A. 2. स्मृताः for मताः A.
 3. गताः for यदा A. 4. दौस्थ्य for दौःख्य A. 5. मन्दास्त्वन्ये A.
 6. सुखं for सुख A. 7. सदा for सतां A. 8. सौम्य for सौख्य A.
 9. विरश्मिताः for विरश्मिकाः Amb.

तत्र हानी रुजातंकः पदभ्रंशः खलागमः ।

लग्ने तुंगे महालक्ष्मीस्तूर्यगे च^१ धनागमः ॥२५३॥

तुंगे^२ जायास्तगे खेटे खे तुंगे^३ राज्यसंपदः ।

खेटोदयानुमानेन फलवर्षे फलं^४ मतम् ॥२५४॥

॥ इति वर्षफलम् ॥

श्रीहेमशालिनां योग्यमप्रभीकृतभास्करम् ।

सूक्ष्मेक्षिकया चक्रैरिभिः शास्त्रमदूषितम् ॥२५५॥

अथ निधानप्रकरणम् ।

एकाकिन्यपि तुर्ये^५शे तुर्यं पश्यति वा स्थिते ।

अवश्यं विभवस्तत्र विद्यते कृतनिश्चयः ॥२५६॥

एकाकिन्यपि शीतांशौ तुर्यं पश्यति वा स्थिते ।

क्षीणे वास्तमिते चापि ध्रुवं ज्ञेयो निधिर्गृहे ॥२५७॥

तो मनुष्य को हानि, रोग, भय, स्थानभ्रंश, दुष्टरोग आदि होते हैं। उच्च का ग्रह यदि लग्न में हो तो धनप्राप्ति होती है ॥२५३॥

यदि ग्रह उच्च का होकर जायागृह हो अथवा स्वोच्चस्थ ग्रह दशम में रहे तो राज्यप्राप्ति होती है। इस प्रकार ग्रहों के उदयमान से वर्ष फल कहना चाहिये ॥२५४॥

ऐश्वर्य चाहने वालों के योग्य, अपनी प्रभा से सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत करने वाले, तथा शत्रुओं से अदूषित इस शास्त्र को श्रीहेम-सूरि ने सूक्ष्म विचार से किया ॥२५५॥

अकेला भी कोई ग्रह चौथे स्थान में वा उसके नवांश में रहे वा उस स्थान को देखे तो अवश्य ही सम्पत्ति का लाभ होता है ॥२५६॥

अकेला क्षीण वा अस्त भी चन्द्रमा चतुर्थ स्थान को देखे वा उसमें रहे तो उसके घर में अवश्य निधि होती है ॥२५७॥

1. तुर्ये तुंगे for तुर्यगे च A, 2 तुंगा for तुंगे A. 3. तुंगं for तुंगे A. 4. फलं वर्ष फले for फलवर्षे फलं A., Bh. 5. प्रतीकृत for प्रभीकृत A.

स्थानत्रयेषु सौम्याश्चेन्निधिः स्थानत्रये मतः ।

धनस्थाने बलं^१ द्रव्यं तुर्यगेहे महानिधिः ॥२५८॥

छिद्रस्थाने च पूर्वेषामतीतानां महानिधिः ।

शुभखेटानुसारेण रूप्यस्वर्णादि^३ निर्णयः ॥२५९॥

क्रूरे तूर्यपतौ द्रव्यं विद्यते लभ्यते नहि ।

क्षीणचन्द्रेऽपि तूर्यस्य^४ लभ्यते तत्र वत्सरे ॥२६०॥

जायायां^५ छिद्रगेहे वा मंगलो यदि खेचरः ।

तदा शत्रुहृतानां चाप्यतीतानां निधिर्धुवम्^७ २६१॥

राहुशनी मृतौ भावपृच्छायां खेचरौ क्रमात् ।

व्यन्तरत्वं गतानां च द्रव्यं भवति निश्चितम् ॥२६२॥

तीन स्थानों में यदि शुभ ग्रह हों तो घर के तीन स्थानों में निधि होती है । धनस्थान में रहें तो सेना और द्रव्य, चतुर्थ स्थान में रहें तो महासम्पत्ति कहनी चाहिये ॥२५८॥

अष्टम स्थान में यदि शुभ ग्रह हों तो अपने पूर्वजों की महा निधि कहनी चाहिये । इस प्रकार शुभ ग्रहों के अनुसार रुपये सोने आदि का पता लगाना चाहिये ॥२५९॥

पाप ग्रह यदि चतुर्थ स्थान के स्वामी हो तो द्रव्य अवश्य हो, पर मिले नहीं । यदि ज्ञीणा चन्द्र भी चतुर्थ स्थान का स्वामी हो तो उस वर्ष में धनप्राप्ति होती है ॥२६०॥

सप्तम वा अष्टम स्थान में यदि मंगल हो तो युद्ध में मृत पूर्वजों की निधि अवश्य होती है ॥२६१॥

प्रश्नकाल में राहु और शनि यदि अष्टम भाव में हो तो मृत पूर्वजों का द्रव्य होना निश्चित कहा गया है ॥२६२॥

-
1. च तद् for बलं A. 2. शुभे for शुभ A. 3. स्वर्गरूप्यादि for रूप्यस्वर्णादि A. 4. तत्रस्थे for तूर्यस्य A. तूर्यस्मे Bh.
5. The text reads जातायां A. 6. शास्त्र for शत्रु A. शस्त्र Bh.
7. विधि० for निधि A.

निधिप्रश्ने विलम्बे चेद्राहुर्भवति खेचरः ।

छिद्रे रविस्तदा वाच्यं निधानं नैव लभ्यते ॥२६३॥

प्रश्नकाले यदा मूर्तो^१ तुर्ये वा सप्तमेऽपि वा ।

दशमे वा भवेत् शुक्रो निधिस्तीति निश्चितम् ॥२६४॥

मूर्तो^१ वा तुर्यगे वापि सप्तमे च^१ गृहे यदि ।

दशमे वा भवेज्जीवः सचन्द्रो निधिदायकः ॥२६५॥

सजीवे चन्द्रशुक्रे वा^२ तुर्ये गेहे धनं भवेत् ।

सरत्नहाटकं रूप्यं घटिताघटितं भवेत् ॥२६६॥

बुधश्चन्द्रो गुरुः शुक्रो धने वा हिबुकेऽथवा^३ ।

प्रयच्छन्ति निधिं स्वीये^४ चान्यं वा बलशालिनः ॥२६७॥

छिद्रस्थाने स्थितास्त्वेतेऽपत्ये^५ वा खेचरा धनम् ।

निधिं यच्छन्ति पूर्वेषां विना^६ नैवेद्यपूजनात् ॥२६८॥

निधि प्रश्न में यदि राहु लग्न में हो और सूर्य अष्टम स्थान में हो तो निधिलाभ नहीं कहना चाहिये ॥२६३॥

प्रश्नकाल में यदि लग्न में, चौथे, सातवें तथा दसवें स्थान में शुक्र रहे तो निधि अवश्य ही कहनी चाहिये ॥२६४॥

प्रश्नकाल में यदि केन्द्रस्थान में गुरु हो और वह चन्द्रमा से युक्त हो तो निधि अवश्य मिले ॥२६५॥

चन्द्र और शुक्र, गुरु के साथ चौथे स्थान में रहें तो उसके घर में अवश्य धन रहे । उसके पास रत्न, सुवर्ण आदि मूल तथा अलंकार अवस्था में रहें ॥२६६॥

बली बुध, चन्द्रमा, गुरु वा शुक्र धनस्थान वा चतुर्थ स्थान में रहें तो उसे अपनी या अन्य की निधि प्राप्त हो ॥२६७॥

अष्टम वा पञ्चम स्थान में ग्रह रहें तो उनकी विना बलि तथा नैवेद्य द्वारा पूजा से ही पूर्वजों की निधि प्राप्त होती है ॥२६८॥

1. वा for च A. 2. च for वा A. 3. ऽपिवा for अथवा A.
4. स्वीयं for स्वीये A. 5. प्यन्ये for ऽपत्ये A. 6. बलि for विना A.

यत्र शुक्रः क्षितौ तत्र चक्रमध्ये निधिः स्थितः^१ ।
 शुक्रदृष्टे पुरो वापि गेहे^२ खण्डं विलोकयेत् ॥२६९॥
 यत्र गुरुः क्षितौ तत्र चक्रकोणे निधिः पुरः ।
 यत्र खेटा^३ धनाभावे तत्रावश्यं निधिर्बहुः ॥२७०॥
 तुर्येशः केन्द्रमध्यस्थोऽपथ^४ एकनिधिस्तदा ।
 तुर्येशो बाह्यराशौ वा गृहाद्बहिर्निधिः पुनः ॥२७१॥
 यत्र लाभे भवेत् शुक्रः स्वकीयं स्वजनस्य वा ।
 स्थापितं^५ वा प्रनष्टं वा लभ्यते बहुलं धनम् ॥२७२॥
 बुधे चन्द्रे भवेल्लाभो जीवयुक्ते विशेषतः ।
 शुक्रयुक्ते महालाभः प्रतिवेश्म निधेरपि ॥२७३॥
 ऊर्ध्वदृष्टौ^६ भवेद्ूर्ध्वं मालादावुपरिसंस्थितम् ।
 अधोदृष्टावधोवस्तु समदृष्टौ सदेशके ॥२७४॥

जिसकी कुण्डली में शुक्र लग्न में हो तो घर के बीच में निधि कहनी चाहिये । यदि शुक्र की दृष्टिमात्र हो तो घर के आगे वा घर के किसी भाग में देखनी चाहिये ॥२६६॥

जहां लग्न में गुरु रहे वहां घर के किसी कोने में निधि होती है । यदि धनभाव में प्रह रहे तो वहां अवश्य प्रचुर धन होता है ॥२७०॥

चतुर्थेश यदि केन्द्र में हो तो कोने में सम्पत्ति कहना, चतुर्थेश यदि बाह्यराशि में हो तो घर से बाहर निधि कहनी चाहिये ॥२७१॥

जहां पर लाभस्थान में शुक्र हो वहां अपना और अपने सम्बन्धियों का रक्खा तथा खोया हुआ पर्याप्त धन प्राप्त होता है ॥२७२॥

लाभ स्थान में बुध वा चन्द्र गुरु से युक्त हों तो विशेष लाभ कहना चाहिये । यदि वही बुध वा चन्द्र शुक्र के साथ हों तो पूर्ण निधि की प्राप्ति हाती है ॥२७३॥

ऊर्ध्व दृष्टि रहने पर ऊर्ध्व आदि ऊपर प्रदेश में, अधोदृष्टि वाले प्रहों के रहने पर नीच प्रदेश में, सम दृष्टि वाले प्रहों की दृष्टि से सम प्रदेश में निधि कहनी चाहिये ॥२७४॥

1. स्थितिर्निधिः for निधिः स्थितिः A, 2. गेह for गेहे A, 3. घना for घना Bh, 4. स्थापवरके for स्थोऽपथ एक Bh, 5. स्थापितं for स्थागितं A, 6. ऊर्ध्वदृष्टौ for ऊर्ध्वदृष्टौ A^१ 7. मालादावुपरिसंस्थितम् Bh.

ऊर्ध्वदृष्टौ^१ भवेदूर्ध्वमधोधिष्ये च स्वभ्रगम्^२ ।
 समदृष्टौ^३ समे गेहे युक्तं वस्तु दिशां^४ क्रमात् ॥ २७५॥
 ऊर्ध्वदृष्टौ पदे^५ भिन्नैर्वक्रिते भित्तिमध्यतः ।
 ग्रहो यदि दिनैकेन राशिमन्यां^६ यियासति ॥२७६॥
 छन्नं मध्ये तदा ज्ञेयं निधानं^७ स्थापितं बुधैः ।
 यावन्तः खेचरास्तूर्ये तावत्संख्यो निधिर्मतः ॥२७७॥
 यत्संख्ये वर्तते चन्द्रो नक्षत्रे निधिदायकः ।
 गृहे निधिश्च तत्संख्ये विज्ञेयः खातशोधने ॥२७८॥
 शुक्रे चन्द्रे जलस्थाने देवस्थाने शुभे गुरौ ।
 चतुष्पदगृहे सूर्ये चेष्टिकानिचये^८ बुधे ॥२८९॥
 भौमे महानसस्थाने शनौ राहौ बहिर्भुवि ।
 निधानं गेहमध्ये तु स्थानेष्वेतेषु लक्षयेत् ॥२९०॥

ग्रहों की ऊर्ध्व दृष्टि रहने से घर के उच्च प्रदेश में, अधोदृष्टि रहने से कहीं गर्त में और सम दृष्टि से सम प्रदेश में निधि कहनी चाहिये ॥२७५॥

ऊर्ध्वदृष्टि में भित्ति स्थान पर, वक्रि होने पर भित्ति के मध्य में पर यदि एक ही दिन में ग्रह दूसरी राशि में जाना चाहें तो ॥२७६॥

मध्य स्थान में निधि को छिपा हुआ कहना चाहिये । चतुर्थ स्थान में जितने ग्रह हों उतने प्रकार की निधि कहनी चाहिये ॥२७७॥

निधि बतलाने वाला चन्द्र जितनी संख्या वाले नक्षत्र में रहे उतनी बार गड़वा खोदने पर निधि प्राप्त होती है ॥२७८॥

शुक्र वा चन्द्र निधिदायक हों वा जलस्थान म, गुरु यदि हों तो मन्दिर आदि शुभ स्थान में, सूर्य यदि हों तो पशुशाला में, बुध यदि हों तो ईट के भट्टों की जगह निधि प्राप्त हो ॥२७९॥

मंगल यदि हों तो पाकालय में, शनि और राहु हों तो घर के बाहर वा घर के बीच निधि को बतलाना चाहिये ॥२८०॥

1. ऊर्ध्वधिष्ये for ऊर्ध्वदृष्टौ A. 2. स्वभ्रके for स्वभ्रगम् A., Bh. 3. समधिष्ये for समदृष्टौ A. 4. The text reads दशं for दिशाम् 5. भिन्ने for भिन्नै A. 6. ०मन्यं for ०मन्यां A. मध्ये Bh. 7. The text reads धनगं for निधानं A. 8. निचये for निचये A., निचयो Bh.

निधिस्थानपतिः स्थाने यावत्संख्येऽवतिष्ठति ।
तावद् हस्तेष्वधोवाच्यं निधानं भूमिखण्डके ॥२८१॥
यावत्संख्येऽशुके चन्द्रे लग्नेशो यत्तमो भवेत् ।

तत्संख्याकरमानेन द्रव्यं^१ भूमिगतं वदेत्^२ ॥२८२॥
शुके चन्द्रे भवेद्रौप्यं बुधे स्वर्णं निधिस्थितम्^३ ।
गुरौ रत्नयुतं^४ हेममादित्ये मौक्तिकं तथा^५ ॥२८३॥
भौमे त्रपु शनौ लोहं राहावस्थि भुवि स्थितम्^६ ।
धातोर्विनिश्चये ज्ञाते विशेषेऽयं ग्रहस्थितः^७ ॥२८४॥
चतुर्थाधिपतौ मध्ये गृहमध्ये^८ भवेद् ध्रुवम् ।
चतुर्थाधिपतौ बाह्ये गृहाद्ग्रहगतं^९ धनम् ॥२८५॥
विलमात्सप्तमं यावद्ग्राशयोऽभ्यन्तराः खलु^{१०} ।
सप्तमात्प्रथमं यावद् बाह्या हि राशयो मताः ॥२८६॥

निधि स्थान के स्वामी उस से यत्संख्यक स्थान में रहें उतने हाथ नीचे भूमिखण्ड में निधि कहनी चाहिये ॥२८१॥

चन्द्रमा यत्संख्यक नवांशक म रहे और लग्नेश-लग्ने से जितने स्थान पर हो उतने हाथ पर भूमि के अन्दर द्रव्य कहना चाहिये ॥२८२॥

इस प्रकार शुक्र और चन्द्र यदि हों तो रुपये, बुध हों तो सुवर्ण, शुक्र गुरु हों तो रत्न युक्त सुवर्ण और सूर्य के रहने से मोती मिलते हैं ॥२८३॥

मंगल में मूंगा, शनि में लोहा और राहु में पृथ्वीगत हथी मिलती हैं । इस प्रकार धातु के निश्चय हो जाने पर ग्रहों से विशेष बातें जाननी ॥२८४॥

चतुर्थ स्थान का स्वामी यदि मध्यस्थान में हो तो घर के अन्दर निधि मिले । यदि चतुर्थे श बाह्यस्थान में रहे तो घर के बाहर निधि मिलती है ॥२८५॥

1. निधानं भू० for द्रव्यं भूमि A^१. 2. भवेत् for वदेत् A. A^१
3. स्वर्णमुदाहृतम् for स्वर्णं निधिस्थितम् A. Bh. 4. सूर्य for हेम० A.^१ A^५ 5. मौक्तिकमुच्यते for मौक्तिकं तथा A. A^१
मौक्तिकं निधौ Bh. 6. वस्थिति कीर्तयेत् for वस्थि भुवि स्थितम् A. A^१. 7. ग्रहस्थितः for ग्रहस्थितः A^१ 8. गृहे मध्ये for गृहमध्ये A.
9. धनं for गतं A. 10. मतः for खलु A.

निधीशलग्ननाथौ द्वौ मध्यराशिस्थितौ यदि ।

तदा द्रव्यं गृहस्यान्तःकोणादिष्वेव संस्थितम् ॥२८७॥

यदा लग्नेशतुर्ये^१ शौ बाह्यराशिस्थितौ यदि ।

गृहाद्बहिर्धनं वाच्यं प्रांगणादिभुवि स्थितम् ॥२८८॥

केन्द्रगतैर्ग्रहैर्वाच्यं^१ सर्वाः पूर्वादयो दिशः ।

केन्द्रगे चन्द्रजे ज्ञेयं गृहस्योत्तरदिगस्थितम् ॥२८९॥

गुरावीशानभागे च रवौ पूर्वदिशि स्थितम् ।

शुक्रेऽप्याग्नेयदिग्कोणे कुजे दक्षिणादिक्श्रयम् ॥२९०॥

राहौ नैऋत्य^३कोणे च शनौ पश्चिमदिगस्थितम् ।

चन्द्रे वायौ^३ शनौ गर्ते निक्षारे राहुसंस्थिते ॥२९१॥

उच्चकेन्द्रस्थखेटेषु बलयुक्तेषु सर्वतः ।

लक्षसंख्यो निधिः सत्यं चन्द्रदृष्टौ स्वहस्तगः ॥२९२॥

लग्न से सप्तम तक की राशियां आभ्यन्तरिक कहलाती हैं । सप्तम से प्रथम तक बाह्य राशि कही जाती हैं ॥२८७॥

निधीश और लग्नेश यदि मध्यराशि में हो तो घर के बीच किसी कोने आदि में द्रव्य मिलना चाहिये ॥२८८॥

लग्नेश और चतुर्थेश यदि बाह्य राशियों में रहें तो घर से बाहर आंगन आदियों में धन कहना चाहिये ॥२८९॥

केन्द्रस्थ ग्रहों से पूर्वादि दिशाओं का निर्णय करना । यदि बुध केन्द्र में रहे तो धन घर की उत्तर दिशा में समझना ॥२९०॥

यदि गुरु केन्द्र में हो तो ईशान कोण में, रवि केन्द्र में हो तो पूर्वदिशा में, शुक्र केन्द्र में हो तो आग्नेय कोण में, मंगल केन्द्र में हो तो दक्षिण दिशा में निधि होती है ॥२९१॥

राहु केन्द्र में हो तो नैऋत्य कोण, शनि केन्द्र में हो तो पश्चिम दिशा तथा किसी गर्त में, चन्द्र केन्द्र में हो तो वायव्य कोण में निधि होनी चाहिये ॥ २९२ ॥

1. वाच्याः for वाच्यं A. 2. अतः for अत्यं A. 3. The text reads वायव्ये which does not fit in with the metre'

उदयालंकृते खेटे शुभग्रहविलोकिते¹ ।

अकस्मान्निविरायाति पुण्याढ्यस्य महात्मनः ॥२९३॥

यावन्त्योऽप्यंशका युक्तास्तावन्त्याधारभाजने ।

छादितं² कलसादौ³ तु द्रव्यं वाच्यं गृहे गृहे ॥१९४॥

धातुभाण्डे चरे ज्ञेयं मूलभाण्डं स्थिरे पुनः ।

द्विस्वभावेषु⁴ मृद्भाण्डं चैवं⁵ भाण्डस्य⁶ निर्णयः ॥२९५॥

लग्नस्थमेषमाश्रित्य वृषयुग्मादिदक्षिणे ।

गृहस्यांशस्थिते भावे विज्ञेयो निधिदायकः ॥२९६॥

मीनकुम्भाद्युत्तरोंशः सम्मुखस्थे च दक्षिणः ।

विन्यस्तचक्रमानेन देशो वाच्यो निधिस्यम् ॥२९७॥

लग्नमूर्तेर्गृहस्यैव द्विबुकं दक्षिणे भवेत् ।

उत्तरे दशमस्थानं प्रविविक्षोर्विपर्ययः ॥२९८॥

सभी ग्रह यदि उच्च वा केन्द्र के हों और सबल रहे, साथ ही चन्द्र की दृष्टि रहे, तो लग्न संख्या में निधि मिले ॥ २६२ ॥

शुभग्रह यदि लग्न में हों और अन्य शुभ ग्रहों से देखे जाय तो पुण्य-शील पुरुष को एकाएक निधि प्राप्त हाती है ॥ २६३ ॥

जतने अंश को वे भोग कर गये हों उतने आधारपात्र वा कलश आदि में ढका हुआ द्रव्य घर में स्थित कहना चाहिये ॥ २६४ ॥

यदि चर राश का लग्न हो तो धातु भाण्ड में, स्थिर राशि को हो तो मूल भाण्ड में, द्विस्वभाव का लग्न हो तो मट्टी के बतने में निधि का होना कहना चाहिये । इस प्रकार भाण्डों का निर्णय समझना ॥ २६५ ॥

लग्न का मेष समझ कर वृषादि दक्षिण क्रम से गृही का जिस अंश में निधि भाव पड़े उसी भाग में निधि कहना चाहिये ॥ २६६ ॥

मीन कुम्भादि क्रम से उत्तरााद दिशाओं में स्थापना करे और उत्तर का सम्मुख दक्षिणा समझना चाहिये । इस प्रकार चक्र का स्थापित कर के निधि का स्थान बतलाना चाहिये ॥ २६७ ॥

-लग्नस्थान से घर में, चतुर्थ स्थान से दक्षिण दिशा में, और दशम स्थान से उत्तर दिशा में और यदि कोई ग्रह अन्य स्थान में जाने वाले हों तो विपरीत दिशा समझनी चाहिये ॥ २६८ ॥

1. बलोत्कटे for विलोकिते A. 2. स्थापितं for छादितं A. 3. कलसादौ for कलसादौ A. 4. तु for पु A. 5. त्वेयं for चैवं A

क्रियते केवलादर्शो निधिसिद्धिप्रकाशकृत् ।

श्रीमद्देवेन्द्रशिष्येण श्रीहेमप्रभसूरिणा ॥२९९॥

इति चतुर्थभावे ^१शेवधिप्रकरणं सम्पूर्णम् ।

ज्ञानचारित्रसद्बीजं सिद्धिद्वारेऽपि गच्छताम्^२ ।

गणेशलब्धिविस्तीर्णं पक्वान्नभोजनं ब्रुवे ॥३००॥

लग्ने तुर्येऽथवा^४ लाभं सौम्यखेचरसम्भवे ।

भोज्यं भवति पृच्छायां पट्टसास्वादसुन्दरम् ॥३०१॥

गुरौ लग्नेऽथवा शुक्रं पृच्छालग्नौ गते^५ सति ।

अवश्यं लभ्यते भोज्यमटव्यामटताऽपि हि^६ ॥३०२॥

शनी राहौ च लग्नस्थे रविदृष्टेऽथवा युते ।

न लभ्यते निजे गेहे शस्त्रघातो भवेत्स्फुटम्^७ ॥३०३॥

निधि को बतलाने वाला और केवल आदर्शमय ग्रन्थ देवेन्द्र के शिष्य श्रीहेमप्रभसूरि ने बनाया है ॥ २९९ ॥

सिद्धिद्वार में जाने वाले पुरुष के ज्ञान और चारित्र का सद्बीज रूप पक्वान्नभोजन के विषय में श्रीगणेश के प्रासाद से विस्तीर्ण कहता है ॥ ३०० ॥

बुध अथवा कोई अन्य शुभ ग्रह लग्न चतुर्थ अथवा लाभस्थान में हो तो प्रश्नकाल में भोजन छः रसों के आस्वाद से सुन्दर होता है ॥३०१॥

प्रश्नकाल के लग्न में गुरु वा शुक्र हों तो जंगल में भी घूमने वाले मनुष्य को अवश्य भोजन मिले ॥ ३०२ ॥

शनि, राहु यदि लग्न में हों आर सूर्य की दृष्टि पड़े अथवा एक स्थान में हों तो अपने घर में रहने पर भी भोजन नहीं मिलता और किसी शस्त्र आदि से चोट होती है ॥ ३०३ ॥

1. निधि for शेवधि A. A¹
2. गच्छतः for गच्छताम् A, A¹
3. सज्ञानं for पक्वान्न A.
4. तथा for ऽथवा A, ५ मते for गते A¹
6. ०मरख्यमध्यगौरपि for मटव्यामटताऽपि हि A, A¹
7. भ्रुषम् for स्फुटम् A.

पृच्छायां तुर्यगे चन्द्रे भोजनं लवणाधिकम् ।

व्यञ्जनैर्वेषवाराद्यै^१लवणेन घनेन वा ॥३०४॥

तुर्ये भौमे भवेद्भोज्यं मुहुः^२ कटु रसाश्रयम् ।

दशमे मङ्गले मांसं रक्तस्त्रावेण^३ संयुतम् ॥३०५॥

रवौ तुर्ये निष्प्रतापं सरसं तत्र शीतगौ ।

सकलहं ससंतापं भौमे तुर्येऽशनं स्मृतम् ॥३०६॥

बुधे भोज्यं कषायं तु गुरौ तु मधुरोज्ज्वलम् ।

सिताखण्डघृताढ्यं^४ तु भक्तं सूपहविर्युतम् ॥३०७॥

बुधे तत्र बुधानां च कथालापकपेशलम् ।

शनौ राहौ च तुर्यस्थं सशोकं सभयं पुनः ॥३०८॥

प्रश्नकाल में यदि चतुर्थ स्थान में चन्द्र रहे तो भोजन में अधिक नमक होगा और साग आदि अन्य पदार्थ भा अधिक नमक से विकृत होंगे ॥ ३०४ ॥

चतुर्थ स्थान में यदि मंगल रहे तो भोजन कड़वे रस से युक्त हो । दशम स्थान में यदि मंगल रहे तो रक्त से पूर्ण मांसभोजन की प्राप्ति हो ॥ ३०५ ॥

सूर्य चतुर्थ स्थान में रहे तो भोजन नीरस, चन्द्र रहे तो सरस मिले । मंगल चतुर्थ स्थान में रहे तो कलह तथा सन्ताप आदि से भोजन की प्राप्ति हो ॥ ३०६ ॥

बुध चतुर्थ स्थान में रहे तो भोजन कषायरसपूर्ण, गुरु चतुर्थ स्थान में रहे तो मधुर तथा शकर घृत आदि से युक्त दाल भात मिलना चाहिये ॥ ३०७ ॥

बुध चतुर्थ स्थान में हो तो पण्डितों के सद्बचनामृतों के साथ भोजन मिलना चाहिये । शनि और राहु यदि चतुर्थ स्थान में रहें तो शोक और भय के साथ भोजन प्राप्त हो ॥ ३०८ ॥

1. वराह्यै for वाराह्यै A. 2. ज्यमुष्णं for ०ज्यं मुहुः A.
3. श्रावेण for स्त्रावेण A. 4 मितः खंडघुलाढ्यं for सिताखण्ड-
घृताढ्यं A.

अम्लसं, सिते स्निग्धं पेयः स्वाद्यरसाश्रयम् ।
 आकर्णान्तसुविभ्रान्तनेत्राभिः परिवेषितम् ॥३०९॥
 नीचे शुक्रे कदन्नं तु पक्वापक्वं जलाविलम् ।
 अप्रतिपत्तिनिःस्नेहं दासीभिः परिवेषितम् ॥३१०॥
 क्षिप्रादिकिसं रूक्षं पल्लवणककोद्भवम्¹ ।
 सतैलं चाप्यतैलं वा शनौ भोज्यं भवेदिदम् ॥३११॥
 उच्चै रवौ भवेदुष्णं तिक्तं च राजवेदमनि ।
 नीचे नीचान्तरैर्वाच्यं भोजनं² पृच्छवेदमनि ॥३१२॥
 सकृद्भोज्यं चरे लग्ने द्विवारं च स्थिरात्मकम् ।
 भोजनत्रितयं प्रोक्तं द्विस्वभावे विधौ निधौ ॥३१३॥
 शुक्रं चन्द्रे गुरौ तुर्ये पृच्छालग्नं सगौरवम् ।
 शालिभोज्यं हविःस्पृष्टं³ रम्यस्त्रीपरिवेषितम् ॥३१४॥

शुक्र चतुर्थ स्थान में हो तो खट्टा रस और कोमल सुस्वादु जल विशाल नेत्र वाली स्त्रियों से दिया हुआ मिले ॥ ३०९ ॥

शुक्र यदि नीच स्थान में हो तो कक्षा पक्का अन्न, मलिन जल से युक्त और वह भी अनादर के साथ दासियों से परोसा हुआ प्राप्त हो ॥ ३१० ॥

शनि चतुर्थ स्थान में यदि हो तो रूखा, विरस चना, तेल से युक्त अथवा अयुक्त भोज्यरूप में मिलना चाहिये ॥ ३११ ॥

रवि यदि उच्च का हो भोजन गर्म और तिक्त राजाश्रों के घर में मिले । वही यदि नीच घर का हो तो नीच जनों के घर में कहना चाहिये ॥ ३१२ ॥

चर लग्न रहे तो एक बार भोजन मिले, स्थिर लग्न रहने से दो बार, द्विस्वभाव लग्न हो और चतुर्थ चन्द्रमा रहे तो तीन बार भोजन मिले ॥ ३१३ ॥

शुक्र, चन्द्र वा गुरु लग्न में हों व चतुर्थ स्थान में हों तो भोजन सम्मानपूर्वक, घृत से मिश्रित और सुन्दर स्त्री से परोसा हुआ मिले ॥ ३१४ ॥

1. रूक्षवज्रवणककोद्भवम् for रूक्षं पल्ल चणककोद्भवम् A, A¹.
 Bh. 2. दुष्णं for पृच्छं Bh. 3. तुष्टं for स्पृष्टं A., Bh.

शुक्रे गुरौ निधिस्थाने बुधे चन्द्रे च लाभगे ।

शालिमोज्यं तमं वस्त्रैर्लभ्यते षण्यवेश्मनि ॥३१५॥

उच्चगेहे निधिस्थाने बुधे गुरौ बलोत्कटे ।

स्युः स्वर्णवस्त्रभोज्यानि चन्द्रे शुक्रे च लाभगे ॥३१६॥

गुरौ तुर्ये समंगल्यं धृतोत्साहं सितेऽपि च ।

वर्द्धापनविवाहादौ स्नेहभोज्यं सगीतकम् ॥३१७॥

लग्ने पृष्टे स्वके गेहे धने पृष्टे धनाद्भवेत् ।

तृतीये निजभगिनीभ्यः^१ पितृभ्यस्तुर्यवेश्मनि ॥३१८॥

पञ्चमे पत्रपौत्रेभ्यः षष्ठे च शत्रुवेश्मनि ।

सप्तमे निजपत्नीभ्यः स्नेहातिशयभोजनम् ॥३१९॥

नवमे च प्रपासत्रे^२ दशमे भूपवेश्मनि ।

लाभेऽप्यश्वगजादीनां^३ लाभेन सहितं बहु ॥३२०॥

शुक्र, और गुरु निधिस्थान में हों, बुध और चन्द्र लाभस्थान में हों तो वस्त्रों के साथ चावलों का भोजन किसी पुण्यवान के घर में मिले ॥ ३१५ ॥

निधिस्थान में उच्च का सबल गुरु और बुध रहें, चन्द्र और ग्यारहवें स्थान में हों तो सुवर्ण, वस्त्र और भोजन सभी मिलें ॥ ३१६ ॥

चतुर्थ स्थान में गुरु वा शुक्र रहे तो बर्धाई, विवाह आदि कार्यों में मंगलाचार उत्साह और गीत के साथ धृतादियुक्त भोजन प्राप्त होता है ॥ ३१७ ॥

लग्नस्थान यदि पृष्ठ रहें तो अपने घर में, धनस्थान के पृष्ठ रहने से धन से, तृतीय स्थान के पृष्ठ रहने से अपनी बहिनों से, चतुर्थ स्थान के पृष्ठ रहने से पिता के घर से भोजन मिले ॥ ३१८ ॥

पञ्चम स्थान पृष्ठ रहने से पुत्र पौत्रादि से, षष्ठ स्थान के रहने से शत्रु से, सप्तम के पृष्ठ रहने पर स्त्री से स्नेहपूर्वक भोजन मिले ॥ ३१९ ॥

नवम स्थान के पृष्ठ रहने पर किसी सराय की दुकान पर, दशम स्थान की पुष्टि में किसी राजा के घर में और एकादश यदि पृष्ठ रहे तो बोड़ा, हाथी के साथ सुन्दर भोजन मिले ॥ ३२० ॥

1. भग्नीभ्यः for भगिनीभ्यः A. 2. मत्र for सत्रे A. 3. ंगजानां तु for ंगजादीनां A.

तृतीयैकादशे दृष्ट्वा^१ पत्नीनां स्नेहभोजनम् ।

चतुर्थाष्टमदृष्ट्या तु^२ स्वजनानां गृहे लभेत् ॥३२१॥

नवपञ्चमदृष्ट्यापि स्नेहेन भोजनं जनात् ।

सप्तमौमयदृष्ट्या तु वैरेण सहितं जयेत् ॥३२२॥

सौम्येषु तुर्यसंस्थेषु तुंगगेहे वने मतम्^३ ।

ऋरुषु तत्र संस्थेषु भग्नवेशमनि भोजनम् ॥३२३॥

तुर्ये गेहाङ्गमानेन भोज्यमानं ग्रहैः^४ स्मृतम् ।

लघ्नतुर्याकमानेन कञ्चोलकमितिर्मता ॥३२४॥

लघ्नचक्रं महास्थानं^५ हृदि^६ ध्यात्वातिवर्तुलम् ।

तत्र ग्रहैर्दिशो वाच्या^८ व्यञ्जनानां यथाक्रमम् ॥३२५॥

लग्नेश. और चतुर्थेश को परस्पर तृतीय. एकादश दृष्टि हो तो स्त्री का प्रेम पूर्वक दिया हुआ भोजन मिलता है। और दोनों को चतुर्थ अष्टम, दृष्टि परस्पर रहे तो अपने लोगों के घर में भोजन मिलता है ॥३२१॥

दोनों को नवम और पञ्चम की यदि दृष्टि रहे तो स्नेहपूर्वक भोजन मिले। और दोनों को परस्पर सप्तम की दृष्टि होने से शत्रुता होने पर भी विजय कहनी चाहिये ॥ ३२२ ॥

शुभग्रह यदि चतुर्थ स्थान में हों तो उच्च गृह में वा वन में भोजन मिलता है। यदि पापग्रह उस में रहें तो टूटे फूटे घर में भोजन मिले ॥३२३॥

चतुर्थ वा लघ्न स्थान से ग्रहों के द्वारा भोजन का विचार किया गया है। लघ्न और चतुर्थ ही स्थान से व्यञ्जनादि का भी विचार करना चाहिये ॥ ३२४ ॥

गोलाकार, विशालस्वरूप लग्नचक्र को हृदय में ध्यान करके ग्रहों के द्वारा व्यञ्जनों (शाकादियों) की दिशाओं का निश्चय करना चाहिये ॥ ३२५ ॥

1. दृष्ट्या for दृष्ट्वा A. 2. The text reads च for तु A.
3. तुंगगेहेशानं A, A¹ दनं for वने Bh 4. गृहैः for ग्रहैः Bh.
5. कञ्चोलकं for कञ्चोलक Bh. 6. स्थालं for स्थानं 7. The text reads हृदि A, A¹. 8. वाच्यं for वाच्या A¹.

तित्तं रवौ विधौ क्षारं कडु भौमे मतं दिशि ।
 बुधे कषायसंयुक्तं गुरौ तु मधुरोज्ज्वलम् ॥३२६॥
 मितेऽम्लं^१ व्यञ्जनं वाच्यं शनौ राहौ च दग्धकः^२ ।
 शुक्रस्य बालवृद्धौ च घृताधिक्यं तदा मतम् ॥३२७॥
 क्रियते केवलादर्शो मुक्तिसिद्धिप्रकाशकृत् ।
 श्रीहेमवेन्द्रशिष्येण श्रीहेमप्रभसूरिणा ॥३२८॥

इति चतुर्थभावे भोजनप्रकरणम् ।

अथ ग्रामपृच्छा^३

ग्रामपृच्छासु सर्वेषु कंटकेषु शुभा ग्रहाः ।
 तत्र पुर्यां महावप्रः^४ चतुर्दिक्षु भवेद्दृढः ॥३२९॥
 केन्द्रेषु यदि सर्वेष्वप्युच्चा दृष्टाः शुभा ग्रहाः ।
 तत्र पुर्यां महावप्रः मर्योच्चैर्निश्चितं मतः ॥३३०॥

रवि चतुर्थ स्थान में रहें तो भोजन तित्त, चन्द्रम चतुर्थ स्थान में हो तो नमकीन, मंगल रहे तो कडुवा बुध रहे तो कषाय रस वाला, गुरु रहे तो मधुर और उज्ज्वल रहता है ॥ ३२६ ॥

शुक्र चतुर्थ स्थान में रहे तो अम्ल रस वाला शाक कहना चाहिये । शनि और राहु रहें तो जला हुआ, शुक्र की बाल्यावस्था तथा वृद्धावस्था रहने पर व्यञ्जन घृतपूर्ण होता है ॥ ३२७ ॥

श्रीदेवेन्द्रसूरि के शिष्य श्रीहेमप्रभसूरि ने भोगसिद्धि के प्रकाशक एकमात्र आदर्शरूप इस ग्रन्थ की रचना की ॥ ३२८ ॥

ग्राम के संबंध में पूछने पर यदि प्रश्नकाल सभी में शुभ ग्रह केन्द्र स्थानों में रहें तो उस नगरी के चारों ओर पहाड़ी प्रदेश कहना चाहिये । ३२९ ॥

यदि केन्द्रस्थान में उच्च के शुभ ग्रह रहें तो उस नगरी में एक विशाल उच्च वप्र कहना चाहिये ॥ ३३० ॥

1. अम्लं for अम्लं A¹. 2. दग्धकम् for दग्धकः A. 3. The portion अथ ग्रामपृच्छा is found only in A¹. 4. तत्र ग्रामे दृढो वप्रः for तत्र पुर्यां महावप्रः A¹ 5. चो ति० for अचैर्नि० A.

तृतीयतुर्ययोर्लगनात्पञ्चमे च शुभा ग्रहाः ।

तत्र वप्रो गुर्वाच्यः स्वोच्चस्थः पुनरुच्चकैः ॥३३१॥

शुक्लेन्दू^१ कंटके यत्र पानीयं तत्र निश्चितम् ।

शुक्लेन्दू सक्कुजौ यत्र तत्रोद्यानं जलाश्रयम् ॥३३२॥

वृत्तं हैर्मवेवृत्तं त्र्यसैस्त्र्यसौ गढो मतः ।

चतुरस्रैश्चतुष्कोणे पुरे वप्रो^२ भवेत्पुनः ॥३३३॥

लग्नं सौम्यग्रहैर्दृष्टं समृद्धं पुरमुच्यते ।

अथ क्रमग्रहैर्दृष्टं दुःस्थं भवति पत्तनम् ॥३३४॥

यत्र गुरुर्मवेत्तत्र रम्यं देवगृहैः पुरम् ।

शुक्लेन्दू यत्र कोणे तु तत्र कूपादिके जलम् ॥३३५॥

यत्र मौमो द्रमस्तत्र स्याद्दधे वेष्टकागणः^३ ।

यत्र राहुशनी कोणे तत्र गर्ताः सपुञ्जकाः ॥३३६॥

लग्न से तीमरे, चथे, पांचवें स्थान में यदि शुभ ग्रह हों तो एक वप्र उस गांव में अवश्य कहें, यदि वे उच्च के हों तो विशाल वप्र कहें ॥३३१॥

केन्द्रस्थान में यदि शुक्र और चन्द्रमा रहें तो वहां जल अवश्य रहे और जहां पर शुक्र चन्द्र मंगल के साथ हों तो जलाश्रित एक बाग भी कहना चाहिये ॥ ३३२ ॥

केन्द्रस्थान में यदि दो ग्रह एक साथ पड़े हों तो नगरे में दो गर्त, तीन ग्रहों से तीन गर्त और चार ग्रहों से चारों कोनों में वप्र कहना चाहिये ॥ ३३३ ॥

लग्न यदि शुभ ग्रहों से देखा जाय तो वह नगर समृद्धिशाली कहना चाहिये । पापग्रहों की दृष्टि रहने पर दुरवस्था को प्राप्त कहना चाहिये ॥ ३३४ ॥

लग्न को देखने वाला यदि गुरु हो तो मन्दिरों से युक्त नगर कहना चाहिये । शुक्र और चन्द्र जिस कोण में रहें उस कोण में कूप आदि जल कहना चाहिये ॥ ३३५ ॥

मंगल चक्र में जिस दिशा में हो उस दिशा में वृक्ष कहना चाहिये । और बुध जिधर हो उस तरफ इटों का पुञ्ज कहना चाहिये और राहु शनि जहां पर हों उस कोने में गहूरे होंगे ॥ ३३६ ॥

1. शुक्लेन्दु Bh. 2. The text reads वा प्र for वप्रो which is incorrect. 3. The text reads निष्टका for वेष्टका ।

मवेत्त्रेष्टिकापाकः पष्टो वत्र रविर्भवेत् ।

यत्र सौम्यग्रहश्रेणिर्हृद्गाली^१ तत्र कोणके ॥३३७॥

लग्नस्य तुर्यके ग्रामो रक्ष्यते च शुभैर्ग्रहैः^२ ।

तृतीये तुर्यधीसंस्थैरिति ग्रामोऽतिवप्रकः ॥३३८॥

यत्र कोणे शुभाः खेटा एकराशिगताः^३ पुनः ।

पुरस्य तत्र कोणे स्यात्सौवर्णी कलशावलिः ॥३३९॥

यावन्तोऽप्यंशका मुक्ता लग्नस्याभ्युदितस्य ते ।

तावद् हस्तप्रमाणोऽयं वप्रो भवति निश्चितम् ॥३४०॥

यत्र विचे च धीभागे शुक्रो भवेद्भलाधिकः ।

तत्र ग्रामे^४ पुरे वापि निधिर्भवति निश्चितम् ॥३४१॥

जहां पर पुष्ट रवि हो उस दिशा में पका हुआ ईटा कहना चाहिये ।
और जिस कोने में पुष्ट शुभ ग्रह हों उस कोने में सुन्दर पक्के मकान
होने चाहिये ॥ ३३७ ॥

लग्न के चौथे स्थान में यदि शुभ ग्रह हों तो गांव सुरक्षित रहें ।
तीसरे, चौथे, पांचवें में रहें तो गांव में अधिक वप्रस्थान कहने
चाहिये ॥ ३३८ ॥

जिस कोने में शुभ ग्रह एक राशिस्थ होकर रहें उस गांव के उस
कोने में सुवर्णा के कलश हों ॥ ३३९ ॥

प्रश्नलग्न के जितने अंश बीत चुके हों उतने हाथ का वप्र निश्चय
ही कहना चाहिये ॥ ३४० ॥

जिसमें धनस्थान और धर्मस्थान में बली होकर शुक्र रहे उस
ग्राम अथवा नगर में निश्चय ही धन होता है ॥ ३४१ ॥

1. श्रेणि for श्रेणी A¹. 2. हृद्गाली for हृद्गाली A, A¹.
3. शुभग्रहैः for शुभैर्ग्रहैः A, A¹. 4. The text reads ग्रामे A¹.
5. the text reads तत्राः for गताः । The portion beginning
with मे and ending with करोत्यहो (P. 72) is missing
in Bh. 6. लग्नस्था for लग्नस्या A. 7. The text reads ग्रामे
for ग्रामे

क्रियते केवलादर्शः^१ परसिद्धिः काशकृत् ।

श्रीदेवेन्द्रशिष्येण श्रीहेमप्रभसूरिणा ॥३४२॥

इति चतुर्थभावे तृतीयं प्रामप्रकरणम् ।

अथ पुत्रप्रकरणम्

पुत्रो वा पुत्रिका वापि पत्नी गर्भे भविष्यति ।

इति प्रश्नेषु विज्ञेयौ^२ पञ्चमेशविलम्बौ ॥३४३॥

लग्नेशपंचमेशौ चैत् नरराशिव्यवस्थितौ ।

तदा पुत्रः समादेश्यः स्त्रीराशौ स्त्रीपदौ^३ च तौ ॥३४४॥

अयुगलप्रस्थिते मन्दे पुत्रजन्म मतं सताम्^४ ।

समलग्ने समांशे वा पुत्रीजन्म स्फुटं भवेत् ॥३४५॥

एतस्याः प्रसवः कस्मिन् काले किल भविष्यति ।

लग्नांशकास्तु यावन्तः पृच्छाकाले तदोदिताः ॥३४६॥

गर्भोत्पन्नशिशोर्वाच्या^५ मासस्तावन्त एव हि ।

अभुक्तास्तेऽत्र ये वांशास्तावन्त एव शेषकाः ॥३४७॥

श्रीदेवेन्द्रशिष्य श्रीहेमप्रभसूरि ने नगरसिद्धि पर प्रकाश डालने वाले एकमात्र आदर्शरूप इस ग्रन्थ की रचना की ॥ ३४२ ॥

गर्भ में पुत्र होगा वा कन्या होगी इस प्रश्न में पञ्चमेश और लग्नेश को जानना चाहिये ॥ ३४३ ॥

लग्नेश वा पञ्चमेश यदि नर राशि में रहें तो बालक, स्त्री राशि में रहें तो कन्या कहनी चाहिये ॥ ३४४ ॥

विषमराशि लग्न हो औरत उस में शनि पड़ा हो तो पुत्र जन्म और समराशि लग्न हो तथा समनवांशक हो तो कन्या जन्म कहना चाहिये ॥ ३४५ ॥

इस स्त्री को प्रसव कब होगा ऐसे प्रश्न में प्रश्नकाल में लग्न के जितने अंश उदित हुए हों उतने गर्भ के गत मास कहने चाहिये ॥३४६॥

और जितने अंश भुक्त न हों अर्थात् शेष बचे हों उतने ही मास प्रसवोत्पत्ति के कहने चाहिये ॥ ३४७ ॥

1. The text reads लोकः for दर्शः 2. प्रश्ने बुधेयौ for प्रश्नेषु विज्ञेयौ A, A¹ 3. प्रदौ for पदौ A. 4. सतां मतम् for मतं सताम् A. 5. The text reads गर्भोत्पन्न शिशौ वाच्या for गर्भोत्पन्नशिशोर्वाच्या A.

लग्नेशो लग्नसंयुक्तो नरराशौ रविर्भवेत् ।
 तदा बुधैः पुमान् वाच्यो व्यत्यये व्यत्ययः पुनः^१ ॥३४८॥
 जीविष्यति ममापत्यमिति प्रश्ने समागते ।
 शुभेक्षितस्तु रिष्केशः केन्द्रगतोऽथवा पुनः^२ ॥३४९॥
 जीवत्येवं तदापत्यं ताजिके शास्त्रसंमते ।
 चन्द्रे तत्र शुभैर्युक्ते विशेषण च जीवति ॥३५०॥
 दिनराश्युदये लग्ने^३ लग्नस्वामी दिनग्रहः ।
 यदि जातस्तदा वाच्यं दिवा जन्म विचक्षणैः ॥३५१॥
 दिनलग्नेषु लग्नं चेच्छग्नौ दिनराशिषु ।
 दिवाजन्म तदा वाच्यं व्यत्यये व्यत्ययः पुनः ॥३५२॥
 अस्मिन् वर्षे विजातं मे भविष्यति न वा पुनः^४ ।
 लग्नेशः पञ्चमे स्थाने सुतेशो वाथ^५ लग्नगः ॥३५३॥

लग्नेश लग्न में हो, सूर्य नर राशि में रहे तो पुरुष की उत्पत्ति कहनी चाहिये । इसके विपरीत कन्या की उत्पत्ति कहनी चाहिये ॥ ३४८ ॥

यह मेरी सन्तान जीवित रहेगी वा नहीं, ऐसे प्रश्न में रिष्केश यदि शुभ ग्रह से देखा जाय वा केन्द्रस्थ होवे तो सन्तान अवरथ ही चिरजीवित रहेगी ॥ ३४९ ॥

केन्द्र में चन्द्रमा यदि शुभग्रहों से युक्त हो तो सन्तान चिरजीवित रहेगी यह ताजिक शास्त्र के अनुसार कहा है ॥ ३५० ॥

दिनराशि यदि लग्न हो, लग्न के स्वामी यदि दिनग्रह रहें तो दिन में सन्तान की उत्पत्ति कहनी चाहिये ॥ ३५१ ॥

लग्न यदि दिन लग्नों में से हो, लग्नेश यदि दिन राशि में रहे तो दिन में ही जन्म कहना चाहिये । इसके विपरीत में कन्या होती है ॥३५२॥

इस वर्ष में मुझे पुत्र होगा वा नहीं, ऐसे प्रश्न में लग्नेश यदि पञ्चम स्थान में वा पञ्चमेश लग्न स्थान में रहें तो ॥ ३५३ ॥

1. पुमान् for पुनः Amb 2. भवेत् for पुनः 3. लग्नं for लग्ने A.
4. भवेत् for पुनः Amb 5. वापि for वाथ A.

इति योगे^१ बुधैर्वाच्ये^२ तत्र वर्षे तनूद्भवः^३ ।

अन्ये योगा बुधैर्वाच्यास्तद्वर्षे पुत्रदायकाः ॥३५४॥

चन्द्रशुक्रौ यदा गर्भे लामे वाऽथ स्थितौ यदि ।

पुण्यवतां तदा वाच्यमपत्यजन्म निश्चितम् ॥३५५॥

लामपञ्चमसंस्थौ चेत्रपश्येतः परस्परम् ।

चन्द्रशुक्रौ तदापत्यं जायते नात्र संशयः ॥३५६॥

यदेन्दुः भौमशुक्राभ्यां गर्भो वा वीक्षितः शुभैः ।

तदासौ जायते पुत्रो नात्र कार्या विचारणा ॥३५७॥

मूर्तेस्तु यत्तमे स्थाने बलाढ्यो^४ भृगुनन्दनः ।

गर्भिण्या जातगर्भस्य मासानाख्याति तावतः ॥३५८॥

चन्द्रदृष्टेऽधर्मयुक्ते क्रूरदृष्टे च पञ्चमे ।

नीचस्थेऽस्तमिते गर्भे नैवापत्यं प्रजायते ॥३५९॥

उस वर्ष में पुत्रोत्पत्ति कहनी चाहिये । इसी प्रकार अन्य योग भी पुत्रदायक होते हैं ॥ ३५४ ॥

चन्द्रमा और शुक्र गर्भस्थान वा लामस्थान में रहें तो पुण्यवान् व्यक्तियों को अवश्य सन्तान होवे ॥ ३५५ ॥

वे ही यदि ग्यारहवें तथा पांचवें स्थान में रहें तथा पारस्परिक दृष्टि हो तो अवश्य सन्तानोत्पत्ति कहनी चाहिये ॥ ३५६ ॥

यदि चन्द्रमा गर्भस्थान में हो, मंगल और शुक्र से देखा जाय वा अन्य शुभ ग्रहों से देखा जाय तो पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा । इस में मन्वेह नहीं ॥ ३५७ ॥

लाम से जितने स्थान में सबल शुक्र रहें उतने मासों में गर्भवती स्त्री का प्रसव कहना चाहिये ॥ ३५८ ॥

चन्द्रमा यदि पञ्चम स्थान को देखे और वह पापग्रहों से युक्त पत्रा दृष्ट हो और वह नीच तथा अस्त गृह में पड़ा हो तो सन्तान नहीं होती ॥ ३५९ ॥

1. योगो for योगे A. 2. वाच्यो for वाच्ये A. 3. The text reads तदुद्भवः for तनूद्भवः 4. श्रेयाः for वाच्या० A. 5. The text reads बलाख्या for बलाढ्यो A.

पञ्चमाधिपतिर्लभे सुते लग्नेश्चन्द्रमाः ।
 तदा पुत्रः समादेश्यः पृच्छकस्य बुधैः किल^१ ॥३६०॥
 चन्द्रयुक्तेश्चि ते गर्भे^२ सौम्ययुक्तेश्चि तेऽपि च ।
 उच्चस्थेऽभ्युदिते तत्र पुण्यापत्यं प्रजायते ॥३६१॥
 लग्ने शुभग्रहैर्जाते शुभस्थाने^३ शुभे ग्रहे^४ ।
 आये सुतेऽथवा राज्ये पुष्टे गुरौ सुतं वदेत् ॥३६२॥
 सौम्याश्चेत् पंचमे स्थाने बलवांस्तनयो भवेत् ।
 क्रूरविजीयमानोऽपि म्रियते नात्र संशयः ॥३६३॥
 एकं वा द्वेऽथवाऽपत्ये भविष्यतोत्र^५ संशये ।
 द्विस्वभावं विलग्नं चेत्तत्र गर्भे शुभा ग्रहाः ॥३६४॥
 तदापत्यद्वयं वाच्यं शुद्धलग्ने बुधैः स्फुटम् ।
 चरे बहूनि जायन्ते स्थिरे त्वेकं वरं मतम् ॥३६५॥

पञ्चमेश लग्न में रहे, लग्नेश और चन्द्रमा पञ्चमस्थान में रहे तो प्रश्न कर्ता को पुत्र अवश्य होवे ॥ ३६० ॥

गर्भस्थान चन्द्रमा से युक्त वा दृष्ट हो और शुभ ग्रह से युक्त, दृष्ट हो और वे उदित होकर उच्चस्थित होवें तो पुण्यवान सन्तान का जन्म कहना चाहिये ॥ ३६१ ॥

लग्नस्थान में शुभग्रह हों और शुभस्थानों शुभग्रह रहें ग्याः हवें, पांचवें वा नवम स्थान में पुष्ट गुरु हों तो अवश्य पुत्र कहना चाहिये ॥ ३६२ ॥

शुभग्रह यदि पंचम स्थान में रहें तो अवश्य बलिष्ठ पुत्र की उत्पत्ति हो । यदि वे ही पापग्रहों से जीते गये हों तो उसकी मृत्यु भी अवश्य होवे ॥ ३६३ ॥

एक वा दो पुत्र होंगे ऐसे प्रश्न में यदि द्विस्वभाववाले लग्न हों तो और शुभ ग्रह गर्भस्थान में हों ॥ ३६४ ॥

तो पुत्र द्वय कहना । चर राशि लग्न रहे तो बहुत से पुत्र होवें । स्थिर लग्न में एक पुत्र कहना चाहिये ॥ ३६५ ॥

1. ध्रुवम् for किल A. 2. मन्दे for गर्भे A. 3. सुत for शुभ A.
 4. शुभग्रहौ A. 5. The text reads भविष्यतो for भविष्यत्त्व
 A, A¹.

चत्वारि खेटयुग्मानि चेद्भवन्ति यदैकदा ।
 तदापत्यद्वयोत्पत्तिः पृच्छालग्न्ये सतां मता ॥३६६॥
 तावत्संख्यान्यपत्यानि प्रश्ने वाच्यानि पण्डितः ।
 सम्पूर्णदृष्टयो वापि यावत्संख्याः शुभा ग्रहाः ॥३६७॥
 स्त्रीग्रहाणां तु संख्यातः पुत्रीसंख्याभिधीयते ।
 पुरुषग्रहसंख्याने पुत्रसंख्यां स्फुटा मता ॥३६८॥
 पञ्चमाङ्गानुमानेन ग्रहदृष्टिवशेन वा^१ ।
 पुत्रसंख्या ग्रहैर्वाच्या मृत्युसंख्याधर्मग्रहैः ॥३६९॥
 सर्वग्रहेक्षिते गर्भे तुंगकेन्द्रगतैर्ग्रहैः ।
 नृपतुल्यो भवेत्पुत्रो ग्रहदृष्टिप्रभावतः ॥३७०॥
 एकः पुत्रो रवौ धीस्थे चन्द्रे तत्र सुताद्वयम् ।
 भौमे पुत्रास्त्रयो वाच्या बुधे पुत्रीचतुष्टयम् ॥३७१॥
 गुरौ गर्भे सुताः पंच षट्पुत्राश्च सिते मताः ।
 शनौ पुत्र्यो ध्रुवं सप्त तुंगे पुत्रा महर्दिकाः ॥३७२॥

प्रश्न लग्न में चार युग्म ग्रह यदि एकत्र रहें तो दो पुत्र कहने चाहियें ॥ ३६६ ॥

प्रश्नकुण्डली में पूर्ण दृष्टि वाले जितने शुभ ग्रह रहें उतनी सन्तान कहनी चाहिये ॥ ३६७ ॥

स्त्रीग्रहों की संख्या से कन्याओं की संख्या और पुरुषग्रहों की संख्या से पुरुषों की संख्या कहनी चाहिये ॥ ३६८ ॥

पञ्चम स्थान की स्थिति, ग्रह की दृष्टि, पुत्रसंख्या का ग्रह और पापग्रहों से मृत्युसंख्या के विचार से सन्तानों की संख्या और दीर्घायु, अल्पायु विचार कर फल कहना चाहिये ॥ ३६९ ॥

पञ्चम स्थान को यदि सभी उच्च और केन्द्र के ही ग्रह देखें तो उसग्रह दृष्टि के प्रभाव से राजतुल्य पुत्र की उत्पत्ति हो ॥ ३७० ॥

पञ्चम स्थान में यदि एक रवि रहे तो एक लड़का, सोम रहे तो दो लड़की, मंगल रहे तो तीन लड़का, बुध रहे तो चार लड़की होनी चाहिये ॥ ३७१ ॥

गुरु यदि पंचम स्थान में रहें तो पांच पुत्र होवें, शुक्र रहें तो ६ पुत्र, और शनि रहे तो सात लड़की, इस प्रकार यदि वे उच्च के हों तो ससृष्टिशाली पुत्र होवें ॥ ३७२ ॥

क्रिते यकेवलादर्शः शिशुजन्मप्रकाशकृत् ।

श्रीमदेवेन्द्रशिष्येण श्रीहेमप्रभसूरिणा ॥३७३॥

इति पञ्चमभावे पुत्रप्रकरणम्

रोगप्रश्ने बुधैर्वाच्यं^१ सप्तमं रोगसंज्ञकम् ।

यावन्तः खेचरा लग्नस्थवा लग्नशपाश्रगाः ॥३७४॥

तावन्तः पुरुषा वाच्या रोगिणोऽपि समीपगाः ।

पुं ग्रहैः पुरुषस्तत्र स्त्रीगृहे प्रमदाः पुनः ॥३७५॥

रोगस्थाने चर ऊर्ध्वं संचरन् गृहमध्यतः ।

उपविष्टः स्थिरे रोगी सुप्तो वाच्यो द्विदेहके^२ ॥३७६॥

चरेऽष्टमे परे^३ देशे स्थिरे तत्रैव संस्थितः ।

ग्रामद्वितयमध्यस्थो रोगी भवेद्^४ द्विदेहकं ॥३७७॥

श्रीदेवेन्द्र के शिष्य श्रीहेमप्रभसूरि ने पुत्र जन्म पर प्रकाश डालने वाला इस एकमात्र आदर्श ग्रन्थ का निर्माण किया है ॥ ३७३ ॥

रोगप्रश्न में षष्ठ स्थान रोगसंज्ञक समझना । फिर लग्न वा लग्न के आस पास में जितने ग्रह हों उतने पुरुष रोगी के पास होते हैं । वहां पुरुष ग्रह जितने रहे उतने पुरुष और स्त्रीग्रह जितने रहे उतनी स्त्रियां लगा रहती है ॥ ३७४-७५ ॥

रोगस्थान चर राशि हो तो रोगी को घर के ऊपर में चलता हुआ समझना चाहिये । यदि स्थिर राशि हो तो घर के मध्य में बैठा हुआ कहना चाहिये, द्विस्वभाव राशि में हो तो रोगी को मोटा हुआ समझना चाहिये ॥ ३७६ ॥

लग्न से अष्टम स्थान यदि चर राशि का हो तो रोगी परदेश में रहे, यदि स्थिर राशि रहे तो वहीं रहे और यदि द्विस्वभाव वाले राशि रहे तो दो गांव के बीच में रोगी रहे ॥ ३७७ ॥

1. ज्ञेयं for वाच्यं A. 2. भोग for रोग A, A¹ 3. द्विदेहिके A. द्विदेहके A. 4. पर for परे A. 5. the text reads भवति for भवेत् ।

रोगिणोऽस्य बुधश्च न विनष्टे स्वमिस्त्रेचरे ।
 रक्तग्रहे विनष्टे तु विनष्टं रुधिरं वदेत्^१ ॥३७८॥
 छिद्रस्थौ चन्द्रशुक्रौ चेदतीसारं विनिर्दिशेत् ।
 छिद्रस्थाबुधनाभौसौ बलपाताय कीर्तितौ ॥३७९॥
 भौमाकौ^२ रुधिरोद्रेकं पित्तोद्रेकं च संस्थितम् ।
 सक्रूरो धिषणस्तत्र सन्निपातं करोति च ॥३८०॥
 घ्ने कुजेऽथवा सूर्ये संतापं रोगिणां वदेत् ।
 शनिरन्यग्रहैर्युक्तश्चिन्नरोगं करोत्यहो ॥३८१॥
 छिद्रस्थौ राहुमार्तण्डौ कुष्ठरोगप्रदायकौ ।
 प्रददाति महाकुष्ठं ताभ्यां युक्तस्तु मङ्गलः ३८२॥
 तत्र शनौ च राहौ च वातरोगः स्फुटं भवेत् ।
 कम्पेते हस्तपादौ च रोगस्यैव^३ विनिश्चयः ॥३८३॥

यदि अग्निग्रह विनष्ट रहें तो रोगी को भूख की कमी होती है ।
 रक्तग्रह यदि नष्ट हों तो रुधिर की कमी कहनी चाहिये ॥ ३७८ ॥

यदि आठवें स्थान में चन्द्र और शुक्र रहें तो अतीसार कहना
 चाहिये । तो फिर शुक्र और शनि उस स्थान में रहें तो बल की कमी
 होती है ॥ ३७९ ॥

आठवें स्थान में यदि मंगल और रवि रहें तो रुधिर और पित्त
 का अतिशय कहना चाहिये । फिर शुक्र और शनि उस स्थान में रहें तो
 सन्निपातरोग होता है ॥ ३८० ॥

सप्तम स्थान में यदि मंगल वा रवि रहें तो रोगी को पूर्ण पीड़ा
 होती है । शनि किसी अन्य ग्रहों से युक्त होकर बैठा हो तो मानसिक
 रोग होता है ॥ ३८१ ॥

अष्टम स्थान में यदि सूर्य और राहु रहे तो कुष्ठ रोग होता है ।
 यदि मंगल भी उनके साथ बैठा हो तो महाकुष्ठ कहना चाहिये ॥ ३८२ ॥

अष्टम स्थान में शनि वा राहु रहें तो वातरोग होता है । हाथ
 पांव सभी कांपने लगते हैं । रोग का इस प्रकार निश्चय जानना ॥३८३॥

4. The text reads ब्रुवेत् for वदेत् which is obviously incorrect. 2. बुधनो for बुधना A. 3. चित्र for चित्त A
 1. The text reads दं for वं

अमुकमौषधं भव्यमिति प्रश्ने च लग्नतः ।

लग्नं वैद्यः सुखं रोगी व्याधिस्तत्र च सप्तमम् ॥३८४॥

औषधं दशमं प्रोक्तं^१ तच्च ज्ञेयं शुभाशुभम् ।

वैद्योषधी^२ बलाधिक्ये बलत्वे रोगरोगिणोः^३ ॥३८५॥

रोगी जीवति निर्विघ्नं विपरीते विपर्ययः ।

वैद्यस्य रोगिणोर्मैत्र्यं^४ मैत्र्यमौषधरोगिणोः ॥३८६॥

लग्नस्य सबलत्वे च केन्द्रे^५ सौम्यग्रहेषु च ।

उच्चस्थेऽपि त्रिकोणे च रोगी जीवति मानवः ॥३८७॥

अष्टमे च रवौ लग्ने^६ चन्द्रे तत्र जलाद् भवेत् ।

सन्निपातात्कुजे वाच्या बुधैः स्याज्ज्वरतो मृतिः ॥३८८॥

अजीर्णाद्धिषणात्प्रोक्ता तृषः शुक्रात्पुनर्मृतिः ।

बुधुक्षातः शनेर्वाच्या निश्चितं रोगिणः पुनः ॥३८९॥

यह औषध अच्छा होगा वा नहीं ऐसे प्रश्न में वैद्य को लग्न, रोगी को चतुर्थ और व्याधि को सप्तम और औषध को दशम स्थान समझ कर शुभाशुभ का निर्णय करना चाहिये । वैद्य, औषधस्थान यदि सबल होवें, रोग और रोगी के स्थान यदि निर्बल हों तो अवश्य रोगी जीवे अन्यथा उसकी मृत्यु हो । वैद्य और रोगी तथा औषध और रोगी की परस्पर मैत्री कही गयी है ॥ ३८४-३८६ ॥

लग्न सबल रहे और शुभ ग्रह केन्द्रस्थान में रहें वा उच्च में रहें वा नवम, पञ्चम में रहें तो रोगी अवश्य जीवित रहता है ॥३८७॥

अष्टम स्थान में रवि, लग्न में चन्द्र रहे तो जल से, मंगल लग्न में रहे तो सन्निपात से, बुध रहे तो ज्वर से मृत्यु होवे ॥३८८॥

अष्टम स्थान में गुरु रहे तो अजीर्ण से, शुक्र रहे तो प्यास से, शनि रहे तो भूख से रोगी को निश्चय ही मृत्यु कइनी चाहिये ॥३८९॥

1. दशममौषधप्रोक्तं for औषधं दशमं प्रोक्तम् A, A¹

2. षध्यो for षधी 3. रोगिणाम् for रोगिणोः A. 4. ०मैत्र्यं for ०मैत्र्यं Bh. 5. The text reads केन्द्र for केन्द्रे 6 रवावग्रे for रवौ लग्ने A, A¹.

लग्नस्थाने बलाधिक्ये लग्नस्यापि ग्रहादिभिः ।
 रोगी जीवति पूर्णाशुर्वीतरोगो भवेदयम् ॥३९०॥
 चन्द्रो लग्नपतिर्वापि पृष्टे^१ मृत्यौ खलेक्षितः ।
 दीर्घरोगी नरो वाच्यो वक्रिते लग्ननायके ॥३९१॥
 विनष्टे लग्नपे मृत्युः कंटके मृत्युनायके ।
 गृध्रकोलोरगत्र्यंशैरुदितैरपि पञ्चता^२ ॥३९२॥
 चतुरस्रे यदा चन्द्रः पापग्रहद्वयान्तरे ।
 लग्ने षष्ठोदये बन्धौ क्रूरैर्विद्धौ मृतौ मृतिः ॥३९३॥
 षष्ठे^३ लग्ने चरे केन्द्रे शुभयुक्ते तदोदिते ।
 कृतान्तव क्तूगो रोगी जीवत्येव सुवैद्यतः ॥३९४॥
 इति षष्ठस्थाने रोगप्रकरणम् ।

अथ सर्वभावेभ्यो जायाप्रकरणं प्रधानं सप्तमभावे कथ्यते ।

लग्नस्थान और लग्नस्थान में सबल ग्रह यदि हों तो रोगी पूर्णायु और रोगरहित होकर जीता है ॥३९०॥

लग्नेश वा चन्द्र षष्ठ वा अष्टम स्थान में रहें और पाप ग्रहों से देखे जाय, और लग्न नायक यदि बक्री हो तो मनुष्य चिरकाल तक रोगी रहे ॥३९१॥

लग्नेश यदि नष्ट हो, अष्टमेश यदि केन्द्र में हो तो त्र्यंशों के उदित रहने पर भी, गीध सूअर अथवा सांप द्वारा मृत्यु समझनी चाहिये ॥३९२॥

चन्द्रमा यदि चौथे वा आठवें स्थान में हो तथा दो पापग्रहों के बीच में हो, लग्न, छ ठा, चौथा और आठवां पापग्रहों से विद्ध हो तो मृत्यु हो जाती है ॥ ३९३ ॥

लग्न वा छ ठे गृहों में चर ग्रह हों, केन्द्रस्थान शुभ तथा उदित ग्रहों से युक्त हों तो यमराज के मुख में पड़ा हुआ भी रोगी सबैद्य के द्वारा बचा ही रहेगा ॥ ३९४ ॥

1. षष्ठे for पृष्टे Bh. 2. For this line A reads. गृध्रकोलोर-
 गत्र्यंशैरुदितैरपि पञ्चता ॥ ०कोलोरगत्र्यंशै Bh. 3. A, A¹
 read षष्ठे for षष्ठे

यदि लग्नपतिर्लभे भर्त्रादेशकरी प्रिया ।
 लग्नेशः सप्तमे स्थाने जायादेशकरः पतिः^१ ॥३९५॥
 यदा लग्नपतिर्लभे जायेशः सप्तमे^२ यदि ।
 तदा प्रीतिर्द्वयोर्वाच्या समानैव परस्परम् ॥३९६॥
 यदा भार्यापतिर्लभे लग्नेशः सप्तमे यदि ।
 अन्योऽन्यप्रीतिपीयूषपूरपूरितसम्मदौ^३ ॥३९७॥
 यदा लग्नेशजायेशौ लग्नेऽथ भवतो यदि ।
 तदा गाढतरी^४ प्रीतिस्तोलिता द्वितयेऽपि च ॥३९८॥
 यदा जायापतिर्लभे^५ जायास्थानस्थितो यदि ।
 प्राधान्येनैव भार्यायाः समा प्रीतिर्द्वयोर्भवेत्^६ ॥३९९॥
चतुर्भग्या प्रीतिः

जायास्थानं यदा तुंगे^७ प्रश्ने भवति लग्नतः ।

रूपलावण्यजन्माद्यैरुत्तमा भर्तृतोऽङ्गना ॥४००॥

लग्नेश यदि लग्न में रहे तो स्त्री भर्ता की आज्ञाकारिणी होती है । यदि लग्नेश सप्तम स्थान में रहे तो पति पत्नी का आज्ञाकारक होगा ॥ ३९५ ॥

लग्नेश यदि लग्न में, सप्तमेश सप्तम स्थान में रहे तो स्त्री और पुरुष दोनों में पारस्परिक प्रेम कहना चाहिये ॥ ३९६ ॥

यदि सप्तमेश लग्न में और लग्नेश सप्तम स्थान में हो तो भी स्त्री पुरुष पारस्परिक प्रेमामृत से युक्त सम्पदा वाले होंगे ॥ ३९७ ॥

लग्नेश और सप्तमेश दोनों यदि लग्न में रहें तो दोनों में प्रगाढ प्रेम होता है ॥ ३९८ ॥

जब लग्नेश और सप्तमेश दोनों सप्तम स्थान रहें तो स्त्री की प्रधानता से दोनों में पारस्परिक प्रेम होता है ॥ ३९९ ॥

प्रश्नकाल में यदि सप्तम स्थान उच्च हो तो रूप, लावण्य, वंश आदि से स्त्री पति से उत्तम होती है ॥ ४०० ॥

1. प्रियः for पतिः A, A¹ 2. सप्तमो for सप्तमे A, A¹.
 3. सम्पदौ for सम्मदौ A, A¹ 4. त्रयी for तरी A. 5. लग्नेशजा
 येशो for जायापतिर्लभे A. 6. The text reads वदेत् for
 भवेत् 7. तुंगं for तुंगे A, A¹, Bh.

भार्यास्थानं यदा तुंगमुदितं सौम्यसंयुतम् ।
 तदा रङ्गकुलोत्थस्य भार्या भवति भूपजा ॥४०१॥
 सप्तमे क्रूरिते^१ भावे चतुर्थे सौम्यसंयुते ।
 धृता तस्य भवेद्भार्या परिणीता मृतैव हि ॥४०२॥
 सप्तमे यदि राहुः स्यात् पृच्छायां जन्मलग्नतः ।
 या यात्र परिणीता स्यात् सा सा पत्नी मृतैव हि ॥४०३॥
 सप्तमे तुर्यगे वापि^२ क्रूरे शुक्रबलोत्थिते ।
 परिणीता धृता वापि जीवित्येव न वर्णिनी ॥४०४॥
 सप्तमं तुर्यगं चापि^३ तुंगं सौम्ययुतं भवेत् ।
 परिणीता धृता वापि द्वे स्तो रुचिरकन्यके ॥४०५॥
 जायागृहांकमानेन भार्यासंख्या विलोक्यते ।
 जायागृहानुमानेन जायासंख्या सतां मता ॥४०६॥
 मित्रक्षेत्रे ग्रहे सौम्ये स्वीया पत्नी सदैव हि ।
 शत्रुक्षेत्रे ग्रहे सौम्ये परपत्नी सुखावहा ॥४०७॥

स्त्रीस्थान में उदित शुभग्रह यदि उच्च का हो तो दरिद्र कुल में
 विवाह होने पर भी वह स्त्री रानी के समान होती है ॥ ४०१ ॥

सप्तमस्थान यदि पापग्रहों से युक्त हो और चौथे में शुभग्रह हों
 तो स्त्री की मृत्यु हो ॥ ४०२ ॥

प्रश्न में जन्मलग्न से यदि सप्तम में राहु हो, जिस जिस स्त्री से
 विवाह वा सम्बन्ध हो वही मर जाय ॥ ४०३ ॥

सप्तम वा चतुर्थ स्थान में पापग्रह रहें और शुक्र से संबन्ध
 रखते हों तो विवाहित वा संबद्ध भी स्त्री मर जाती है ॥ ४०४ ॥

सप्तम वा चतुर्थ स्थान उच्च का अथवा किसी शुभग्रह से युक्त
 हो तो विवाहित वा सम्बन्ध वाली स्त्री अच्छी ही होगी ॥ ४०५ ॥

सप्तमस्थान के ग्रहों की संख्या के अनुमान से ही स्त्रीसंख्या
 देखी जाती है ॥ ४०६ ॥

शुभग्रह याद मित्र के घर में रहें तो स्त्री अपनी सदा रहती है ।
 शत्रु के घरमें यदि शुभग्रह रहें तो दूसरे की पत्नी सुखावहा होती है ॥ ४०७ ॥

1. क्रूरितो for क्रूरिते A¹ 2. यदि तुर्ये वा for तुर्यगे वापि A.
 3. A read वापि for चापि ।

सप्तमे धिषणे शुके रूपलावण्यशालिनी ।
 आद्ये पितृकुले ¹ जाता कर्णविश्रान्तलोचना ॥४०८॥
 बालः शशी बुधश्चापि कुमारीं ब्रवतः स्त्रियम् ।
 रूपोपेतां प्रसृतां च गुरुर्वक्ति नितम्बिनीम् ॥४०९॥
 शुभग्रहो गुरुः प्रश्ने सर्वांगद्युतिशालिनीम् ।
 सौम्येक्षितस्तु शुक्रोऽपि सलावण्यां सुलोचनाम् ॥४१०॥
 तेजोयुक्तां कुजो ब्रूते रामां रूपेण वजिताम् ।
 शनिराहू च सक्रूरौ दुर्गुणां वदतोऽवशाम् ॥४११॥
 वृद्धां रविः शनिश्चापि जरतीं योषितं पुनः ।
 शुक्रभौमौ च खेटौ द्वौ वदतो हन्त कर्कशाम् ॥४१२॥
 यदि पृच्छति नार्येषा दृष्टदोषा कुमारिका ।
 अदृष्टपुरुषा साध्वी निर्दोषा स्यात्कुमारिका ² ॥४१३॥

सप्तमस्थान में यदि गुरु और शुक रहें तो स्त्री, रूप-लावण्य-युक्त, कुलीना तथा विशाल नेत्रों वाली होती है ॥ ४०८ ॥

जिसकी जन्मकुण्डली में चन्द्र और बुध बाल्यावस्था को प्राप्त हों तो कुमारी स्त्री मिले। यदि गुरु रहें तो सुन्दरी स्त्री मिले ॥ ४०९ ॥

प्रभ्रकाल में गुरु शुभग्रह में हों तो सर्वांगसुन्दरी स्त्री की प्राप्ति हो। यदि शुक शुभग्रहों से देखे जाय तो लावण्यवती सुनेत्रा स्त्री की प्राप्ति हो ॥ ४१० ॥

मंगल रहे तो स्त्री तेजवाली किन्तु रूपरहित होगी। शनि और राहु यदि किसी अन्य भी पापग्रहों से युक्त हों तो स्त्री दुर्गुण और पराधीन होवे ॥ ४११ ॥

रवि रहे तो वृद्धा, शनि रहे तो भी वृद्धा, शुक और मंगल हो तो कर्कशा स्त्री होती है ॥ ४१२ ॥

यदि प्रश्न हो कि यह स्त्री दोषयुक्त कुमारिका अथवा दोषरहित पतिव्रता है ॥ ४१३ ॥

1. गृहे for कुले A. 2. In A, A¹ this line follows the next line beginning with लग्नलग्नेश

लघ्नलघ्नेशचन्द्राश्च स्थिरराशौ भवन्ति चेत् ।
 अदृष्टपुरुषा ज्ञेया कुमारी स्वगृहेऽपि हि ॥४१४॥
 स्थिरराश्यन्यराशौ चेद् भौमेन^१ सह चन्द्रमाः ।
 कुमार्यदृष्टदोषैव तदा वाच्या विचक्षणैः ॥४१५॥
 लघ्नलघ्नेशचन्द्राश्च चरराशौ भवन्ति चेत् ।
 सा परपुरुषाक्रान्ता कनी वाच्या बुधैस्तदा^२ ॥४१६॥
 शनिचन्द्रौ यदा लघ्ने वसतः कामिता सदा^३ ।
 द्विरूपे चरराशौ वा चन्द्रो भवति चेद्यदि ॥४१७॥
 मूललग्नं स्थिरं तत्र दोषः खलकृतो भवेत् ।
 यदि पृच्छति येनैषा प्रसता वरवर्णिनी ॥४१८॥
 शुक्रे चन्द्रे^४ बुधे सिंहे त्वेवंयोगे प्रसूतिका ।
 वृश्चिके बुधशुक्रौ चेद् वृषे वा तिष्ठतो^५ यदि ।
 एवं योगे समायाते प्रसूता युवती मत्त ॥४१९॥

तो यदि लग्न, लग्नेश और चन्द्रमा स्थिर राशि के हों तो वह कन्या अपने घर में निर्दोष होकर रहे ॥ ४१४ ॥

चन्द्रमा यदि मंगल के साथ रहकर स्थिर अथवा अन्य राशि में रहे तो भी वह कन्या अदूषित होती है ॥ ४१५ ॥

लग्न, लग्नेश और चन्द्रमा यदि चर राशि में हों तो वह कन्या अन्य पुरुष के साथ फंसी हुई कहनी चाहिये ॥ ४१६ ॥

शनि और चन्द्रमा यदि लग्न में हों तो वह कन्या सदा कामुकी रहे। यदि चन्द्रमा चरराशि अथवा द्विस्वभाव राशि में रहे तो भी कन्या सदा कामुकी रहती है ॥ ४१७ ॥

यदि जन्मलग्न स्थिरराशि हो तो दुष्ट से दूषित अथवा प्रसूता कन्या कहनी चाहिये ॥ ४१८ ॥

शुक्र चन्द्रमा, बुध सिंह में वा बुध और शुक्र वृश्चिक अथवा वृष में यदि हों तो वह स्त्री प्रसववती कहनी चाहिये ॥ ४१९ ॥

1. सौम्येन for भौमेन A^१ 2. तदा for सदा A., ३. वस्तुतो कामिना तदा Bh. 4. कुम्भे for चन्द्रे A. 5. संस्थितौ for तिष्ठतः A.

द्विस्वभावे विलग्रे चेत्यापराशिविर्वर्जिते ।

मौमबुधेन्दुशुक्राः स्युरग्रेऽपत्यं^१ स्थितं^२ तदा ॥४२०॥

पापग्रहाश्ररे राशौ सम्भवन्ति यदापि हि ।

तदावश्यं बुधैर्ज्ञेयमपत्यं परपौरुषात् ॥४२१॥

क्रग्रहाः स्थिरे राशौ प्रश्ने यदि भवन्ति चेत्^३ ।

हृदयं सदयं ध्येयमपत्यं निजवल्लभात् ॥४२२॥

मिश्रग्रहाः स्थिरे राशौ पृच्छायां संभवन्ति चेत् ।

तदा ध्रुवं नरैर्वाच्यमपत्यं मिश्रपौरुषात् ॥४२३॥

स्वभर्तुरन्यभर्तुर्वा योषा जातात्र गुर्विणी ।

इति प्रश्ने बुधैश्चिन्त्यं पञ्चमस्थानकं^४ किल ॥४२४॥

दृश्यते शनिभौमाभ्यां सोमदृष्टिविर्वर्जितम् ।

पञ्चमं यदि गेहं स्यात्तदा गुर्वी परान्नरात् ॥४२५॥

मंगल, बुध, चन्द्रमा और शुक्र यदि पापग्रहों से हीन द्विस्वभाव लभ में हों तो सन्तान को आगे में कहना चाहिये ॥ ४२० ॥

यदि पापग्रह चर राशि में हों तो वह सन्तान अवश्य ही दूसरे पुरुष से उत्पन्न होवे ॥ ४२१ ॥

पापग्रह यदि प्रश्नकुण्डली में स्थिर राशि में रहें तो वह संतान अवश्य ही अपने पति से हो ॥ ४२२ ॥

प्रश्नकाल में यदि स्थिर राशि में मिश्र ग्रह अर्थात् शुभ और अशुभ दोनों ग्रह हों तो वह सन्तान मिश्र पुरुष अर्थात् स्वपिता और परपिता से उत्पन्न कहनी चाहिये ॥ ४२३ ॥

वह स्त्री अपने वा पराये पति से गर्भवती हुई है—ऐसे प्रश्न में पञ्चम स्थान को देखना चाहिये ॥ ४२४ ॥

पञ्चम स्थान यदि शनि और मंगल से देखा जाय और चन्द्रमा की दृष्टि उस पर न हो तो वह गर्भ परपुरुष से समझना चाहिये ॥४२५॥

1. राग्नो for रग्ने A. 2. स्थिरं for स्थितं A., A¹ 3. भवन्ति यद्यहो for यदि भवन्ति चेत् A. 4. स्थानकं पञ्चमं for पञ्चमस्थानकम् A.

न दृष्टं शनिभौमाभ्यां सोमदृष्टं च पञ्चमम् ।
 तदा नूनं बुधैर्वाच्यं स्वकान्तादेव गुर्विणी ॥४२६॥
 अथाशुभयुतोऽर्कः सेन्दुर्यदि जीवो न लग्नमिन्दुर्वा ।
 जीवः साकं नेन्दुं पश्यति गर्भः परैर्जातः ॥४२७॥
 यदि लग्नपजायापौ खलु वीक्षेते परस्परं पूर्वम्^१ ।
 प्रीतिःपूर्णा^२ खण्डा खण्डितदृष्टा^३ वधूवरयोः ॥४२८॥
 सौम्यग्रहैः शुभारामा सुशीला भर्तृवत्सला ।
 क्रूरग्रहैस्तु दुःशीला भर्तृविद्वेषिणी मता ॥४२९॥
 श्रीमद्देवेन्द्रसूरीणां शिष्येण ज्ञानदर्पणः ।
 विश्वप्रकाशकश्चक्रे श्रीहेमप्रभसरिणा ॥४३०॥

इति सप्तमस्थानप्रतिबद्धं जायाप्रकरणम् ।

यदि पञ्चमस्थान शनि और मंगल ग्रहों से न देखा जाय और चन्द्रमा की दृष्टि रहे तो वह स्त्री अपने पति से ही गर्भवती होती है ॥ ४२६ ॥

चन्द्रमा से युक्त सूर्य पापग्रह से युक्त हो वा बृहस्पति लग्न और चन्द्रमा को नहीं देखता हो अथवा सूर्य से युक्त चन्द्रमा को बृहस्पति नहीं देखता हो तो जार पुत्र कहें ॥ ४२७ ॥

यदि लग्नेश और सप्तमेश परस्पर पूर्ण दृष्टि देखते हों तो स्त्री-पुरुष में पूर्ण प्रीति होती है और यदि खण्डित दृष्टि वाले हों तो प्रेम खण्डित रहता है ॥ ४२८ ॥

लग्नेश और सप्तमेश यदि सौम्यग्रहों से देखा जाय तो स्त्री सुशीला और भर्तृप्रिया होती है । यदि वे पापग्रहों से देखा जाय तो वह पतिद्वेषिणी होती है ॥ ४२९ ॥

श्री देवेन्द्रसूरि के शिष्य श्रीहेमप्रभसूरि ने विश्वप्रकाशक और ज्ञानदर्पण इस ग्रन्थ को रचा ॥ ४३० ॥

1. पूर्णा for पूर्वम् A. 2. पूर्णा प्रीतिः for प्रीतिःपूर्णा A. 3. दृष्टा for दृष्टा A.

अथ स्त्रीजातकम् ।

क्रूरलोभोद्भवा नारी स्वमपश्यति लग्ने ।

पतिं न रञ्जयत्येषा क्रूरत्वेनाप्यहंकृता ॥४३१॥

कर्मस्थे^१ मङ्गले जाता स्वैरिणी कुलदूषिका ।

निःशुक्राथ पतेद्वेष्या चिरं^२ भ्रमति वेश्मसु ॥४३२

द्वौ शुभौ दुर्जनक्षेत्रेऽप्यन्यः क्रतो विलग्नगः^३ ।

तत्र लग्ने ध्रुवं जाता स्त्री भवेद्विषकन्यका^४ ॥४३३॥

द्वादशेऽप्यष्टमे भौमे क्रूरे तत्रैव संस्थिते ।

राहौ विलग्नो नूनं रण्डा भवति कन्यका ॥४३४॥

क्रूर लग्न में उत्पन्न स्त्री, जब लग्नेश लग्न को न देख रहा हो, क्रूरता के व्यवहार से, अहंकार के कारण अपने पति को प्रसन्न नहीं करती ॥ ४३१ ॥

मंगल दशमस्थान में यदि रहे तो वह स्त्री अपनी इच्छा से घूमने वाली और अपने वंश को दूषित करने वाली, शुक्ररहित तथा पतिद्वेषिणी बनकर चिरकाल तक लोगों के घरों में घूमती फिरती है ॥ ४३२ ॥

दो शुभ ग्रह यदि पापग्रह की राशि में हों और एक पापग्रह लग्न में रहे तो ऐसे लग्न में उत्पन्न कन्या विषकन्या ही समझी जाय ॥ ४३३ ॥

द्वादश वा अष्टम स्थान में मंगल रहे और अन्य भी पापग्रह उसमें रहें और लग्न में राहु रहें तो वह कन्या अवश्य विधवा होगी ॥ ४३४ ॥

1. स्थि for स्थे A. 2. स्वैरं for चिरं Bh. पतेद्वेष्याश्चि (स्वैरं A^१) भ्रमति for पतेद्वेष्या चिरं भ्रमति A, A^४ 3. The text reads विलग्नतः for विलग्नगः । Samhitasara quotes a verse of similar interest and ascribes it to Trailokyaprakasa. The verse is the following.

रिपुत्नेत्रस्थितौ द्वौ तु लग्ने यत्र शुभौ ग्रहौ ।

क्रूरैव तदा जाता भवेत् स्त्री विषकन्यका ॥

Compare also Ranavirajyotiribandha Strijataka

भौमादित्यशनौ लग्ने जाता भवति दुर्भगा ।

सौम्यस्वोच्चे स्वके जाता सुभगा भवति भामिनी ॥४३५॥

स्त्रीजातके च लग्नेशे ग्रहान्तरसुहृद्भ्युते ।

उपपत्तिः श्रियां^१ वाच्या^२ निश्चितं यौवनोद्धतौ^३ ॥४३६॥

मृतौ^४ राहृर्कभौमेषु रामा^५ भवति वर्णिनी ।

एषु शुक्रद्वितीयेषु पतिमन्यं चिकीर्षति ॥४३७॥

नीचे भौमे शनौ वास्ते^६ राहावपि च तत्रगे^७ ।

आजन्म रमणेनैव^८ स्वेच्छाचारी पुनर्धना ॥४३८॥

सूर्येऽस्ते^९ स्वपतित्यक्ता नवोद्धैव कुजेऽथवा ।

क्रद्दष्टे^९ शनौ नार्या वार्द्धकं यौवने भवेत् ॥४३९॥

लग्न में मंगल, सूर्य, शनि रहें तो ऊपन्न कन्या कुतिसतयोनि वाली होगी और यदि शुभग्रह अपने उच्च स्थान में रहें तो कन्या सुन्दर योनि वाली होती है ॥ ४३५ ॥

लग्नेश यदि दूसरे किसी मित्रग्रह से युक्त हों तो निश्चय ही युवा-वस्था में कन्या की उत्पत्ति कहनी चाहिये ॥ ४३६ ॥

लग्न में राहु, सूर्य और मंगल यदि हों तो स्त्री विधवा होती है । इन में से यदि कोई ग्रह शुक्र के साथ बैठा हो तो वह दूसरे पति की इच्छा करती है ॥ ४३७ ॥

मंगल, शनि यदि नीच स्थान में वा अस्त रहें और वहीं राहु भी रहे तो वह स्त्री आजन्म अपने पति के साथ स्वेच्छापूर्वक रमण करती है ॥ ४३८ ॥

सूर्य वा मंगल लग्न स्थान में रहें तो नवोद्धा रहने पर भी वह अपने पति से परित्यक्ता हो जाती है । यदि दूसरे पापग्रह की दृष्टि शनि पर रहे तो यौवन में ही बुढ़ापा आजाता है ॥ ४३९ ॥

1. स्त्रियां for श्रियां A. 2. वाच्यो for वाच्या A. 3. तः for तौ A. यौवणोद्धतै Bh. 4. राह्णा for रामा Bh. 5. वास्ते for वास्ते Bh. 6 The text reads वभंगे for च तत्रगे 7. मरणेनैव for रमणेनैव A, A¹ 8. The text reads स्वे for स्ते 9. दृष्टिः for दृष्टे A, A¹

क्रमात्रे पतित्यक्ता धनैः क्रूरैः पतिर्नहि ।

सुरूपा सा भवेधारी सप्तगेहगतैर्ग्रहैः ॥४४०॥

घने भौमनवांशे मंदगदष्टे सरोगयोनिः स्त्री ।

तत्रैव शुभनवांशे चारुश्रोणी प्रिया पत्युः^१ ॥४४१॥

इति स्त्रीजातकम् ।

मघा रेवती मूलं च ज्येष्ठाश्लेषा तथाश्विनी ।

वर्जयेदतुकाले च षडेतामि हि नान्यभम् ॥४४२॥

योनिस्थाने^२ स्थिते चन्द्रे शुक्रे तत्रैव संस्थिते ।

रतेः सुखं स्त्रियो वाच्यं नखसीत्कारपेशलम् ॥४४३॥

गुरौ लग्ने सिते घने चन्द्रे च सुखवेशमनि ।

रूपलावण्ययुक्तानां रतं युनां सुखास्पदम् ॥४४४॥

अस्ते शुक्रे युते क्रूरैः सुखं पीडा च जायते ।

चन्द्रशुक्रौ यदा तत्र सुखाधिक्यं तदा मतम् ॥४४५॥

सप्तमस्थान में यदि पापग्रह हों तो वह स्त्री पतित्यक्ता हो जाय । यदि उस स्थान में अधिक पापग्रह हों तो पति मर जाय । यदि सात भावों में सब ग्रह स्थित हो जाय तो स्त्री सौभाग्यवती होती है ॥ ४४० ॥

सप्तमस्थान में मंगल के नवांश में यदि शनि की दृष्टि रहे तो स्त्री योनिदोषवती होती है । उसी स्थान में यदि शुभग्रह का नवांश हो जाय तो स्त्री सुन्दरी तथा पतिप्रिया होती है ॥ ४४१ ॥

ऋतुकाल में मघा, रेवती, मूल, ज्येष्ठा, आश्लेषा और अश्विनी इन ६ नक्षत्रों को अवश्य छोड़ना चाहिये, अन्य नक्षत्रों को नहीं ॥ ४४२ ॥

चन्द्र और शुक्र यदि योनिस्थान में रहें तो उस स्त्री को मैथुनजन्य सुख कहना चाहिये ॥ ४४३ ॥

लग्न में गुरु, सप्तम में शुक्र और चतुर्थस्थान में यदि चन्द्रमा रहे तो रूप लावण्ययुक्त युवकों को स्त्रीसुख कहना चाहिये ॥ ४४४ ॥

शुक्र यदि सप्तम स्थान में रहे तथा क्रूर ग्रहों से युक्त हो तो सुख और दुख दोनों होते हैं । यदि चन्द्रमा और शुक्र एक साथ रहें तो अधिक सुख कहना चाहिये ॥ ४४५ ॥

1. सौभाग्याढ्या शुभैर्युक्ते for चार...पत्युः A, A¹ 2. स्थान for स्थाने A, A¹

गुरुणा सहितौ तौ च सप्तमे वाथवाष्टमे ।
 महासौख्यं रतेर्वाच्यं मुदितैर्मुदितस्त्रियाः ॥४४६॥
 स्वगृहे^१ स्वर्क्षगैः सौम्यैः परगेहेऽन्यगेहगैः ।
 मित्रौकसि तु मित्रस्थैः^२ रतं शुभस्त्रिया सह ॥४४७॥
 अस्ते शुक्रे च शीतांशौ ससौख्यं सुरतं मतम् ।
 सगुरौ चन्द्रशुक्रे च कर्पूरादि^३ मुखाश्रयम् ॥४४८॥
 क्रूरे सौम्ये च सायासं सोद्वगं कलहाश्रयम् ।
 भोगवर्जं शनौ वाच्यं मैथुनं पूतधीधनैः^४ ॥४४९॥
 एकं रतं चरे वाच्यं स्थिरलग्ने रतद्वयम् ।
 द्विस्वभावे तु लग्नं तु रतत्रयमुदाहृतम् ॥४५०॥
 तुर्ये गुरौ रतं वाच्यमुत्तमे^५ देववेश्मनि ।
 भद्रदेवगृहे भूमौ गुरौ नीचे रतं मतम् ॥४५१॥

यदि चन्द्रमा और शुक्र गुरु के साथ सप्तम तथा अष्टम स्थान में रहें तो आनन्दयुक्त स्त्री के साथ आनन्दित पुरुषों को मैथुन-सुख होता है ॥ ४४६ ॥

शुभग्रह अपने घर में रहें तो अपने घर में, अन्य राशि में रहें तो दूसरों के घर में, मित्रस्थान में रहें तो मित्र के घर में, सुन्दर स्त्री के साथ भोगविलास कहना चाहिये ॥ ४४७ ॥

सप्तमस्थान में यदि शुक्र और चन्द्रमा रहें तो सुखसहित मैथुन होता है । चन्द्रमा और शुक्र यदि गुरु के साथ रहें तो कपूर आदि सुगन्धित द्रव्यों से सुवासित मैथुन होता है ॥४४८॥

सप्तम स्थान में शुभ और पापग्रह दोनों रहें तो आयास, उद्वेग और कलह से युक्त मैथुन होता है । शनि यदि सप्तम स्थान में रहे तो आनन्दशून्य मैथुन कहना चाहिये ॥ ४४९ ॥

प्रभलग्र यदि चर हो तो एक वार, स्थिर लग्न हो तो दो वार, द्विस्वभाव लग्न रहे तो तीन वार मैथुन कहना चाहिये ॥ ४५० ॥

चतुर्थ स्थान में गुरु रहे तो उत्तम देवालय में मैथुन कहना चाहिये । वही गुरु यदि नीच का हो तो जीर्ण देवालय में मैथुन कहना चाहिये ॥ ४५१ ॥

1. स्वगृहे : for स्वगृहे ms. 2. मित्रस्थे for मित्रस्थैः Ms. 3. ०मुखा० for ०मुखा० A A¹, Bh. 4. मिथुनं श्रुतधीधनैः for मैथुनं पूतधीधनैः A, A¹ ६. 5. मुत्तगे for मुत्तमे A¹

भौमे महानसे भूमौ सभयं सुरतं पुनः ।
 शुक्रे च सज्जले स्थाने गीतनृत्यादिशालिनि ॥४५२॥^१
 चन्द्रे शुक्रे च वाप्यादौ रतं प्रोक्तं सुखाश्रयम्^२ ।
 कुञ्जमध्ये बुधे तूर्ये रतं रम्यं कथादिभिः^३ ॥४५३॥
 शनौ राहौ च गर्तायां रवौ चतुष्पदाश्रयम् ।
 एवं ग्रहानुमानेन^४ रतस्वरूपमादिशेत् ॥४५४॥
 इति सप्तमस्थाने द्वितीयं सुरतप्रकरणम् ॥

अथ परचक्रागममप्रकरणम् ॥

चरे लग्ने स्थिरे^५ चन्द्रे समायाति रिपोर्बलम् ।
 चरे चन्द्रे स्थिरे लग्ने शत्रुर्नायाति भूपतिः ॥४५५॥
 चन्द्रलग्नौ स्थिरस्थौ चेत् तदा याति रिपोर्बलम् ।
 चन्द्रोदयादपि द्वयङ्गे शत्रुर्मार्गान्निवर्तते ॥४५६॥

मंगल यदि सप्तम स्थान में रहें तो रसोई घर में सभय मैथुन, शुक्र रहें तो जलाश्रयस्थान में जहां नृत्य, गीत आदि होते रहें मैथुन कहना चाहिये ॥ ४५२ ॥

चन्द्र और शुक्र यदि सप्तमस्थान में रहें तो सुखदायक स्थानों में और यदि बुध चतुर्थ स्थान में रहे तो कथा आदि से युक्त तथा किसी कुञ्ज में मैथुन कहना चाहिये ॥ ४५३ ॥

शनि, राहु यदि उक्त स्थान में रहें तो गड्ढे में, रवि रहें तो गोशाला आदि में, इस तरह प्रहों की स्थिति के अनुसार मैथुन कहना चाहिये ॥ ४५४ ॥

चर राशि यदि लग्न में हो और चन्द्रमा स्थिर राशि में हो तो शत्रु की सेना आजाती है। चन्द्रमा यदि चर राशि में हो, लग्न स्थिर राशि का हो तो शत्रु नहीं आता ॥ ४५५ ॥

चन्द्र और लग्न दोनों स्थिर राशि के हों तो शत्रु की सेना आजाय। चन्द्र और लग्न यदि द्विस्वभाव राशि में रहें तो शत्रु मार्ग से ही लौट जाय ॥ ४५६ ॥

1. सुखावहम् for सुखाश्रयम् A. 2. पुञ्ज० for कुञ्ज A, A¹ 3. कथादिना for कथादिभिः A. 4. ग्रहानुभावेन for ग्रहानुमानेन A, A¹ 5. चरलग्नस्थिते for चरे लग्ने स्थिरे A.

परचक्रागमं प्राहुश्चरे लग्ने स्थिरे चिधौ ।
 द्वयोश्चरस्थयोर्वापि नत्केतस्माद्विपर्यये ॥४५७॥
 चरे शशी ततो द्वयङ्गे अर्द्धं गत्वा निवर्तते ।
 विपर्यये द्विधा याति क्रूरदृष्टे पराजयः ॥४५८॥
 मेषवृषधनुःसिंहा मूर्तौ तुर्ये यदि स्थिताः ।
 अग्रहाः सग्रहा वापि रिपुं व्यावर्तयन्ति ते ॥४५९॥
 रिपुरायाति बन्धुस्थैः शीघ्रं प्रग्ने शुभग्रहैः ।
 चन्द्राकौ तु सुखस्थौ चेत्तदा नायान्ति शत्रवः ॥४६०॥
 लग्नाभ्रचन्द्रधर्मेशः स्थिरस्थैर्नागमो रिपोः ।
 स्थिरग्रहैः स्थिरे लग्ने दृष्टे नैति^१ कदाचन ॥४६१॥

लग्न यदि चर राशि में रहे और चन्द्रमा स्थिर राशि के हों तो शत्रुसेना का आगमन होता है। दोनों यदि चरराशि के हों तो शत्रु आवे। इस से विपरीत शत्रु नहीं आसकता ॥ ४५७ ॥

चर राशि में चन्द्रमा रहे, लग्न द्विस्वभावराशि के हों तो शत्रु आधे रास्ते से आकर लौट जाता है। इससे विपरीतावस्था में दो बार आता है। यदि पापग्रह की दृष्टि रहे तो उसकी हार हो जाती है ॥ ४५८ ॥

मेष, वृष, धनु, सिंह इन्हीं राशियों में से कोई यदि लग्न और चतुर्थ स्थान दोनों में रहे और वे याद ग्रहों के साथ वा विना ग्रह के रहें तो शत्रु को लौटा देते हैं ॥ ४५९ ॥

प्रभकाल में यदि सभी शुभग्रह चतुर्थस्थान में रहें तो शत्रु शीघ्र ही आजाता है। यदि रवि, चन्द्र चतुर्थस्थान में रहें तो शत्रु नहीं आसकते ॥ ४६० ॥

लग्नेश, दशमेश, धर्मेश और चन्द्र यदि स्थिर राशि में हों तो शत्रु का आगमन नहीं होता। लग्न स्थिर राशि रहे और स्थिर ग्रहों से देखा जाय तो भी शत्रु कभी नहीं आते ॥ ४६१ ॥

लंनपुण्यपती द्वौ तु युक्तद्वौ परस्परम् ।
 परागमनकर्तारिवन्यथाप्यन्यथा फलम् ॥४६२॥
 पुण्यलग्नेशसंबद्धौ चन्द्रलग्नेश्वरौ यदि ।
 द्विषदागमकर्तारिवन्यग्रहयुतौ नहि ॥४६३॥
 सौरिर्जीवोऽथवा लग्ने स्थिरे यदि च सयुतः ।
 रिपुरेति तदा नैव रिपुरेति चरैः पुनः ॥४६४॥
 अर्काकिंबुधशुक्राणामेकोऽपि स्याच्चरोदये ।
 भवेत्तदागमः शत्रोः स्थिरलग्ने न चागमः^१ ॥४६५॥
 द्वितीये च तृतीये च गुरोः क्षेत्रे^२ऽथवा भृगुः ।
 बली यदा तदायाति शत्रुस्तत्र बलैर्युतः^३ ॥४६६॥

लग्नेश और धर्मेश की पारस्परिक दृष्टि हो अथवा वे दोनों युक्त
 ग्रह हों तो शत्रु का आक्रमण अवश्य होता है, अन्यथा रहे तो शत्रु
 नहीं आते ॥ ४६२ ॥

लग्नेश और चन्द्रमा यदि पुण्यस्थानेश से संबन्ध रखते हों तो
 शत्रु का आगमन होता है, अन्यग्रहों के साथ युक्त हों तो शत्रु नहीं
 आता ॥ ४६३ ॥

शनि अथवा गुरु यदि लग्न में रहे अथवा स्थिर राशि के हों तो
 शत्रु नहीं आता और यदि वे चर राशि के हों तो शत्रु आजाता है ॥४६४॥

रवि, शनि, बुध, शुक्र इनमें से कोई भी चर लग्न में रहे तो शत्रु
 का आगमन अवश्य रहे किन्तु स्थिर लग्न होने पर नहीं होता ॥ ४६५ ॥

बली शुक्र यदि द्वितीय, तृतीय अथवा गुरु की राशि में रहे तो
 शत्रु सेना के साथ आता है ॥ ४६६ ॥

1. च नागमः for नचागमः A. 2. गुरुक्षेत्रे for गुरोःक्षेत्रे A.
 3. For this line the ms. reads बली यदा तदायाति शुक्रो वा
 धिषणोऽपि वा । तथा तथा समायाति शत्रुस्तत्र बलैर्युतः.

परागमनपृच्छायां लग्ने क्रूरः स्थितो यदा¹ ।
 तदा शत्रोर्भवेन्मृत्युर्देवादागच्छतः पथि ॥४६७॥
 सुतश्शत्रुगतैः क्रूरैः² शत्रुमार्गाच्चिवर्तते ।
 चतुर्थगैरपि प्राप्तः शत्रुर्भग्नो निवर्तते ॥४६८॥

इति सप्तमस्थाने तृतीयं परचक्रागमनप्रकरणम् ॥

अथ सप्तम एव मार्गनिबद्धत्वाद् गमनागमनं निरूप्यते

गमनागमनं प्रोक्तं चरे चन्द्रे चरोदये ।

द्विस्वभावे चराद्धे च चरवर्गे³ विलम्बितम् ॥४६९॥

एतद्विपर्यये नेदं भवतीति विनिश्चितम् ।

चरेष्वपि प्रयाणं⁴ स्याद्योगशक्त्या स्थिरोदये ॥४७०॥

अर्काकिंगुरुसौम्यानामेकेनापि चरोदये ।

शीघ्रयानं न तद्वक्त्रे नेन्दोः⁵ स्वार्धव्ययैः शुभैः ॥४७१॥

शत्रु का आक्रमण होगा वा नहीं ऐसे प्रश्न में यदि कोई पापग्रह लग्न में हो तो अकस्मात् मार्ग में आते हुए शत्रु की मृत्यु हो जाय ॥ ४६७ ॥

पञ्चम, षष्ठ स्थानों में यदि पापग्रह हों तो शत्रु मार्ग में से लौट जाता है । वे पापग्रह यदि चतुर्थ स्थान में हों तो शत्रु अङ्गभङ्ग होकर लाट जाता है ॥ ४६८ ॥

चन्द्र यदि चर राशि में हो और चरलग्न होवे तो आना-जाना (आसानी से) होता है । यदि लग्न और चन्द्रमा द्विस्वभाव राशि के हों, चरखण्ड वा चरराशि के वर्ग में पड़े हों तो आना-जाना देरी से होता है ॥ ४६९ ॥

इसकी विपरीतावस्था में यह नहीं होता, यह निश्चित है । चरलग्न में भी यात्रा होती है । स्थिरलग्न में भी योग शक्ति से यात्रा जाननी चाहिये ॥ ४७० ॥

रवि, शनि, गुरु, बुध—इनमें से कोई भी चर लग्न में रहे तो शीघ्र ही यात्रा होगी, यदि वे वक्री हों तो नहीं और यदि चन्द्रमा से शुभ ग्रह द्वितीय लाभ-व्यय स्थानों में हों तो भी नहीं ॥ ४७१ ॥

1. यदि for यदा A¹. 2. पापैः for क्रूरैः A, A¹ 3. स्थिरलग्ने for चरवर्गे Bh. 4. चरे पथि प्रयाणं स्या for चरेष्वपि प्रयाणां स्या० A., Bh. 5. तु तद्वक्त्रे नेन्दो for न तद्वक्त्रे नेन्दोः A., नंदास्त्वयै व्यये शुभः Bh.

स्थिरे गमागमौ न स्तः शनिजीवनिरीक्षिते ।
 अस्थिरे भवतस्त्वेतौ शुभखेटविलोकितौ ॥४७२॥
 चन्द्रलग्नौ द्विदेहस्थौ चिरं वाच्यौ गमागमौ ।
 चरादिवर्गगौ युक्त्या वक्तव्यौ कालमात्रया¹ ॥४७३॥
 शुक्रार्किबुधजीवानामेकोऽपि चरलग्नगः ।
 गमनाय निवृत्तौ तु चेत् स्थिरलग्नमाश्रितः ॥४७४॥
 प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च स्थिता धर्मार्थभावयोः ।
 तत्र वीक्ष्या बलाद्यैश्च गमागमनिबन्धनाः² ॥४७५॥
 शीर्षोदये शुभा यात्रा सैव पृष्टोदयेऽन्यथा³ ।
 मीनलग्नांशकैर्वापि⁴ यानं चक्रं च निष्फलम् ॥४७६॥

स्थिर लग्न रहे और शनि-गुरु की दृष्टि रहे तो आना-जाना नहीं होता । अस्थिर लग्न रहे और शुभ ग्रहों की दृष्टि रहे तो आना-जाना होता है ॥ ४७२ ॥

चन्द्रमा और लग्न द्विस्वभाव राशि क हों तो आने जाने में विलम्ब कहना चाहिये । चर राशि के वर्ग में रहे तो युक्तिपूर्वक, काले के अनुमान से गमनागमन कहना चाहिये ॥ ४७३ ॥

शुक्र, शनि, बुध और गुरु इनमें से कोई भी यदि चरलग्न में है तो वह यात्रा के लिये प्रवृत्त होता है । वही यदि स्थिर लग्न में हों तो यात्रा नहीं कहनी चाहिये ॥ ४७४ ॥

गमन और आगमन दोनों धर्म और अर्थ भाव के ग्रहों का बला-बल देख कर कहने चाहिये ॥ ४७५ ॥

शीर्षोदय वाले राशि लग्न रहें तो शुभ यात्रा, पृष्टोदय वाले राशि लग्न रहें तो विपरीत अर्थात् अशुभ यात्रा, मीन लग्न का उदय रहे तो आना जाना निष्फल रहे ॥४७६॥

1 कालमात्रयः for कलमात्रया Bh. 2 निबन्धनम् for निबन्धनाः Bn. 3. यथा for ऽन्यथा A, A¹ 4. मीनलग्नोदये वापि for मीन-लग्नांशकैर्वापि A, A¹.

मदीयः पुत्रको देशे गत्वा तत्रैव संस्थितः ।
 कदायातीति शङ्कायां^१ पृच्छालग्नं निरीक्षयेत् ॥४७७॥
 चरे लग्ने चरांशे वा स्थिते चन्द्रे तदैव हि ।
 परदेशात्समभ्येति स्वाङ्कसंख्यैश्च^२ यामिकैः^३ ॥ ४७८ ॥
 चन्द्रो वा धिषणो वापि भार्गवो वा बलाधिकः ।
 यदि तुर्ये समभ्येति तदा गेहागतं^४ वदेत् ॥ ४७९ ॥
 प्रयाति सहजस्थानमसौ यस्याशुभग्रहः^५ ।
 आयाति पथिकस्तस्यामेव नाड्यां गृहान् प्रति ॥ ४८० ॥
 चरोदये चरांशे वा सौम्या यान्ति बलोत्कटाः^६ ।
 तदा जवात्समभ्येति दूरादप्यचिरादपि^७ ॥ ४८१ ॥
 मार्गे ह्यागच्छतः पुंसो विश्रामो ग्रहसंख्यया ।
 सबलानि धनादीनि वाच्यं स्वलनकारणम् ॥ ४८२ ॥

मेरा पुत्र परदेश में जाकर वहीं बैठ रहा है। वह कब आवेगा ऐसे प्रश्न में प्रश्न लग्न को देखना चाहिये ॥४७७॥

चर लग्न अथवा चर राशि के नवांशक में यदि चन्द्रमा रहे और शनि अपने स्थान में हो तो वह परदेश से शीघ्र ही लौट आता है ॥४७८॥

चन्द्रमा, गुरु वा शुक्र बली होकर यदि चतुर्थ स्थान में रहें तो वह घर में आ गया है इस प्रकार कहना चाहिये ॥४७९॥

जिसकी प्ररन कुण्डली में शुभग्रह तृतीय स्थान में रहें तो वह पथिक उसी समय घर को आ जाता है ॥४८०॥

शुभ ग्रह चर लग्न वा चर राशि के नवांश में सबल हो कर रहें तो दूर से भी वह शीघ्र आ जाय ॥४८१॥

मार्ग में आते हुए पुरुष के ग्रहस्थितिद्वारा विश्राम, बल, धन और विलम्ब के कारण कहने चाहियें ॥४८२॥

1. संख्यायां for शंकायां A. 2. संस्थैश्च for संख्यैश्च A. 3. यामिकैः Bh. 4. गृहं गत for गेहागतं A, A^१. 5. यस्यां for यस्या A, A^१. यस्य Bh. 6. बलाधिकाः for बलोत्कटाः A, A^१. 7. दूरादपि चिरादपि for दूरादप्यचिरादपि A. A^१.

लग्नास्तयोर्द्वयोरङ्कास्तुर्यस्यापि भवन्ति चेत्^१ ।

दूराध्वानाम्स्त्वविश्रामा ज्ञातव्याः स्वगृहान्तरे ॥ ४८३ ॥

स्वभावगोऽतिचारो वा मार्गो वक्रगतिस्तथा ।

लग्ननाथस्य या दृग् स्यात् प्रचारः पथिकस्य सः ॥ ४८४ ॥

लग्नाद्वा लग्ननाथाद्वा यत्संख्ये क्ररखेचराः ।

मार्गो हि गच्छतो गन्तुस्तत्रापि स्यादुपद्रवः ॥ ४८५ ॥

घने नीचेऽथवा षष्ठे चन्द्रलग्नेश्वरो यदि ।

छिद्रनाथयुतौ मृत्युरिष्टश्चापि प्रवासिनः^३ ॥ ४८६ ॥

प्रश्ने पृष्ठोदये लग्ने क्ररैर्दृष्टे शुभे च्युतैः ।

कोणकेन्द्रगतैर्वापि प्रवासी स्यादुपद्रुतः ॥ ४८७ ॥

क्ररयुक्ते क्षितौ मन्दः सौम्येक्षायोगवर्जितः ।

धर्मस्थस्तनुते व्याधिं प्रोषितस्यागमो भवेत् ॥ ४८८ ॥

लग्न और सप्तम स्थान के अङ्क यदि चतुर्थ स्थान के भी हों दूर मार्ग चल कर आए हुए पुरुष को घर में विश्राम कहना चाहिये ॥४८३॥

लग्नेश प्रकृतिस्थ रहें वा किसी अन्य राशि में जाने वाले हों अथवा मार्गी वा वक्री रहें वैसी ही स्थिति उस पथिक की होती है ॥४८४॥

लग्न वा लग्नेश से यत्संख्यक स्थान में पापग्रह हों, मार्ग पर चलते हुए उस पथिक का अनिष्ट कहना चाहिये ॥४८५॥

चन्द्रमा और लग्नेश सप्तम अथवा अपने नीचे वा षष्ठ स्थान में रहें और अष्टमेश से संयोग रहे तो उस प्रवासी मनुष्य की मृत्यु कहनी चाहिये ॥४८६॥

प्रश्नकाल म पृष्ठोदय राशि लग्न में हो, पाप ग्रहों की दृष्टि रहे, कोई भी शुभग्रह न रहे अथवा केन्द्र तथा त्रिकोण स्थान में शुभग्रहों से रहित हो तो पथिक को मार्ग में अनिष्ट कहना चाहिये ॥४८७॥

शनि धर्म स्थान में हो और क्रूर ग्रहों से युक्त वा देखा जाय, शुभ ग्रह की दृष्टि अथवा योग न रहे तो वह पथिक रोगी होकर घर को लौट आवे ॥४८८॥

1. ये for चेत् ms. 2. दूराध्वनोऽथ for दूराध्वानाम्स्त्व A. 3. प्रवासिनाम् for प्रवासिनः A. 4. कोयो for कोय ms. 5. क्ररे for क्रूर ms.

लभाद्वा लग्ननाथाद्वा यत्संख्ये सौम्यखेचराः ।

मार्गे तत्रोदयो वाच्यः शकुनाश्चापि शोभनाः ॥ ४८९ ॥

अष्टमे तरणौ मार्गे भयं वाच्यं कुजेऽपि वा ।

यावन्तोऽप्यष्टमे खेटाश्चौरास्तावन्त एव हि ॥ ४९० ॥

लग्ने घने तृतीये च सौम्ययुक्तेक्षितेऽपि च ।

तस्करोपद्रवौ^२ नैव वक्तव्यौ^३ मार्गचारिणाम् ॥ ४९१ ॥

यत्र गुरुर्भवेद्देवो यत्र शुक्रो जलाश्रयः ।

प्रपातडागकूपादि वक्तव्यं गच्छतां पथि^४ ॥ ४९२ ॥

चन्द्रे शुक्रं नदीमार्गे राहुशन्योर्महद्भयम् ।

नृपगेहे गुरौ तुंगे निधिलाभोऽपि भूपतेः ॥ ४९३ ॥

लग्न से वा लग्नेश से जितनी संख्या पर शुभ ग्रह पड़े हों प्रश्न काल से उतने ही दिनों में उसका उदय होता है और शुभ शकुन भी होते हैं ॥४८६॥

अष्टम स्थान में यदि सूर्य तथा भौम हों तो मार्ग में भय कहना चाहिये, जितने संख्यक ग्रह अष्टम में स्थित हों उतने संख्यक चौर से उपद्रव हो ॥४९०॥

यदि लग्न द्वितीय और तृतीय में शुभ ग्रह का योग हो या शुभ ग्रह देखते हों तो पथिक को रास्ते में चौर तथा उपद्रव का भय नहीं होगा ॥४९१॥

जिसको प्रश्न काल में गुरु या शुक्र जलचर राशि में हो उसको रास्ते में जाते समय तालाब कूआं, इत्यादि जलाशय मिलें ॥४९२॥

यदि चन्द्र और शुक्र, जलचर राशि में हों तो नदी के मार्ग से (अर्थात् नौका या पोत पर यात्रा करे) जाय यदि राहु और शनि जलचर राशि में हो तो महान् भय कहना चाहिये, और यदि बृहस्पति उच्च का हो तो राजा के घर में हो तथा राजा से निधि का लाभ हो ॥४९३॥

1. शत्रुता० for शकुना० A. 2. पद्रवो for पद्रवौ A. 3. वक्तव्यो for वक्तव्यौ A. 4. यदि for पथि A. A^१.

राजगेहे भृगौ तुंगे द्रव्यलाभादि^१ गच्छतः ।
 षष्ठे पुष्टे^२ गुरौ व्याधिरित्येवं मार्गचेष्टितम् ॥ ४९४ ॥
 अष्टमे स्वगृहे सूर्ये शनिदृष्टेऽथवा युते ।
 मंगले शीतगौ मार्गे शस्त्रैर्घातं तदादिशेत् ॥ ४९५ ॥
 गुरौ लग्नेऽथवा शुक्र शत्रुतस्करसंकटे ।
 न प्रहारो न वा हानिर्नक्तव्या मार्गचारिणाम् ॥ ४९६ ॥
 सप्तमे शीतगौ शुक्रे मार्गेऽपि गच्छतां नृणाम् ।
 स्त्रीसंभोगो भवेत् स्नेहान्मिथुनादिषु मूर्तितः^३ ॥ ४९७ ॥
 नो विश्रामश्चरे लग्ने द्वौ विश्रामौ स्थिरात्मके ।
 विश्रामत्रितयं प्रोक्तं द्विस्वभावे विचक्षणैः ॥ ४९८ ॥
 वृषसिंहालिकुम्भेषु लग्नयातेषु गच्छतः ।
 गमागमौ न वक्तव्यौ चरैरेवं द्वयं वदेत् ॥ ४९९ ॥
 इति सप्तमस्थाने गमागमप्रकरणम् ।

यदि शुक्र उच्च का हो तो जाते समय राजा के घर से बहुत द्रव्यादि का लाभ हो, और यदि षष्ठ भाव में पुष्ट बृहस्पति हो तो रास्ते में व्याधि हो ॥४९४॥

यदि अष्टम भाव में सिंह का सूर्य हो और वह शनि से युत वा दृष्ट हो वा मंगल चन्द्रमा अष्टम में स्वगृही हों शनि से युत व दृष्ट हों तो रास्ते में उसका शस्त्र से घात हो ॥४९५॥

यदि बृहस्पति वा शुक्र लग्न में हों तो शत्रु और चौर से संकट होने पर भी उसको न तो प्रहार हो और हानि भी नहीं हो ॥४९६॥

सप्तम में चन्द्रमा और शुक्र हों तो रास्ता जाते हुये भी प्रेम पूर्वक मैथुनादि में स्त्री का सम्भोग हो ॥४९७॥

यदि प्ररनकाल में चर लग्न हो तो रास्ते में विश्राम नहीं होता और स्थिर हो तो रास्ते में दो जगह, अगर द्विःस्वभाव हो तो तीन जगह विश्राम होता है ॥४९८॥

यदि स्थिर लग्न में यात्रा करें तो जाना आना नहीं होता और यदि चर लग्न में करें तो गमागम दोनों होते हैं ॥४९९॥

इति सप्तमस्थाने गमागमप्रकरणम्

1. ०लाभोऽपि for ०लाभादि A, A¹. 2. पुष्टे for पुष्टे A. 3 मूर्तयः for मूर्तितः A, A¹.

युद्धप्रकरणं वक्ष्ये गमनाय महीभुजाम् ।
 गुरुपदेशतो ज्ञात्वा देवं नत्वा जिनेश्वरम् ॥ ५०० ॥
 शत्रुलग्नेश्वरौ क्रूरो क्रूरो वा लग्नसप्तपौ^१ ।
 अन्योन्येक्षितयुक्तौ तु युद्धाय क्रूरवर्गौ ॥५०१॥
 युद्धकृद् घ्नपः केन्द्रे^२ ग्रहो वक्रो च केन्द्रगः ।
 क्रूरयुक्तेक्षिते लग्ने क्रूरवर्गाधिकेऽपि^३ वा ॥५०२॥
 मूर्तौ क्रूरे बुधे त्रिस्थे रवौ तुर्ये रणोदये ।
 पौरनृपविनाशः स्यादमीषां नवमांशके ॥५०३॥
 कुजः स्वोच्चं गतः केन्द्रे रविर्वापि निजोच्चगः ।
 विरोधी सप्तमः केन्द्रे युद्धयोगो महानयम्^४ ॥५०४॥

अपने इष्ट जिनेश्वर देव को नमस्कार करके और गुरु का उपदेश जानकर राजाओं को जाने के लिये युद्ध प्रकरण कहता हूँ ॥५००॥

पण्डेश और लग्नेश पाप हों अथवा लग्नेश, सप्तमेश पाप हों और पाप ग्रहों के वर्ग में हों और दोनों आपस में देखते हों तो युद्ध होता है ॥५०१॥

यदि सप्तमेश केन्द्र में हो या वक्रो ग्रह केन्द्र में हो और पापग्रह लग्न में स्थित हो वा देखता हो और पापग्रहों की वर्गों की अधिकता हो तो युद्ध होता है ॥५०२॥

लग्न में पाप ग्रह हो, बुध तृतीय में हो और रवि चतुर्थ स्थान में हो और इन्हीं राशियों के नवांश युद्धकाल में लग्न हो तो उस नगर के राजा का नाश होता है ॥५०३॥

यदि मङ्गल उच्च का हो कर केन्द्र में हो और रवि उच्च का होकर शत्रु स्थान या सप्तम या और केन्द्रों में हो तो बहुत भारी युद्ध का योग होता है ॥५०४॥

1 सप्तमौ for सप्तपौ Bh. 2. केन्द्र for केन्द्रे A. 3. अधिकोऽपि वा for अधिकेऽपि वा A. 4. महानसौ for महानयम् A.

सक्रो वक्रितो वापि केन्द्रे युद्धाय मूर्तिपः ।
 धनपोऽपि तथा चिन्त्यस्त्वेवं षष्ठगृहाधिपः ॥५०५॥
 अर्कादग्ने चरे क्रूरे चन्द्रे वारिष्ठगामिनि ।
 युद्धं स्यात्सबलारब्धं महाक्रोधेन भूभुजाम् ॥५०६॥
 रणाय प्रान्त्यगाः क्रूरा राहुकेतु^१ विशेषतः ।
 अस्ते मूर्तौ भ्रवं क्रूरैर्युद्धं वाच्यं बलद्वये^२ ॥५०७॥
 स्थिरे मूर्तौ स्थिरांशे वा युद्धे नास्ति रणोदयः ।
 सग्रहाग्रहयोगेन युद्धायुद्धं विचारयेत् ॥५०८॥
 शुभैर्मूर्तौ^४ शुभैरस्ते^५ शुभैः केन्द्रे^६ शुभेक्षिते ।
 युद्धं न जायते क्षेमो भवेत्तत्र महीभृताम्^७ ॥५०९॥

लग्नेश पापग्रह से युक्त हो और वक्री होकर केन्द्र में हो तो युद्ध होता है । इस प्रकार सप्तमेश यदि पाप से सम्बन्ध करता हो और वक्री होकर केन्द्र में हो तो भी युद्ध होता है । इसी प्रकार षष्ठेश की स्थिति हो तो भी युद्ध होता है ॥५०५॥

मूर्य से आगे चर राशि में पाप ग्रह हो और चन्द्रमा अनिष्ट स्थान में स्थित हो तो राजाओं का बड़े क्रोध के साथ, बहुत जोर से युद्ध होता है ॥५०६॥

याद द्वादश स्थान में पाप ग्रह हो तो युद्ध होता है और राहु, केतु हो तो विशेष युद्ध होता है और सप्तम में लग्न में पाप ग्रह हों तो निश्चय दोनों तरफ की सेनाओं में युद्ध होता है ॥५०७॥

यदि युद्ध काल में स्थिर राशि लग्न हो वा स्थिर राशि का नव-मांश लग्न हो तो युद्ध नहीं होता । इस प्रकार ग्रहों के संयोग तथा वियोग से युद्ध होगा या नहीं उसका विचार करें ॥५०८॥

यदि शुभ ग्रह लग्न में हो और शुभ ग्रह सप्तम स्थान में हो और शुभग्रह केन्द्र में हो और इन स्थानों पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो इस योग में युद्ध नहीं होता किन्तु राजाओं का कल्याण होता है ॥५०९॥

1. ०केत्वविशेषतः for ०केतु विशेषतः A. 2. क्रूरे चन्द्रे वारिष्ठ गामिनी for क्रूरै र्युद्धं वाच्यं बलद्वये ms. 3. सप्तहो for सप्तहा ms. 4. मूर्तैः for मूर्तौ A¹ 5. ०रस्तैः for स्ते A. 6. केन्द्रे for केन्द्रे ms. 7. तत्र क्षेमं भवति भूभृताम् for क्षेमो भवेत्तत्र महीभृताम्

द्रेष्काणा दण्डपाशास्त्रधारिणः समराय च ।

क्राक्रान्ता विशेषेण क्रूरवर्गगतास्तथा ॥५१०॥

अन्योन्यवर्गगाः क्रास्त्वन्योन्यक्ररदर्शकाः ।

रौद्रं कुर्वन्ति संग्रामं शुभैः केन्द्रगतैर्नहि^१ ॥५११॥

मूर्तिगे क्रूरवर्गस्थे क्षीणे चन्द्रे च संगरः ।

क्रूरयुक्ते विशेषेण महायुद्धमुपप्लवः ॥५१२॥

न्यूनाधिकत्वमालोक्य क्रूरत्वसबलत्वयोः ।

ग्रहाणामादितस्तज्ज्ञैस्ततो युद्धस्य निर्णयः ॥५१३॥

तृतीयगृहमारभ्य भावषट्कं व्यवस्थितम् ।

नागराख्यं ततः षट्कं परं स्याद्यायिसंज्ञितम्^२ ॥५१४॥

नवमे शुरुशुक्रज्ञा जयदा नगरप्रभोः ।

भौमार्की भंगदौ सौम्याः खैकर्षिस्था जयप्रदाः ॥५१५॥

यदि लग्न का द्रेष्काणा पापग्रहों से आक्रान्त हो या पापग्रह के वर्ग में हो तो दण्ड, पाशादि अस्त्रधारियों का युद्ध होता है ॥५१०॥

यदि पापग्रह परस्पर एक दूसरे के वर्ग में हों और पाप ग्रहों की परस्पर दृष्टि हो, शुभ ग्रह केन्द्र में नहीं हों तो बहुत कठिन युद्ध होता है ॥५११॥

याद लग्न में पाप ग्रह के वर्ग में क्षीण चन्द्रमा हो तो युद्ध होता है और वह पापग्रह से युक्त हो तो महायुद्ध होता है ॥५१२॥

ग्रहों के न्यूनत्व और अधिकत्व तथा क्रूरत्व और सबलत्व को पहले से देख कर तब उसको जानने वाले युद्ध का निर्णय करें ॥५१३॥

और तृतीय भाव से लेकर छः भाव तक नागराख्य अर्थात् नगर वालों का भाव कहलाता है उस के बल से नगर वालों का और दशम भाव से तृतीय पर्यन्त यायिसंज्ञक भाव कहलाता है उसके बलाबल से जय करने वालों का जय पराजय का विचार करें ॥५१४॥

यदि नवम भाव में बृहस्पति, शुक्र, और बुध हों तो उस नगर के राजा का जय होता है, और यदि नवम भाव में मंगल, शनि हों तो युद्ध में भंग होता है, और यदि शुभ ग्रह दशम, लग्न, और सप्तम में हो तो जय होता है ॥५१५॥

1. केन्द्रगतैर्न हि for केन्द्रगतैर्नहि A, A¹. 2. परस्याख्यायिसंज्ञितम् for परं स्याद्यायिसंज्ञितम् ms.

रिष्कैकैकादशस्थाश्चेदेकः क्रूरग्रहो यदि ।

यायी तं नगरं हन्ति दुर्ग्रहमथ शोभनैः ॥५१६॥

लग्नतो यदि लाभस्थौ गुरुशुक्रौ रविबुधः ।

एक एव पुरेशस्य जयदो वरगो (?) अन्यथा ॥५१७॥

मूर्तेस्त्रिपञ्चषष्ठस्थाः क्रूरा यायिजयावहाः ।

कर्मायव्ययलग्नस्था^२ यायिनोऽपि जयावहाः ॥५१८॥

कुंभकर्कटमीनालिलग्नतुर्येऽरिभंगदाः ।

मूर्तिघनगतैः सौम्यैर्जयः स्थातुरुदाहृतः ॥५१९॥

लग्नेशघनगे वश्यो गन्ता स्याद् व्यत्ययेऽपरः ।

यायी लग्नपतिश्चिन्त्यः स्थायी घनपतिस्तथा ॥५२०॥

यदि द्वादश एकादश, और लग्न में एक पापग्रह हो तो जय करने वाले उस नगर को नष्ट कर देते हैं और यदि इन स्थानों में शुभ ग्रह हों तो वह इस नगर को ग्रहण भी नहीं कर सकते ॥५१९॥

यदि गुरु और शुक्र, लग्न से लाभ स्थान में हों और रवि, बुध प्रथम स्थान में हों तो उम नगर वालों का जय होता है, और वे यदि दुष्ट स्थान में स्थित हों तो अन्यथा अर्थात् जय नहीं होता है ॥५१७॥

यदि पापग्रह लग्न से तृतीय, पञ्चम, षष्ठ स्थान में, स्थित हो तो जय करने वालों का जय होना है और यदि दशम, एकादश, व्यय और और लग्न में, पाप ग्रह हो तो यायी को जय होता है ॥५१८॥

यदि लग्न और चतुर्थ स्थान में कुंभ, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि हो तो शत्रु का नाश होता है, और यदि लग्न, सप्तम में शुभ ग्रह हो तो स्थायी राजा का जय होता है ॥५१६॥

यदि लग्नेश सप्तम में हो तो यायी राजा स्थायी राजा के वशी-भूत होते हैं, और यदि व्यत्यय अर्थात् सप्तमेश, लग्न में हो तो अन्यथा अर्थात् उम नगर के राजा यायी राजा के वशीभूत हो जाते हैं। यायी राजा के लिये लग्नेश का विचार करें और स्थायी के लिये सप्तमेश का विचार करें ॥५२०॥

1. मूर्तिस्त्रिपञ्च० for मूर्तेस्त्रिपञ्च A. 2. स्थायि for यायि A., Bh.

सप्तराज्यपदायस्थाः सौम्यस्थायिजयप्रदाः¹ ।

शीर्षोदये शुभैर्युक्ते शुभदृष्टे रणे जयः ॥५२१॥

जयाय लग्नपो मूर्तो प्रष्टुः परस्य वाऽस्तपः ।

घृने² लग्नानुसारेण वक्त्री वक्रफलाश्रयः ॥५२२॥

लग्नलग्नपयोर्मध्ये राज्येशो³ विजयप्रदः⁴ ।

केन्द्राधिपस्तु युक्तो वा लग्नेशः केन्द्रगोऽपि वा ॥५२३॥

मन्दे भौमे च मूर्तिस्थे पुत्रे जीवे पदे रवौ ।

आये सौम्येऽथवा व्योम्नि प्रष्टुर्विजयमादिशेत् ॥५२४॥

द्रव्यस्य विषयी दाता क्रूरे सप्तमभावे ।

आकाशसंस्थिते सौम्ये यायी दत्त्वा धनं व्रजेत् ॥५२५॥

तुर्यगे ज्ञेऽष्टमे चन्द्रे शुक्रे च सप्तमे जयः ।

लग्नारिरन्ध्रगैः किं वा शुक्रजीवदिवाकरैः ॥५२६॥

यदि सप्तम, नवम, दशम, एकादश, स्थान में शुभ ग्रह हो तो स्थायी राजा का जय होता है । युद्ध काल में यदि शीर्षोदय लग्न हो और वह शुभ ग्रह से युक्त तथा देखा जाता हो तो जय होता है ॥५२१॥

और लग्नेश, लग्न में हो तो प्रश्न कर्त्ता का जय होता है और सप्तमेश यदि सप्तम में हो तो दूसरे का जय होता है, ऐसे लग्न के अनुसार इस का विचार करें और वक्त्री ग्रह हो तो विपरीत फल होता है ॥५२२॥

यदि राज्येश लग्न, और लग्नेश, दोनों के मध्य में हो तो प्रश्न कर्त्ता का विजय होता है, और लग्नेश, यदि केन्द्राधिप से युक्त हो वा केन्द्र में हो तो भी प्रश्न कर्त्ता का विजय होता है ॥५२३॥

और शनि, मंगल, लग्न में हो, बृहस्पति पञ्चम स्थान में हो, और रवि, पदस्थान में हो और शुभ ग्रह एकादश, या दशम में हो तो प्रश्न कर्त्ता का विजय होता है ॥५२४॥

यदि पापग्रह, सप्तम भाव में हो तो द्रव्य को देने वाला होता है । और यदि शुभ ग्रह, दशम भाव में स्थित हो तो यायी धन देकर चला जाय ॥५२५॥

यदि बुध, चतुर्थ स्थान में और चन्द्रमा अष्टम स्थान में हो और शुक्र सप्तम में हो, वा शुक्र, बृहस्पति, रवि, क्रम से लग्न, षष्ठ, अष्टम, भाव में हो तो जय होता है ॥५२६॥

1. For this line A, Bh read : सप्तराज्योदये सौम्याः स्थायिनो विजयप्रदाः 2. बला० for लग्ना A, A.¹; Bh 3 लग्नशो Bh. 4. जयैषियाः Bh.

जयावामिगुरौ लाभे व्यत्ययः^२ सितवक्रयोः ।
 अर्काकिंक्षितिजैस्त्रिस्थैः शुभैर्लग्नगतैर्जयः ॥५२७॥
 कमण्यारे स्वावाये^३ तृतीये रविपुत्रके ।
 विधौ षष्ठे जयं प्रष्टुः शेषैर्मृतिगतैर्ग्रहैः ॥५२८॥
 मूर्तौ जीवे जयः क्रूरे लाभे^४ वियति वा स्थिते ।
 कुजाक्योंः^५ षष्ठ्योर्लग्नोन्मूर्तौ^६ चन्द्रे व्यये जयः ॥५२९॥
 लग्ने भंगः^७ कुजे मान्द्ये^८ तथा मन्दविलोकिते ।
 घने वा निधने^९ चन्द्रे मूर्तौ सूर्ये पराजयः ॥५३०॥
 कुजाकीं भानुदृष्टौ चेद्भङ्गां भंगः मतस्तनौ ।
 सुकृते पुत्रभावे च यमाकारैस्तथा^{१०} भवेत् ॥५३१॥

यदि बृहस्पति, लाभ स्थान में हो तो जय की प्राप्ति होती है, और यदि शुक्र, मंगल, दोनों लाभ स्थान में हों तो पराजय होता है, और यदि रवि, शनि, मंगल, तृतीय में हों शुभग्रह लग्न में हों तो जय होता है ॥५२७॥

मंगल, याद दशम भाव में हो, रवि एकादश में हो और शनि तृतीय में हो चन्द्रमा षष्ठ स्थान में हो, और शेष ग्रह लग्न में हो तो प्रश्न कर्ता का जय होता है ॥५२८॥

यदि बृहस्पति लग्न में हो तो जय होता है और पापग्रह एकादश में वा दशम में स्थित हो और मंगल, शनि षष्ठ स्थान में हो लग्नेश, लग्न में और चन्द्रमा व्यय स्थान में हो तो जय होता है ॥५२९॥

यदि लग्न में मंगल वा शनि हो तथा उन पर शनि की दृष्टि हो सप्तम वा अष्टम भाव में चन्द्रमा हो तथा सूर्य लग्न में हो तो स्थायी का पराजय होता है ॥५३०॥

यदि मंगल, शनि, लग्न में हो और उन पर सूर्य की दृष्टि हो तो राजाओं का भंग होता है, और नवम, पञ्चम, भाव में शनि, सूर्य, मंगल, हो तो उसी प्रकार राजाओं का भंग होता है ॥५३१॥

1 ०वाप्ते for ०वाप्ति० Bh. 2. वियत्यय for व्यत्ययः A. वियत्या सितवक्रयोः Bh. 3 रवावाव्ये Bh. 4 व्ययति for वियति Bh. 5. कुजाकीं for कुजाक्योंः Bh. 6. लग्नान्मूर्तौ for लग्नोन्मूर्तौ Bh. 7 मंदः for भंगः Bh. 8. सेन्दोः for मान्द्ये A, A¹. कुजौ मंदौ for कुजे मान्द्य Bh. 9. वाप for वा नि० ms. 10. यमाकारे for यमाकारै ms.

सभौमे निघने मन्दे भंगो मूर्तिगते रवौ ।
 इन्दौ व्ययायमूर्तिस्थे सख्ये वा वदेद् वधम् ॥५३२॥
 लग्नेशेऽभ्युदिते यायी युद्धे जयति तत्क्षणम् ।
 उदिते सप्तमेशे च स्थायी जयति संगरे ॥५३३॥
 द्वयोः संहितयोः^१ सन्धिर्जयो वा द्वितये भवेत् ।
 लग्नेशेऽस्तमिते मृत्युर्यायिनः समरे^२ स्मृतः ॥५३४॥
 अस्तपेऽस्तमिते स्थातुर्युद्धे मृत्युस्तु शत्रुतः^३ ।
 लग्ने पृष्ठे जयो यातुः स्थातुरस्तपतौ जयः ॥५३५॥
 यत्रोदिता ग्रहाः पक्षे जयस्तत्र ध्रुवो भवेत् ।
 एवं बलाबलं ज्ञात्वा जयाजयविनिश्चयः ॥५३६॥
 लाभगौरथवोत्कृष्टैर्लाभदैश्च बलोत्कटैः ।
 शुभसंयोगवाहुल्ये वदेद्यद् महोदयम् ॥५३७॥

यदि मंगल, शनि, दोनों अष्टम स्थान में हों और रवि लग्न में हो तो राजाओं का भंग होता है और चन्द्रमा सूर्य के साथ यदि द्वादश, एकादश या लग्न में हो तो वध होता है ॥५३२॥

और लग्नेश, यदि उदित हो तो यायी का उसी समय युद्ध में जय होता है और सप्तमेश, यदि उदित हो तो युद्ध में स्थायी का जय होता है ॥५३३॥

यदि लग्नेश, सप्तमेश, दोनों साथ ही हों तो सन्धि होती है वा दोनों का जय होता है, और लग्नेश यदि अस्त हो तो युद्ध में यायी का मरण होता है ॥५३४॥

और सप्तमेश अस्त हो तो शत्रु से स्थायी को मृत्यु होती है, यदि लग्नेश पुष्ट हो तो यायी का जय होता है और सप्तमेश पुष्ट हो तो स्थायी का जय होता है ॥५३५॥

जिस पक्ष में ग्रह उदित हो उस पक्ष का अवश्य ही जय होता है, इस प्रकार बलाबल को देख कर जयाजय का निश्चय करें ॥५३६॥

उत्कृष्ट अर्थात् बलवान शुभग्रह यदि लाभ स्थान में हो और लाभेश बहुत बलवान हो और शुभग्रह का विशेष रूप से संयोग हो तो युद्ध में महान् उदय कहना चाहिये ॥५३७॥

1. रुदितयोः for संहितयोः A. A¹ Bh. 2. संगरे for समरे A. 3 शस्त्रतः for शत्रुतः Bh.

अथवा प्रकारान्तरमाह ।

सिंहादि मकरान्तं च मानुक्षेत्रमुदाहृतम् ।
 कुम्भादि कर्कपर्यन्तं चन्द्रक्षेत्रमुदीरितम् ॥५३८॥
 सूर्ये चन्द्रे च सूर्याङ्गसंश्रिते जयकांक्षिणाम् ।
 यायिनां विजयो युद्धे स्थायिनां भङ्गमादिशेत् ॥५३९॥
 सूर्ये चन्द्रे च चन्द्रर्क्षे संस्थिते युद्धवीरयोः ।
 यातुर्मृत्युस्तदा प्रोक्तः स्थायी जयति संगरे ॥५४०॥
 सूर्ये सूर्याङ्गसंयुक्ते चन्द्रे चन्द्राङ्गमाश्रिते ।
 एवंयोगे भवेत्सन्धिर्युद्धं तस्य विपर्यये ॥५४१॥
 कर्तार्या यदि चन्द्राङ्गं संहारः सैन्ययोर्द्वयोः ।
 निकटे निकटं युद्धं दूरे दूरञ्च पृच्छके ॥५४२॥

अब प्रकारान्तर से कहते हैं

सिंह से, मकरपर्यन्त सूर्य का क्षेत्र है, और कुम्भ से कर्क पर्यन्त चन्द्रमा का क्षेत्र है, जैसे बृद्धों का वचन है—

कण्ठीरवं विक्रमिणं विलोक्य स्वीयं पदं तत्र चकार सूर्यः । मैत्र्या तदा-
 सन्नतया कुलीरे निजं बबन्धालयमेयालक्ष्माः ॥१॥ अन्ये प्रहा गृहयिया-
 सिषया क्रमेण शीतांशुतीग्ममहसोः सदनं समीयुः । प्राप्तक्रमेण ददतुर्भवनानि
 तौ तु तारा प्रहा द्विभवनास्तत एव जाताः ॥२॥५३८॥

यदि सूर्य, और चन्द्रमा दोनों सूर्य के क्षेत्र में हों तो युद्ध में यायी का जय होता है और स्थायी का भंग होता है ॥५३९॥

और सूर्य, चन्द्रमा, दोनों चन्द्रमा के क्षेत्र में हों तो दोनों तरफ़ के वीरों में यायी का मरण होता है और स्थायी का युद्ध में जय होता है ॥५४०॥

यदि सूर्य सूर्य क्षेत्र में हो और चन्द्रमा चन्द्र क्षेत्र में हों तो दोनों राजाओं की परस्पर सन्धि हो जाती है ॥५४१॥

और चन्द्रमा, सूर्य, कर्त्तरी में हों तो दोनों सैन्य का नाश होता है यदि दोनों सन्धि में हों तो प्रभकर्त्ता से समीप में ही युद्ध क़हना चाहिये और दूर हों तो दूर में युद्ध क़हना चाहिये ॥५४२॥

लभे मार्तण्डमन्दौ चेद् दृष्टौ हि क्षितिस्त्रनुना ।

ससौम्ये शोतगौ दृष्टे प्रष्टुः सेनापतेर्वधः ॥ ५४३ ॥

तुलायां पद्मिनीबन्धुस्त्रिंशो दशमे स्थितः ।

हन्ति राज्यं यथा लोभः समस्तगुणसञ्चितम्^१ ॥ ५४४ ॥

राहुकालाननं चक्रं विज्ञाय स्थापितग्रहम्^२ ।

जीवभावमृताभिख्ये बलं ज्ञात्वा रणं विशेत् ॥ ५४५ ॥

सिंहाद्येषु घटाद्येषु ज्ञात्वा ग्रहबलाधिकम् ।

स्थापिययायिजयो वाच्यो युद्धप्रश्ने बलोत्कटात् ॥ ५४६ ॥

लग्ननाथे शुभैर्युक्ते शुक्रं लाभे शुभैर्युते ।

संग्रामे शस्त्रघातैस्तु मृत्युयोगे च जीवति ॥ ५४७ ॥

अनाथे क्रूरगे लग्ने लाभे क्रूरयुते हते^३ ।

भटानां शस्त्रघातैस्तु मार्यमाणोऽथ जीवति ॥ ५४८ ॥

यदि लग्न में सूर्य, और शनि, हों इन दोनों पर मंगल की दृष्टि हो, और शुभ ग्रहों के साथ चन्द्रमा पर, उसकी दृष्टि हो तो प्रभकर्त्ता के सेनापति का नाश होता है ॥५४३॥

यदि सूर्य तुला राशि में, दशम त्रिंशोश में हो तो राज्य का नाश होता है, जैसे मनुष्य कितने भी गुणी हों उसमें एक लोभ जन्य दोष आ जाय तो सब गुणों को नष्ट कर देता है ॥५४४॥

और राहु कालानल चक्र को बनाकर उसमें ग्रहों को स्थापित करके उसमें जीवन, मरण इत्यादि भावों का बलाबल जान कर युद्ध में राजा को प्रवेश करना चाहिये ॥५४५॥

युद्ध के प्रश्न में सिंह से छः राशि तथा कुम्भ से छः राशियों में ग्रहों का बलाधिक्य देख कर स्थायी, यायी राजा को सेना की प्रबलता से जयाजय कहना चाहिये ॥५४६॥

यदि लग्नेश शुभ ग्रहों से युक्त हों और लाभ स्थान में शुभ ग्रह से युक्त शुक्र हो तो युद्ध में शस्त्रादि प्रहारों से मृत्यु योग आने पर बच जाते हैं ॥५४७॥

यदि लग्नेश के अतिरिक्त और पापग्रह लग्न में हों और लाभ स्थान पापग्रहों से युक्त तथा आहत हो तो भटों को शस्त्रादिक घात से मृत्युयोग आने पर भी बच जाते हैं ॥५४८॥

1 ०सञ्चयः for ०सञ्चितम् Bh. 2. स्थापिते ग्रहे for स्थापित-
ग्रहम् A, A¹ ३ क्रूरयुतैरिते Bh.

यदा मूर्ता भवेद्राहुः^१ पुरा प्रण्डुस्तदा वदेत्^२ ।

शत्रुः शक्रोऽपि जेतव्यो बलपुष्टोऽपि पार्थिवः ॥ ५४९ ॥

कुम्भाघेषु हि ये क्रूरास्ते शस्त्रैर्निहता घनैः ।

सिंहाघेष्वपि ये क्रूरास्तेऽपि शस्त्रेण घातिताः ॥ ५५० ॥

क्रूरैरनुजभावे तु भ्रातावश्यं द्रणश्यति ।

चतुर्थे मातुलातङ्कः सुते नश्यति पुत्रकः ॥ ५५१ ॥

षष्ठेऽश्वः सप्तमे भार्या छिद्रे घातो निजेऽङ्कके ।

नवमे च गुरोर्घातो दशमे भूपतेर्वधः ॥ ५५२ ॥

यदि घूने भवेद्राहुस्तदा मृत्युद्विजात्मनः^३ ।

इति ग्रहबलं ज्ञात्वा युद्धं कार्यं नरेश्वरैः ॥ ५५३ ॥

यदा मूर्ता भवेत्क्रूरो^४ युद्धप्रश्ने तदादिशेत् ।

अवश्यं मार्यते शत्रुः सबलोऽप्यबलात्मना ॥ ५५४ ॥

जब लग्न में राहु हो तो पहले प्रभकर्त्ता का इन्द्र के तुल्य बलवान् राजा भी शत्रु हो तो उसको भी जीत लेते हैं ॥५४९॥

कुम्भादि छः राशियों में जितने पापग्रह होते हैं उतने ही यायी की सेना आदि शास्त्रादि से आघात होते हैं, और ऐसे सिंहादि छः राशियों में जितने पापग्रह हों उतने ही स्थायी की सेना शस्त्रादि से आघात हाते हैं ॥५५०॥

याद तृतीय भाव में क्रूर ग्रह हों तो भाई का अवश्य ही मरण होता है, और चतुर्थ में क्रूर ग्रह हों तो मामा को आतङ्क होता है; यदि पञ्चम स्थान में पापग्रह हों तो पुत्र का नाश होता है ॥५५१॥

यदि षष्ठ स्थान में पापग्रह हों तो घोड़ों का और सप्तम में पाप ग्रह हों तो स्त्री का नाश होता है, और अष्टम स्थान में यदि पापग्रह हों तो अपने शरीर में ही घात होता है, और नवम में हों तो गुरु का तथा दशम में पापग्रह हों तो राजा का ही नाश होता है ॥५५२॥

यदि सप्तम में राहु हो तो द्विजों का नाश होता है। इस प्रकार ग्रहों का विचार कर राजा लोग युद्ध करें ॥५५३॥

युद्ध के प्रश्न में यदि लग्न में पापग्रह हो तो बहुत बलवान् भी शत्रु अबल जैसे मारे जाते हैं ॥५५४॥

१ राहुर्भवेन्मूर्ता for मूर्ता भवेद्राहुः २ दिशेत् for वदेत् A.

३. ०निजा० for ०द्विजा Bh. ४- क्रूरो for क्रूरौ Bh.

सप्तमे खेचराः सौम्या लक्ष्मीक्षेमविधायिनः ।
 लग्नचक्रं नरं कृत्वा सर्वं घातादि चिन्तयेत् ॥ ५५५ ॥
 मूर्त्तौ क्रूरग्रहः श्रेयान् श्रेयसी क्रूरदृग् नहि ।
 शुभो न शोभनो मूर्त्तौ शुभदृष्टिस्तु शोभना ॥ ५५६ ॥
 शनेघाते त्वचं मांसं रोमाणि च वपुष्मताम् ।
 भौमघाते च रक्तौघं रविघातेऽस्थिभंजनम् ॥ ५५७ ॥
 राहुघातेऽपि सप्तापि नश्यन्ति धातवः समम् ।
 सौम्यग्रहैर्न घातोऽस्ति जीव्यते प्रत्युत स्वयम् ॥ ५५८ ॥
 पूर्णिमाचक्रतो ज्ञात्वा वर्गचक्राच्च सद्बलम् ।
 वर्णानां भेदतश्चापि ततो युद्धं समाचरेत् ॥ ५५९ ॥
 धूने नाथनगे^१ चन्द्रे लग्नं याते दिवाकरे ।
 विपर्ययो भवेत्तस्य त्रासभंगवधानि च ॥ ५६० ॥

यदि युद्ध प्रश्न में सप्तम में सबल शुभग्रह हों तो धन के लिये कल्याण होता है, लग्न चक्र को नर में स्थापित करके सब घातादि का विचार करें ॥५५५॥

लग्न में यदि पाप ग्रह हों तो श्रेष्ठ है किन्तु पाप ग्रह की दृष्टि श्रेष्ठ नहीं होती है और लग्न में शुभ ग्रह श्रेष्ठ नहीं है किन्तु शुभ ग्रह की दृष्टि अच्छी होता है ॥५५६॥

यदि शनि का घात हो अर्थात् दृष्टि हो तो शरीरधारी की त्वचा, मांस, रोम का घात होता है । मंगल की दृष्टि हो तो रक्त समूह का घात होता है और रवि का हो तो हड्डी की नाश होता है ॥५५७॥

और राहु का घात होने से साथ ही सातों धातुओं का नाश होता है और शुभ ग्रहों से घात नहीं होता है प्रत्युत तत्तद्वस्तु स्वयं जीवित हो जाते हैं ॥५५८॥

पूर्णिमा चक्र से तथा वर्ग चक्र से ग्रहों का बलाबल जान कर, और वर्णों के भेद से भी सब जानकर युद्ध का आरम्भ करें ॥५५९॥

यदि सप्तम या अष्टम भाव में चन्द्रमा हो और लग्न में सूर्य हो तो विपरीत फल होता है तथा उत्तको त्रास, भंग, वध होता है ॥५६०॥

1 निधनगे for नाथनगे A, A¹, Bh, 2. नाश for त्रास A,

ये जानन्ति ग्रहान् सर्वान् होरामन्त्रबलानि च ।
 तेषां जयो महायुद्धे वक्तव्यः पण्डितैः स्फुटम् ॥ ५६१ ॥
 द्वितीया दशमी षष्ठी द्वादशी च कुला शृणु^१ ।
 अकुला विषमाः प्रोक्ताः शेषाश्च तिथयः कुलाः ॥ ५६२ ॥
 सूर्यश्चन्द्रो^२ गुरुः सौरिश्चत्वारस्त्वकुला ग्रहाः ।
 भौमशुक्रौ कुलौ लोके बुधवारः कुलाकुलः ॥ ५६३ ॥
 वारुणाद्राभिजिन्मूलं कुलाकुलमुदाहृतम् ।
 कुलानि मासनामानि शेषाण्यकुलभानि तु ॥ ५६४ ॥
 अकुले धिष्ण्यवारे च तिथौ च यायिनो जयः ।
 कुलाख्ये स्थायिनो वाच्याः सन्धिरेव कुलाकुले ॥ ५६५ ॥

जो सब ग्रहों को जानते हैं, और होरा तथा मन्त्र-बल को भी सम्यक् प्रकार से जानते हैं उन्हीं का महायुद्ध में जय होता है, ऐसे पण्डितों को स्पष्ट कहना चाहिये ॥५६१॥

द्वितीया, दशमी, षष्ठी, द्वादशी इत्यादि सम तिथि कुला कहलाती हैं और विषम तिथि प्रतिपद्, तृतीया, पञ्चमी, सप्तमी इत्यादि अकुला कहलाती हैं ॥५६२॥

सूर्य, चन्द्रमा, बृहस्पति, शनि ये चारों ग्रह अकुल कहलाते हैं, और मंगल, शुक्र ये दोनों कुल कहलाते हैं । और बुधवार कुलाकुल है ॥ ५६३ ॥

शतभिषा, आर्द्रा, अभिजित, मूल ये नक्षत्र कुलाकुल कहलाते हैं, और मासों के नाम के नक्षत्र अर्थात् चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, श्रवणा, पूर्वभाद्र, उत्तरभाद्र, अश्विनी, कृत्तिका, मृगशिरा, पुष्य, मघा, पूर्वफाल्गुनी, उत्तरफाल्गुनी ये नक्षत्र कुल संज्ञक तथा शेष नक्षत्र अर्थात् भरणी, रोहिणी, पुनर्वसु, अश्लेषा, हस्त, स्वाती, अनुराधा, धनिष्ठा, रेवती, नक्षत्र अकुल कहलाते हैं ॥५६४॥

अकुल नक्षत्र तिथि, दिन में यात्रा करें तो यायी का जय होता है और कुल संज्ञक, तिथि, नक्षत्र, दिन यात्रा करें तो स्थायी का जय होता है, और कुलाकुल, वार, तिथि, नक्षत्र में यात्रा करें तो दोनों राजाओं की आपस में सन्धि होती है ॥५६५॥

1. कुला for शृणु A A, Bh.. 2. सूर्यो विधुर for सूर्यश्चन्द्रो A.

वसुवाणरसा वेदाः सप्त चन्द्राग्निपक्षकाः ।

एवमङ्का नगैर्मक्ताः शेषमात्राधिको^१ जयः ॥ ५६६ ॥

गजाश्वीयस्य संवृद्धौ पार्थिवः स्याद्वलोत्कटः ।

अतो गजाश्वसंज्ञाणां बलं वक्ष्यामि शास्त्रतः ॥ ५६७ ॥

गजाकारं लिखेच्चक्रं शुण्डाद्यवयवान्वितम् ।

अष्टाविंशतिभान्यत्र^२ दातव्यानि च सृष्टितः ॥ ५६८ ॥

मुखे शुण्डाग्रनेत्रे च श्रवः शीर्षाग्निपुच्छके ।

द्वयं द्वयं क्रमादेयं^३ पृष्ठोदरे चतुश्चतुः ॥ ५६९ ॥

मातङ्गनामधिष्ण्यादि गण्यते वदनाद् बुधैः ।

यत्र धिष्ण्ये स्थितः सौरिर्वाच्यं तत्र शुभाशुभम् ॥ ५७० ॥

वक्त्रे शुण्डाग्रनेत्रे च सौरिभं यस्य मस्तके ।

युद्धकाले गजो यत्र जयस्तत्र न संशयः ॥ ५७१ ॥

आठ, पांच, छः, चार, सात, एक, तीन, दो इन अंकों में से प्रश्नकर्ता जिसका उच्चारण करे वहाँ तक अङ्क को संकलित करके सात का भाग दें शेष यदि उच्चारित अंक से ज्यादा हो तो जय होता है ॥५६६॥

हाथी, घोड़ा, इत्यादि की वृद्धि से राजा को बहुत बल होता है, इसलिये हाथी, घोड़ा, शस्त्र, इत्यादि का बल शास्त्र से कहता हूँ ॥५६७॥

हाथी के आकार शुण्डादि अवयवों के साथ एक चक्र लिखें उसमें अट्ठाईस नक्षत्रों को अधिष्ण्यादि के क्रम से स्थापित करें ॥५६८॥

उसका मुख, शुण्ड के अप्रभाग, और दो आंख, दो कान, मस्तक, दोनों चरण, पुच्छ, इन दस अंगों में दो दो नक्षत्र स्थापित करें, पृष्ठ और पेट इन दोनों स्थानों में चार चार नक्षत्र स्थापित करें इस प्रकार अट्ठाईस नक्षत्रों को स्थापित करके फल कहें ॥५६९॥

मातङ्ग के नाम नक्षत्र से उसके मुख आदि क्रम से पंडित गायना करें जिस नक्षत्र में उस समय शनि हो उस पर से शुभाशुभ फल कहें ॥५७०॥

जिस राजा को युद्ध काल में शनि का नक्षत्र गज चक्र में मुख शुण्डाम, दोनों नेत्र और मस्तक, इन पांच स्थानों में हो तो उस युद्ध में उनकी जहां पर हाथी हो वहां अवश्य ही विजय होती है ॥५७१॥

1. के for को A. 2 भावान्य for भान्य ms. 3. ०हे० for ०हे० Bh. 4. धाम for नाम Bh.

पृष्ठपादे^१ च पुच्छे च कर्णे जाते शनैश्चरे ।
 मृत्युमङ्गो रणे तस्य हस्तिमङ्गसमो यदि ॥ ५७२ ॥
 निषिद्धाङ्गे च कर्णादौ रणकाले शनिः स्थितः ।
 तत्काले पटवन्धेऽपि वर्जनीयो गजोत्तमः ॥ ५७३ ॥
 जगत्या मण्डनं मेरुः शर्वर्या भूषणं शशी ।
 नराणां मण्डनं विद्या सैन्यानां मण्डनं द्विपः ॥ ५७४ ॥
 अश्वाकारं लिखेच्चक्रमशिवधिष्ण्यादितारकाः ।
 वदनात्सृष्टिगाः स्थाप्या अष्टाविंशतिसंख्यकाः ॥ ५७५ ॥
 वक्त्राक्षिकर्णशीर्षेषु पुच्छांग्रौ युग्मसंख्यकाः ।
 पञ्च पञ्चोदरे पृष्ठे सौरिर्यत्र फलं ततः ॥ ५७६ ॥
 वक्त्राक्ष्युदरशीर्षस्थो यदा सौरिहयोत्तमे ।
 शक्रतुल्यस्तदा शत्रुर्भज्यते युधि शब्दतः ॥ ५७७ ॥

और पृष्ठ, दोनों चरण, पुच्छ, दोनों कान इन स्थानों में शनि का नक्षत्र हो तो युद्ध में मल्ल समान भी हाथी हो तो भी मृत्यु और भंग होता है ॥५७२॥

यदि उस काल में निषिद्ध अंग या कर्णादि शनि में स्थित हो तो उस काल में बड़े बड़े हाथियों को भी छोड़ देना चाहिये ॥५७३॥

जैसे पृथ्वी का भूषण मेरु पर्वत है और रात्रि का भूषण चन्द्रमा है, और मनुष्य का भूषण विद्या है । उसी प्रकार सेनाओं का भूषण हाथी होता है ॥५७४॥

घाड़े के आकार एक चक्र लिखें जिसमें घोड़े के नाम नक्षत्र मुख आदि क्रम से स्थापित करें ॥५७५॥

मुख, दोनों नेत्र, दोनों कान, मस्तक, पुच्छ, दोनों चरण, इन नौ स्थानों में आश्विन्यादिक दो दो नक्षत्र स्थापित करें, और पांच पांच नक्षत्र पृष्ठ, और उदर में स्थापित करें उस में जहां पर शनि हो वैसे फल कहें ॥५७६॥

हय चक्र में जब शनि मुख, दोनों नेत्र, उदर, शीर्ष इन पांच स्थानों में हो तो युद्ध में इन्द्र तुल्य भी शत्रु शब्द से ही हट जाते हैं ॥५७७॥

कर्णाघ्रिपृष्ठपुच्छस्थो गन्धर्वाङ्गेर्कनन्दने^१ ।

विभ्रमं भंगहानी च करोत्यश्वो महाहवे ॥ ५७८ ॥

चतुःकाष्ठास्थिता तस्य रिपवस्सन्ति शङ्किताः ।

अश्वाः सन्ति घना राज्ये यस्य क्षोण्यां सुलक्षणाः ॥ ५७९ ॥

नवभेदैर्लिखेच्चक्रं खड्गाकारं सधिष्ण्यकम् ।

वीरभादि समारभ्य त्रीणि त्रीणि च भान्यपि ॥ ५८० ॥

यव वक्त्रं ततो मुष्टिः पाली बन्धश्च धारकम् ।

खड्गं तीक्ष्णं क्रमाच्चेदं^२ नवभेदास्त्वमी स्मृताः ॥ ५८१ ॥

खड्गचक्रे यवादौ तु बन्धतः क्रूरखेचराः ।

रणे यत्र च दृश्यन्ते मृत्युस्तत्र भिया सह^३ ॥ ५८२ ॥

मिश्रैर्मिश्रफलं प्रोक्तं नवभेदैर्ग्रहैस्त्वसौ ।

अनेनैव प्रकारेण क्षुरीर्जयति भूपतिः^४ ॥ ५८३ ॥

जब शनि दोनों कान, दानों चरणा, पृष्ठ, पुच्छ इन स्थानों में हो तो महायुद्ध में विभ्रम, भंग, हानि इत्यादि होता है ॥५७८॥

जिन राजाओं के इस पृथ्वी पर बहुत से सुन्दर घोड़े हैं उनके शत्रु सर्वदा सशक्ति होकर शिविका इत्यादिक पर रहते हैं ॥५७९॥

नौ भेदों से युक्त नक्षत्रों के साथ खड्गाकार चक्र लिखें जिसमें वीरों के नक्षत्र के क्रम से तीन तीन नक्षत्र स्थापित करें ॥५८०॥

यव, वक्त्र, पाश, मुष्टि, पाली, बन्ध, धार, खड्ग, तीक्ष्ण इनके क्रम से नौ भेद होते हैं ॥५८१॥

खड्ग चक्र में यवादि में बन्ध से लेकर जहां पर पापग्रह हो वहां शत्रु के साथ मरण भी कहना चाहिये ॥५८२॥

मिश्र ग्रह से मिश्र फल अर्थात् शुभ अशुभ दोनों होता है इन नौ भेद के क्षुरी चक्र में ग्रहों के सम्बन्ध से राजा जय प्राप्त करते हैं ॥५८३॥

1. The ms reads गन्धर्व्याङ्गेर्कनन्दने which too gives no sense 2 फलेऽथ च क्रमादेवं for तीक्ष्णं खड्गं क्रमाच्चेदं A. 3. After this verse A & A¹ add: यवादौ यत्र सौम्यास्तु तदा लाभो महान् भवेत् । खड्गं धारोद्वयेऽग्ने च क्रूरैर्जयति भूपतिः । 4. चक्रं स्वयं बुधैः for जयति भूपतिः A.

इति खड्गधुरीचक्रे
अथ धनुर्बाणचक्रम् ।

लिखेदादौ धनुश्चक्रे गुणबाणसमन्विते ।
चन्द्रनक्षत्रतस्त्रीणि त्रीणि भानि क्रमेण च ॥ ५८४ ॥
बाणचापगुणानां च मूलमध्येऽर्द्धगानि च ।
धिष्ण्येषु यत्र वीरर्क्षं वक्ष्ये तत्र फलाफलम्^१ ॥ ५८५ ॥
शरमूल्ये भवेन्मृत्युर्मध्ये रोगः फले जयः ।
क्रमाद्गुणधनुर्मध्ये वाच्यौ भंगधनक्षयौ ५८६ ॥
गुणचापोर्द्धदेशेषु सल्लाभारिजयौ^२ ध्रुवौ ।
गुणचापयोरधोऽधःस्थे चाधोर्मृत्युर्बलक्षयः^३ ॥ ५८७ ॥
पापग्रहयुते वीरधिष्ण्ये पुंसः पलायनम् ।
जयलाभौ शुभे योगे चापचक्रे विचारितौ ॥ ५८८ ॥

पहले धनुर्ष चक्र में गुण बाण से युक्त चन्द्र नक्षत्र अर्थात् दिन नक्षत्र से तीन तीन नक्षत्र स्थापित करें ॥५८४॥

बाण, चाप, गुणों के मूल मध्य अन्त में दिन नक्षत्र से तीन तीन नक्षत्र लिखें उन में वीर का नक्षत्र जहां पर हो उससे शुभाशुभ फल समझें ॥५८५॥

बाण के मूल में वीर का नक्षत्र हो तो मृत्यु होती है, मध्य में हो तो रोग होता है ऊर्द्ध हो तो जय होता है, गुण के मध्य में हो तो भंग होता है और धनुष के मध्य में हो तो धन क्षय होता है ॥५८६॥

यदि गुण के ऊर्द्ध देश में वीर नक्षत्र हो तो लाभ और चाप के ऊर्द्ध देश में हो तो निश्चय ही शत्रु का जय होता है, गुण और चाप के नीचे भाग में हो तो क्रम से मृत्यु और सेना का क्षय होता है ॥५८७॥

वीर नक्षत्र यदि पाप ग्रह से युक्त हो तो वह भाग जाता है शुभ ग्रह का योग हो तो जय लाभ दोनों होते हैं ॥५८८॥

1. शुभाशुभम् for फलाफलम् A. 2. सल्लाभविजयौ for सल्लाभारिजयौ A. 3. For this line the ms reads कन्यौचविग्रहो मृत्युगणधौः स्थापितौः स्मृतौ ।

शुभक्रसमायोगे शुभाधिक्ये फलं वदेत् ।

विचार्य जयसंसिद्धयै निश्चयः क्रियते स्फुटम् ॥५८९॥

इति धनुश्चक्रम् ।

कुन्ताकारं लिखेच्चक्रं तीक्ष्णदण्डं सनाविकम्^१ ।

युधि घिण्ण्यादिमालोक्य क्रमान्नव नव त्रिघा^२ ॥५९०॥

नवके यत्र राजर्क्षं वच्मि तत्र शुभाशुभम् ।

मृत्युस्तीक्ष्णे जयं दण्डे नाविके च समं रणम् ॥५९१॥

इति कुन्तचक्रम् ।

अथ भूबलानि युद्धे कथ्यन्ते ।

चक्रे भास्करपत्राख्ये मेषाद्याः सव्यमार्गगाः^३ ।

वर्त्तमानोदयस्थानाद् भुक्तिः सार्द्धघटीद्वयम् ॥५९२॥

पृष्ठदक्षिणसंस्थेयं जयदा कथिता बुधैः ।

महामारीति विख्याता कथिता भटसागरे ॥५९३॥

औह जहाँ पर शुभग्रह अशुभग्रह दोनों का योग हो उसमें शुभा-
धिक्य हो तो जयसिद्धि होती है ऐसे फल का विचार करें ॥५८६॥

इति धनुश्चक्रम्

कुन्ताकार नाविक से युक्त तीक्ष्ण दण्ड चक्र लिखें उसमें युद्ध काल
में जो नक्षत्र हो उस नक्षत्र से नौ नौ नक्षत्र तीन जगह लिखें उस में
राजा का नक्षत्र जहाँ पर हो उस पर से शुभाशुभ का ज्ञान करें । यदि
तीक्ष्ण में राजा का नक्षत्र हो तो मृत्यु और दण्ड में हो तो जय और
नाविक में हो तो युद्ध में समान होता है ॥५९०॥५९१॥

इति कुन्तचक्रम्

अथ भूबलानि युद्धे कथ्यन्ते ।

द्वादश पत्रों के चक्र में मेषादि सव्य क्रम से वर्त्तमान उदय स्थान
से अढ़ाई अढ़ाई घटी की भुक्ति होती है ॥५९२॥

इसमें पृष्ठ और दक्षिण की संस्था जय देने वाली होती है इसको
भट सागर में महामारी कहते हैं ॥५९३॥

1. सनायकम् for सनाविकम् Bh. 2 This line is missing
in the ms. 3. सव्यमागता for सव्यमार्गगाः ms.

महामारीभूमिः ।

ईश्वरसमीरकोणपत्र^१ द्वीन्द्रोत्तरापरयमेषु ।

वायोरक्षस्यनिलये^२ चैत्राद्या उदिताः^३ क्रमात् ॥५९४॥

वटीचतुष्कसंभुक्ते रुद्रभूमिरियं परा ।

पृष्ठस्था दक्षिणस्था^४ च जयदा युधि भूभुजा^५ ॥१९५॥

रुद्रभूमिः^६ ।

विलोमे पूर्वतो मासाश्चैत्राद्या दिग् चतुष्टये ।

प्रहारवाममार्गेण मासगेहाच्च गण्यते ॥५९६॥

क्षेत्रपाली महाभूमिर्भूवलानां बलोत्तमा ।

चातुरङ्गे कवौ केन्द्रे^७ जयदा वृष्टिदक्षिणा ॥५९७॥

यद्बलाबलयुक्तानि भूबलान्यपराण्यपि ।

एतद्बलवियुक्तानि वृथा स्युश्चतुरशीत्यपि^८ ॥५९८॥

इति क्षेत्रपाली ।

इति महामारी भूमिः

ईशान, वायु, नैऋति, अग्नि, इन कोणों में तथा पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण इन दिशाओं में वायव्य कोण के क्रम से चैत्रादिक मास, चार चार घड़ी करके उदित रहते हैं इसको रुद्रभूमि कहते हैं। युद्ध में इस के पृष्ठ दक्षिण कर के यात्रा करें तो राजा को जय होता है ॥५९४-६५॥

इति रुद्रभूमिः

पूर्वादि चार दिशाओं में विलोम अर्थात् पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण के क्रम से चैत्रादि मास गणना करें, इसको क्षेत्रपाली महाभूमि कहते हैं, यह भूबलों में उत्तम बल है यदि शुक्र केन्द्र में हो और क्षेत्रपाली में पृष्ठ दक्षिण क्रम से यात्रा करें, तो जय होता है ॥५९६-५९७॥

यदि भूबलों के बल से युक्त भी हो परन्तु क्षेत्रपालीबल में यदि बलहीन हो तो चतुरशीति सेना से युक्त रहने पर भी वृथा परिश्रम होता है ॥५९८॥

इति क्षेत्रपाली

1. ंहोत्तरा for बहोन्द्रोत्तरा Bh. 2. ०रक्षस्यनले for रक्षस्य-निलये Bh. 3. उदयः A. A^१ 4. दक्षिणाङ्गस्था for दक्षिणस्था A. 5. भूभुजाम् for भूभुजा A., Bh. 6. इत्युडभूमिः for रुद्रभूमिः A. 7. कोहे for केन्द्रे A. 8. ०श्चतुरश्यहपि for ०श्चतुरशीत्यसि ms. स्युश्चतुरसी त्यपि Bh.

याति यत्र वपुश्छाया सूर्ये वहति दक्षिणे ।

उत्थातव्यं स खड्गेन तत्र मुख्यमरिं प्रति ॥ ॥५९९॥

जयत्येव महोत्साहादिन्द्रतुल्यं क्षितीश्वरम् ।

संमुखो^१ गृह्यते चन्द्रः पृष्ठतस्तु^२ दिवाकरः ॥६००॥

योगिनीवामतः कार्या^३ दक्षिणेऽपि^४ विधुन्तदः ।

ईदृशैर्भूवलैर्वीरः पृथ्वीं जयति संगरे ॥६०१॥

^५मर्त्यचक्रे नरं न्यस्य सर्वावयवसंयुतम् ।

येन चिन्तितमात्रेण क्रियते घातनिश्चयः ॥६०२॥

मुखैकं मस्तके त्रीणि पाणौ पादे चतुश्चतुः ।

हृदि पञ्च त्रिकं कण्ठेऽप्यभिजित्तत्र विन्यसेत् ॥६०३॥

कृत्वा घोऽय (?) मादौ तु मुखे मस्तकवामके ।

हस्तपादोदरे कण्ठे दक्षहस्तांघ्रिगणवे (?)^६ ॥६०४॥

दिन में सूर्य को दक्षिण करने पर जिधर शरीर की छाया जाय उधर ही मुख्य शत्रु के प्रति खड्ग लेकर उठना चाहिये ॥५९९॥

जो राजा चन्द्रमा को सम्मुख दक्षिण करके और सूर्य को पृष्ठ करके योगिनी को वाम कर युद्ध करने को जाते हैं वह इन्द्र तुल्य बड़े बलवान् राजा को भी जय करते हैं इस तरह भूबल से वीर युद्ध में पृथ्वी को जीत लेते हैं ॥६००-६०१॥

मूर्ति चक्र में मनुष्य को सब अवयवों के साथ लिख कर विचार करे जिस का विचार मात्र करने से घात का निश्चय होता है ॥६०२॥

मुख में एक मस्तक में तीन और दोनों हाथों में चार चार नक्षत्र, दोनों चरणों में चार चार, हृदय में पांच, कण्ठ में तीन नक्षत्र अभिजित् भी इस चक्र में न्यास करे ॥६०३॥

इस प्रकार मर्त्य चक्र का न्यास करके मुख, मस्तक, वाम हाथ, पाद, तथा उदर, कण्ठ, दक्षिण हस्त, पाद इत्यादि का विचार करे ॥६०४॥

1. संमुखे; for संमुखो A. 2. पृष्ठतस्तु for पृष्ठतस्तु A. 3. कुर्याद्; for कार्या; 4. दक्षिणो for दक्षिणे Bh. 5. मूर्ति for मर्त्य Bh. 6. This verse is missing in Bh.

यत्रागि सूर्य ^१ भौमाकिराहवो भगणे स्थिताः ।

घातस्तत्र ध्रुवं वाच्यश्चन्द्रयोगे विशेषतः ॥६०५॥

ग्रहभुक्त्यानुमानेन नवांशकक्रमेण च ।

प्रहारो जायते तत्र वक्त्रे तु द्विगुणो भवेत् ॥६०६॥

निजभेऽप्यर्द्धघातश्च पादोनो मित्रगे ग्रहे ।

उदासीनो भवेत्सन्धिद्विगुणः शत्रुभावतः ॥६०७॥

एकोऽप्यनेकघातांश्च करोति त्यक्तभूबलः ।

भूबलस्थे भटे क्रूराः स्थिता घातं न कुर्वते ॥६०८॥

यत्र स्थिते ग्रहे घातो यत्र स्थिते ग्रहे नहि ।

तत्फलं कथयिष्यामि ग्रहभूमिवशात्पुनः ॥६०९॥

^३क्रूराघातं न कुर्वन्ति पृष्टदक्षिणगा युधि ।

संमुखा वामगास्ते तु ^४ योधाङ्गे घातकारकाः ॥६१०॥

जिस अंग में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, भगणा में स्थित हो उसमें निश्चय घात होता है और चन्द्रमा के योग से विशेष रूप से होता है ॥६०५॥

ग्रह की भुक्ति के अनुमान से और नवांश के क्रम से प्रहार होता है और मुख में हो तो द्विगुण होता है ॥६०६॥

यदि अपने घर में हो तो भी आधा घात होता है, मित्र के घर में हो तो पादोन घात होता है, और सम के घर में हो तो दोनों में सन्धि होती है और शत्रु के भाव में हो तो द्विगुण घात करता है ॥६०७॥

यदि एक भी ग्रह भूबल से रहित हो तो अनेक प्रकार का घात होता है और भूबल में यदि क्रूर ग्रह हो तो घात नहीं होता है ॥६०८॥

जहां पर ग्रह रहने से घात होता है जहां पर रहने से नहीं होता है उस फल को ग्रह भूमि के वश से मैं कहता हूँ ॥६०९॥

पृष्ठ और दक्षिण में पापग्रह हो तो युद्ध में घात नहीं होता है और योद्धा के अंग में सम्मुख और वाम में पाप ग्रह हो तो घात करता है ॥६१०॥

1. सौमा for भौमा ms 2. भावा for भुक्त्या A. 3. क्रूरे for क्रूरा Bh. 4. हस्ते for स्तेतु A.

दक्षिणाङ्गताः क्रूराः सौम्या वामाङ्गमाश्रिताः^१ ।

शिरश्छेदे समुत्पन्ने रुण्डं धावति सम्मुखम् ॥६११॥

यस्य वामाङ्गगाः क्रूराः सौम्या यस्य च दक्षिणे^२ ।

भङ्गस्तस्य रणे सम्यग् यदि शूरो महामटः^३ ॥६१२॥

घातपरिज्ञानाय नरचक्रम् । इति सप्तमे युद्धप्रकरणं पञ्चमं सम्पूर्णम् ॥

युद्धानन्तरं सन्धिविग्रहप्रकरणमारभ्यते ।

लम्रेशसुहृदः केन्द्रे सन्धिं^४ कुर्वन्ति शोभनाः ।

शत्रवो विग्रहं क्रग घनेशसुहृदो^६ यदि^७ ॥६१३॥

शुभवर्गगताः सन्धिं सौम्ययोगेक्षितास्तथा ।

मूर्तिसप्तेश्वरारित्वे षष्ठारित्वे च विग्रहः ॥६१४॥

आपोक्लिमे^८ (?) नृलग्नस्थः प्रीत्यैव लग्नगः^९ शुभः ।

द्विदेहस्थैर्ग्रहैः सौम्यैः सन्धिः पापैस्तु विग्रहः ॥६१५॥

यदि दक्षिण अंग में पाप ग्रह हो और शुभ ग्रह वाम अंग में हो तो उसका शिर कट जाने पर भी रुण्ड आगे की दौड़ता है ॥६११॥

जिस के वाम अंग में पाप ग्रह हो, और दक्षिण अङ्ग में शुभ ग्रह हो तो महा बलवान् योद्धा होने पर भी युद्ध में उसका भंग होता है ॥६१२॥

घातपरिज्ञानाय नरचक्रम् : इति सप्तमे युद्धप्रकरणं पंचमं सम्पूर्णम् ॥ अथ युद्धानन्तरं सन्धिविग्रहप्रकरणं प्रारभ्यते ।

लम्रेश यदि केन्द्र में हो और शुभ ग्रहों के साथ मित्रता हो तो शत्रु सन्धि करे यदि सप्तमेश केन्द्र में हो और उसकी पापग्रहों के साथ मैत्री हो तो शत्रु विग्रह करता है ॥६१३॥

अदि लम्रेश, सप्तमेश दोनों शुभ ग्रह के वर्ग में हों और शुभग्रह से युक्त हों या देखे जाते हों तो दोनों में सन्धि होती है और लम्रेश, सप्तमेश को आपस में शत्रुता या षष्ठेश के साथ शत्रुता हो तो विग्रह होता है ॥६१४॥

आपोक्लिम में नर राशि हो, और शुभग्रह लग्न में हो तो प्रीति होती है, शुभग्रह यदि द्विःस्वभाव राशि में हो तो सन्धि होती है और पापग्रह यदि द्विः स्वभाव राशि में हो तो विग्रह होता है ॥६१५॥

1. संस्थिताः for ०माश्रिताः A.2. दक्षिणा for दक्षिणे A. 3. महामटः for महाभटः A. 4. लम्रेशः for लम्रेश ms. 5. सन्धि for सन्धिं ms. 6. ०शोऽसुहृदो for शसुहृदो ms. 7. यथा for यदि A. 8. आपोक्त्वलेम Bh. 9. लग्नहः for लग्नगः A.

लग्नं बलाधिके सन्धावर्थी भवति लग्नपः ।

अबले सप्तमे सन्धौ दाता भवति सप्तपः ॥६१६॥

विलम्बे^१ दुर्बले सन्धौ दाता भवति लग्नपः ।

सप्तमे सबले तत्र वित्तार्थी सप्तमो भवेत् ॥६१७॥

द्वयोः समतया साम्यं न दाता नच याचकः ।

बलोत्कटे वपुर्नाथे हन्यते सप्तमेश्वरः ॥६१८॥

पुत्रगेहे तदीशे वा सन्धानं सबले ध्रुवम् ।

द्वयेऽपि^२ सबले सन्धिर्विग्रहो विबले भवेत् ॥६१९॥

इति सन्धिविग्रहप्रकरणम् ।

वृक्षा ज्ञेया ग्रहैः सर्वैः पं वृक्षाः पं ग्रहैर्मताः ।

स्त्रीवृक्षाः स्त्रीग्रहैः प्रोक्ताः स्त्रीग्रहद्वितये लताः ॥६२०॥

रविश्चाकपलाशाद्या भौमाः कण्टकिनो मताः ।

क्षीरवृक्षा गुरावुक्ता बलाद्ये बलिनः स्मृताः ॥६२१॥

लग्न बलवान् हो तो लग्नेश सन्धि में अर्थी होता है, और सप्तम भाव बलवान् हो तो सप्तमेश सन्धि में दाता होता है ॥६१६॥

लग्न यदि निर्बल हो तो सन्धि में लग्नेश दाता होता है, और सप्तम भाव बलवान् हो तो सन्धि में सप्तमेश, धनार्थी होता है ॥६१७॥

और लग्नेश सप्तमेश, में दोनों का बल समान हो तो समता होती है । यदि लग्नेश बल में अधिक हो तो सप्तमेश को मारते है ॥६१८॥

यदि पञ्चम भाव या उसके स्वामी बलवान् हों तो दोनों की सेनाओं में बड़े जोर की तैयारी होती है । यदि दोनों के पञ्चमेश बलवान् हो तो सन्धि होती है और निर्बल हो तो विग्रह होता है ॥६१९॥

इति विग्रहप्रकरणम् ॥

सब ग्रहों से वृक्ष का ज्ञान करें । पुरुष ग्रह से पुं वृक्ष और स्त्री ग्रह से स्त्रीवृक्ष, और दो स्त्रीग्रहों से लता का ज्ञान करें ॥६२०॥

रवि से शाक, पलाश इत्यादि वृक्ष, मंगल से कांटे वाले वृक्ष और बृहस्पति से दूध वाले वृक्ष का ज्ञान होता है । इन ग्रहों के बलवान् होने से तत्तद्ग्रहों के वृक्ष भी बलवान् होते हैं ॥६२१॥

बुधे च शमी^१ कर्कण्डू शुक्रे च कदली मता ।
 चन्द्रे राजादनी वाच्या शनौ गुन्दीमुस्ताः पुनः ॥६२२॥
 बलयुक्तैर्बलाद्यास्तैर्वाबलैर्निष्फलाः पुनः ।
 भग्नाः शुष्काश्च ते सर्वे क्रूरयुक्तेक्षिता ग्रहैः ॥६२३॥
 अष्टमे च स्थिते स्थाने त्वष्टमेशे बलोत्कटे ।
 ऋतुकाले त्रियां नास्ति पुष्पं मूलत एव हि ॥६२४॥
 पूर्णबलः शनिस्त्वेकः कालिमानं वदत्ययम् ।
 ऋतौ सति च पुष्पस्य पृच्छालग्रेऽष्टमे स्थितः ॥६२५॥
 राहुरेको जलाभं तु माञ्जिष्ठाजलसन्निभम् ।
 बुधैर्विचित्रवर्णं तु कदाचित् कीदृशं पुनः ॥६२६॥
 श्वेतच्छायं स्थितः शुक्रो भौमे रक्तं तु पुष्पकम् ।
 कपिलं मर्कटं सूर्ये प्रवाहो धवलो विधौ ॥६२७॥

बुध से शमी और बदरी फल के पेड़, शुक्र से केला, चन्द्रमा से राजादनी और शनि से गुन्दी इत्यादिक वृत्तों के ज्ञान करें ॥६२२॥

यदि ये ग्रह बलवान् हों तो तत्तद्बृत्तों को बलवान् कहना चाहिये और जो ग्रह निर्बल हों उनके वृत्त निर्बल, और फलरहित होते हैं। और यदि ग्रह क्रूर ग्रह से युक्त हों या देखे जाय तो उनके वृत्तों को शुष्क, टूटा हुआ समझे ॥६२३॥

स्त्री के ऋतुकाल में बलवान् अष्टमेश यदि अष्टम भाव में स्थित हो तो वह पुष्पवती नहीं होती ॥६२४॥

ऋतु होने पर प्रथम काल में लग्न से अष्टम भाव में एक बलवान् शनि हो तो कुछ काला उसका पुष्प होता है ॥६२५॥

और एक राहु वा एक गुरु हो तो जल के समान और बुध हो तो अनेक वर्ण का होता है ॥६२६॥

शुक्र हो तो श्वेत वर्ण के समान और मंगल हो तो रक्त वर्ण सा और सूर्य हो तो कपिल, और मर्कट जैसा वर्ण, और चन्द्रमा हो तो श्वेत वर्ण होता है ॥६२७॥

1 शनौ for शमी Bh. 2 बलयुक्तैर्बलाद्यास्तै for बलयुक्तैर्बलाद्यास्तै A., बलयुक्तौ बलाद्यास्ते Bh.

ग्रहशून्येऽष्टमस्थाने स्वभावसहितं पुनः ।

मार्गं यान्त्याश्चले ^१खेटे पुष्पमायाति निश्चितम् ॥६२८॥

^२भौमरवी सदोष्णौ तु शीतमन्ये ग्रहाः पुनः ।

कटिवातं वदेद्राहुः^३ पीडाकरमहर्निशम् ॥६२९॥

योनिस्थाने स्थिता एतेऽप्येवं कुर्वन्ति योषिताम् ।

ग्रहभावानुसारेण ज्ञेयं पुष्पं महात्मभिः ॥६३०॥

इदमष्टमस्थाने प्रथमपुष्पप्रकरणम् । अथ दोषप्रकरणं सामान्यां
सानुभूतं चोच्यते ।

व्यये लग्नेऽष्टमे भानौ पीडकः क्षेत्रनायकः^४ ।

व्यये लग्ने रिषौ छिद्रे चन्द्रे ऽप्याकाशदेवता ॥६३१॥

यदि अष्टम स्थान में कोई ग्रह नहीं हो तो वह अपने वर्ग के समान ही होता है और अष्टम भाव में यदि चल ग्रह हो तो स्त्री को रास्ते में चलते चलते ही रजस्त्राव हो जाता है ॥६२८॥

मंगल, और रवि, सर्वदा उष्ण स्वभाव के ग्रह होते हैं और ग्रह शीत स्वभाव के होते हैं, राहु यदि अष्टम स्थान में हो तो कमर में बात के उपद्रव से रात दिन पीड़ा करता है ॥६२९॥

ये ग्रह योनिस्थान में स्थित हों तो स्त्रियों को इसी प्रकार करते हैं, ग्रहों के भावों के अनुसार पंडित पुष्पों को समझें ॥६३०॥

इदमष्टमस्थाने पुष्पप्रकरणम् ॥

अब दोषप्रकरण को कहते हैं ।

सूर्य यदि व्यय, लग्न, अष्टम, भावों में हो तो क्षेत्र पाल ही पीड़ा करने वाले होते हैं । और व्यय, लग्न, षष्ठ, अष्टम, इन भावों में चन्द्रमा हो तो आकाश देवता पीड़ा करते हैं ॥६३१॥

१. खेटे for खोट A., खेटा: Bh. २. भौमवीरं for भौमरवी A.
३. वदेबन्द्रे for वदेद्राहु: A. ४. ०पाल कः for ०नायकः A.

व्यये कर्मणि मृत्यौ च भौमे ^१शस्त्रहताश्च ये^२ ।
 एवं योगे ग्रहैर्जाति श्चाकिनीगोत्रपीडिकाः ॥६३२॥
 बुधो गुरुः सितः सौरी^३ राहुश्च व्ययसप्तमः^४ ।
 अरण्योत्तमदेवौ च ततोऽपि जलमातरः ॥६३३॥
 चण्डालाश्च क्रमाज्ज्ञेया दोषप्रश्ने हि पीडकाः ।
 अष्टमे खेचरैः क्रूरदोषश्च व्यभिचारकः^५ ॥६३४॥
 केन्द्रत्रिकोणगे दोषस्त्वष्टमे द्वादशेऽपि वा ।
 चन्द्रे देव्यो रवौ देवा भौमे स्वकुलगोत्रजाः ॥६३५॥
 बुधे विचित्रजो दोषः किं वा कामणसम्भवः ।
 गुरावामकृतो दोषः शुके शुककृतस्तथा ॥६३६॥

मंगल जिसके जन्म समय में व्यय, कर्म, और अष्टम, भाव में हो तो इस योग में वे जो शस्त्र से मरे हैं उनसे और शाकिनी के समूह से पीड़ित होते हैं ॥६३२॥

बुध, गुरु, शुक, शनि, राहु, ये व्यय, और सप्तम भाव में हों तो क्रम से अर्थात् बुध हो तो अरण्य देवता, गुरु हो तो उत्तम देवता, शुक हो तो जलमातृगया ॥६३३॥

शनि और राहु हो तो चाण्डालों से पीड़ित होते हैं ऐसे दोष का प्रश्न करने पर प्रश्न लग्न से इस स्थिति के अनुसार फल समझें और यदि अष्टम भाव में पापग्रह हो तो दोष का व्यभिचार होता है ॥६३४॥

केन्द्र, त्रिकोण में पापग्रह हो तो दोष होता है, वा अष्टम, द्वादश से भी दोष होता है । चन्द्रमा से देवी का उपग्रह, रवि में देवता का, मंगल में अपने वंशजों से कृत पीड़ा होती है ॥६३५॥

बुध से नाना प्रकार के दाष वा कर्म से उत्पन्न दोष होता है, गुरु से वामकृत दोष, शुक से वीर्यकृत दोष होता है ॥६३६॥

१. शत्रु० for शस्त्र A. २. ०हता भयं for ०हताश्च ये Bh. ३. सौरी for सौरी A. ४. The ms reads सौरिराहू च व्ययसप्तमे for सौरी...सप्तमः ५. दोषाः स्युरभिचारकाः for दोषश्च व्यभिचारकः A., Bh.

तदा कर्मणजो दोष एकः क्रूरो यदाष्टमे ।
 ग्रहद्वयं त्रयं वाच्यं तदाकाशपतिर्भवेत् ॥६३७॥
 यदा चतुर्षु केन्द्रेषु क्रूरग्रहा भवन्ति चेत् ।
 तदा दोषः सदा वाच्यो यावज्जीवं हि जन्मनाम् ॥६३८॥
 उच्चगेहे भवेदुच्चो नीचे नीचस्तु पीडकः ।
 निजक्षेत्रे बली वाच्यः शत्रुगेहेऽवलः पुनः ॥६३९॥
 पादो दोषो भवेत्केन्द्रे त्रिकोणेशद्वयं मतम् ।
 छिद्रेशत्रितयं दोषो विशत्यंशा व्यये पुनः^१ ॥६४०॥
 अस्तंगतोऽथवा नीचो ग्रहो दोषकरो यदि ।
 तदा दोषफलं नास्ति दोषपृच्छा सुनिश्चितम् ॥६४१॥

अथ प्रकारान्तरमाह—

अष्टमे द्वादशे सूर्ये^२ दोषः स्यात्क्षेत्रपालजः ।

^३यक्षोद्भवस्तथा सौरे गोत्रजायाश्च निर्दिशेत् ॥६४२॥

एक भी पापग्रह यदि अष्टम में हो तो कर्मसम्बन्धी दोष कहना चाहिये, यदि दो या तीन ग्रह हों तो आकाशजन्य उपद्रव होता है ॥६३७॥

जिसको जन्मकाल में चारों केन्द्रों में पापग्रह हों तो उसको यावज्जीवन दोष कहना चाहिये ॥६३८॥

उच्च में हों तो अच्छा ही होता है, और नीच में हों तो पीड़ा करने वाले होते हैं, अपने घर में ग्रह बलवान होते हैं, और शत्रु के घर में निर्बल होते हैं ॥६३९॥

केन्द्र में चतुर्थांश दोष होता है और त्रिकोण में दो भाग दोष होता है, अष्टम में तीन अंश दोष होता है और व्यय भाग बीस अंश दोष होता है ॥६४०॥

दोष प्रश्न में अस्त में गत ग्रह या नीच स्थित ग्रह दोषकारक हो तो दोष का फल निश्चय नहीं होता ॥६४१॥

अब प्रकारान्तर से कहते हैं

अष्टम और द्वादश में सूर्य हो तो क्षेत्रपालकृत दोष होता है, इन स्थानों में शनि हो तो यज्ञकृत तथा गोत्रजों से कृत दोष होता है ॥६४२॥

भौमे च शाकिनीदोषो दृष्टिदोषस्तथा^१ परैः^२ ।

बुधे च भूतजो दोषो जीवे पितृसमुद्भवः ॥६४३॥

दोषस्तु चन्द्रशुक्राम्यामाकाशजलमात्रतः^३ ।

उदयात्प्रहरौ द्वौ तु चन्द्रे^४ यान्त्यास्तु गच्छति ॥६४४॥

व्यावृत्तदेव्या दोषोऽयं चन्द्रे पराह्वगे भवेत् ।

नीचे चन्द्रे भवेन्नीचो दुस्साध्यो बलिपूजितैः ॥६४५॥

सौम्ये चन्द्रे शुभा देवी क्रूरा कृष्णार्द्रपक्षके ।

छिद्रे भौमस्थिते^५ सूर्ये स्वोच्चभावेऽपि तिष्ठति ॥६४६॥

रक्तबन्धे भ्रुवं जाते नाभ्याधस्तापमादिशेत् ।

उष्णवातादिपीडा स्यात् स्वोच्चभावेऽपि तिष्ठति ॥६४७॥

मंगल अष्टम में हो तो शाकिनीकृत दोष होता है तथा बहुत आचार्यों के मत से दृष्टि दोष होता है, और बुध हो तो भूत कृत दोष, बृहस्पति हो तो पितृ-कृत दोष होता है ॥६४३॥

यदि चन्द्रमा, शुक्र अष्टम में हों तो आकाश और जलकृत दोष होता है, उदय से दो प्रहर के अन्दर चन्द्रमा यदि अष्टम में हो तो वायु कृत दोष होता है ॥६४४॥

और दो प्रहर के बाद चन्द्रमा अष्टम में हो तो व्यावृत्त देवी के कोप से दोष होता है, यदि चन्द्रमा नीच में हो तो नीच होता है बलि पूजा से भी दुःसाध्य होता है ॥६४५॥

शुक्रपक्ष के चन्द्रमा शुभ कारक होते हैं और कृष्णपक्ष के चन्द्रमा क्रूर होते हैं । यदि मंगल अष्टम में हो सूर्य उच्च का होने पर भी रक्तबन्ध में नाभी के नीचे ताप होता है और गर्मी तथा वात इत्यादिक पीडा होती है, उच्च में रहने पर भी ये पीडा होती है ॥६४६-४४७॥

1. The portion beginning with ०स्तथा परैः and ending with परक्षेत्रे is missing in A A¹. 2. परः for परैः Bh. 3 ०काशे जलमात्रतः Bh. 4 वान्त्या for यान्त्या Bh. 5 तूर्वे for सूर्ये Bh.

रक्तबन्धे ध्रुवं जाते क्षेत्रपालानुभावतः ।

दिनान्ताः सर्वलग्नेषु षट् त्रिकेऽष्टादशे स्थिताः ॥६४८॥

उदये मध्यसन्ध्यायां क्षेत्रपालाः पृथक् पृथक् ।

अतिचारे^१ देवी गृह्णाति बालकं जवात् ॥ ६४९ ॥

स्थिरग्रहे स्थिरा ज्ञेया जलराशौ जलाश्रयाः ।

स्थिरे राशौ स्थलदेव्यश्ररराशौ नरो ध्रुवम् ॥ ६५० ॥

स्त्रीराशौ युवतीदोषः क्रूरक्रूरग्रहे पुनः ।

गोत्रदेव्या भवेदोषः शुक्रं वृषतुलाश्रिते ॥ ६५१ ॥

स्वपक्षे गोत्रजो दोषः परक्षेत्रं^३ परो मतः ।

शत्रुक्षेत्रे भवेच्छत्रुमित्रे स्वजनसम्भवः ।

क्षेत्रपालों के अनुभाव से दिनान्त में सब भावों में रहते हैं और उदय, मध्य सन्ध्या में क्षेत्रपाल पृथक्-पृथक् छठे, तीसरे, आठवें, दसवें भावों में क्रम से रहते हैं, इन स्थानों में यदि अतिचारी ग्रह हों तो देवी बालक को हठात् ग्रहण कर लेती है ॥६४८-६४९॥

स्थिर राशि में हो तो स्थिर जाने और जल राशि में जलाश्रय में और स्थिर राशि में स्थल देवी का दोष, चर राशि में नर का दोष जाने ॥६५०॥

स्त्री राशि में स्त्रीकृत दोष, और पाप गृह में पाप कृत दोष जाने यदि शुक्र वृष, तुला, में हो तो अपने गोत्र के देवी का उपद्रव जानना चाहिये ॥६५१॥

इस प्रकार अपने घर में हो तो स्वगोत्रकृत, और परक्षेत्र में हो तो परकृतदोष, शत्रु क्षेत्र में होने से शत्रुकृत, तथा मित्रक्षेत्र में हो तो स्वकीयबन्धुवर्गकृत, और उदासीन घर में हो तो उदासीन आदमी कृत दोष होता है ऐसा ही इसका निर्याय करें ॥६५२॥

1. Two syllables are wanting in ms. Bh. supplies गृहे । 2. नर for स्थिर Bh. 3. The mss A, A¹ begin from here.

उदासीनेप्युदासीनस्त्वेवं दोषस्य निर्णयः ॥ ६५२ ॥

इत्यष्टमस्थाने दोषप्रकरणम् ।

अथ जीवितमृत्युप्रकरणम् ।

लग्नेशोऽभ्युदितो लग्ने मृत्युपोऽस्तंगतः पुमान् ।

मृत्युप्रश्ने नरैर्वाच्यं रोगग्रस्तोऽपि जीवति ॥ ६५३ ॥

लग्नेशोऽभ्युदितः प्रश्ने लाभेशोऽपि शुभेक्षितः ।

अस्तंगतेऽष्टमाधीशे शस्त्राविद्धोऽपि जीवति ॥ ६५४ ॥

लग्नेशोऽभ्युदितः प्रश्नेऽभ्युदितो मृत्युपो बली^२ ।

षष्ठे वा छिद्रभावे वा चन्द्रे च म्रियते नरः ॥ ६५५ ॥

षष्ठे चन्द्रे व्यये क्रूरे सद्योऽपि म्रियते नरः ।

चन्द्रेऽष्टमे धने क्रूरः सद्यो मृत्युः सतां मतः ॥ ६५६ ॥

लग्ने रवौ धुने चन्द्रे सद्यो रोगः किलोदितः ।

अब जीवित मृत्यु प्रकरण कहते हैं ।

यदि मृत्यु प्रश्न में लग्नेश अभ्युदित होकर लग्न में और अष्टमेश, अस्त हो तो रोग ग्रस्त भी मनुष्य जीता है ॥६५३॥

प्रश्न काल में लग्नेश, अभ्युदित हो, लाभेश शुभ ग्रहों से देखे जाते हों, और अष्टमेश अस्त हो तो मनुष्य शस्त्र से आघात होने पर भी जीता है ॥६५४॥

प्रश्न काल में लग्नेश अभ्युदित हो और बलवान् अष्टमेश अभ्युदित होकर षष्ठ वा अष्टम में और चन्द्रमा भी इन दोनों भावों में हो तो मनुष्य मर जाता है ॥६५५॥

षष्ठ भाव में चन्द्रमा और व्यय में पाप ग्रह हो तो तभी मर जाता है, और चन्द्रमा अष्टम में हो, धन भाव में पाप ग्रह हो तो भी सद्यः मर जाता है ॥६५६॥

1. शुभोदितः for शुभेक्षितः A¹. 2. For this line A¹ reads लग्नेशोऽभ्युदितः प्रश्नेऽभ्युदितो मृत्युपो बली ।

लग्ने चन्द्रे धुने भानुः सद्यो मृत्युरसंशयम्^१ ॥ ६५७ ॥

मेषलग्नोदये प्राप्ते^२ वृश्चिकांशे त्वलीश्वरे ।

मेषेशचन्द्रसंयुक्ते तदा मृत्युः क्षणाद्भवेत् ॥ ६५८ ॥

लग्नपो मृत्युपश्चापि मृत्यौ स्यातामुभौ यदि ।

स्थितौ द्रेष्काण एकस्मिन् तदा मृत्युर्भवेदिह ॥ ६५९ ॥

लग्नपो मृत्युपश्चापि चन्द्रयुक्तौ बलोत्कटौ ।

द्वाविंशतितमे त्र्यंशे तदा मृत्युर्भवेत्पुनः ॥ ६६० ॥

यथा स्वामिनि गेहं स्वं याति चौरैर्न मुच्यते^४ ।

तथा लग्नं स्वके नाथे पश्यति म्रियते पुनः ॥ ६६१ ॥

यथा गेहपतिः स्वामी यात्येव पुरतो ध्रुवम् ।

तथा लग्नस्थिते नाथे जीवत्येव न संशयः ॥ ६६२ ॥

लग्न में रवि हो और सप्तम में चन्द्रमा हो तो बहुत शीघ्र रोग का उदय होता है, और लग्न में चन्द्रमा, सप्तम में रवि हो तो निश्चय सद्यः मर जाता है ॥६५७॥

प्रश्न काल में मेष लग्न हो और वृश्चिक का स्वामी (मंगल) वृश्चिक के नवमांश में हो और मंगल, चन्द्रमा से युक्त हो तो उसी क्षण उसकी मृत्यु होती है ॥६५८॥

लग्नेश और अष्टमेश दोनों मृत्यु भाव में एक ही द्रेष्काण में हों तो शीघ्र मृत्यु हो जाती है ॥६५९॥

लग्नेश, और अष्टमेश दोनों बलवान् होकर चन्द्रमा से युक्त हों, और वे दोनों जिस किसी राशि में बाईसवें त्रिंशंश में गत हों ता मृत्यु होती है ॥६६०॥

जैसे अपने स्वामी के घर में गया हुआ चौर नहीं छूटता वैसे जिसको प्रश्न काल में लग्नेश लग्न को देखे वह मर जाता है ॥६६१॥

जैसे घर के मालिक अपने ग्राम को अवश्य जाते हैं वैसे लग्नेश यदि लग्न में हो तो अवश्य ही जीते हैं इस में संशय नहीं ॥६६२॥

1. ०र्भवेदयम् for ०रसंशयम् A. 2. प्रश्ने for प्राप्ते Bh.
3. मेषांश for मेषेश Bh. 4. मुच्यते for मुच्यते Bh.

बन्धनं धरणं नौश्र फलेन सदृशं त्रयम् ।

म्रियते येन योगेन तेन योगेन मुच्यते ॥ ६६३ ॥

लग्नतुर्यसुधीर्हर्षलाभेशाः सततोदिताः ।

दैवादपि न मृत्युः स्याद्रोगाद्वा शस्त्रसंकटात् ॥ ६६४ ॥

जीवितमृत्युपृच्छायां लग्ने शुक्रो बली यदि

जीवत्येवं तदावश्यं शस्त्रैर्विद्धोऽपि मानवः ॥ ६६५ ॥

यदि पृच्छति मन्दोऽयं जीविष्यत्यथवा नहि ।

लग्नेशश्चेत्तदोदेति जीवत्येव तदा भुवम् ॥ ६६६ ॥

नन्दा षट् कृत्तिका भौमे भद्राश्लेषा बुधे सिते ।

धनिष्ठादिषट्कं रिक्ता मघामनुजया गुरौ ॥ ६६७ ॥

भरण्यां च शनौ वारे पूर्णा स्याद्द्वययोगतः ।

उत्पद्यते यदा रोगो म्रियते प्रेतयोगतः ॥ ६६८ ॥

इति छिद्रे जीवितमृत्यु प्रकरणम् ॥

मृत्यु, बन्धन, नौका का आगमनादि ये तीनों फल में समान हैं, रोग प्रश्न में जिस योग से मरता है, बन्धन प्रश्न में उस योग से छूटता है । नौका प्रश्न में नौका कुशल पूर्वक आती है ॥६६३

लग्नेश, चतुर्थेश, पञ्चमेश, हर्षेश, लाभेश ये सदादित हों तो उस को देव से, या रोग से, या शस्त्रादि संकटों से भी मृत्यु नहीं होती ॥६६४॥

जीवन, मरण के प्रश्न में लग्न में यदि बलवान् शुक्र हो तो शस्त्र से विद्ध भी मनुष्य अवश्य जीता है ॥ ६६५ ॥

यदि पूछे कि यह रोगी जीवेगा या नहीं उस में लग्नेश यदि उदित हो तो अवश्य जीवेगा ऐसा कहना चाहिये ॥६६६॥

यदि मंगल दिन नन्दा (१ । ६ । ११) तिथि और कृत्तिका से छः नक्षत्र हों, बुध और शुक्र दिन भद्रा (२ । ७ । १२) तिथि अश्लेषा नक्षत्र, बुधरूपति बार धनिष्ठादि छः नक्षत्र रिक्ता और मघा, (४ । ६ । १४) तिथि हो ॥ ६६७ ॥

और शानवार देवयोग से भरणी नक्षत्र, और पूर्णा (५ । १० । १५) तिथि हो जाय, तिथि नक्षत्र विशिष्ट इन दिनों में यदि रोग उत्पन्न हो तो प्रेत के योग से मनुष्य मर जाते हैं ॥६६८॥

अथ छिद्रे प्रवहणप्रकरणम्^१

कुशलागमनं पूर्वं लाभोऽपि व्यवहारतः ।

बुडनं वपनं चाथो नावि प्रश्नचतुष्टयी^३ ॥ ६६९ ॥

लग्नं पश्यति लग्नेशः छिद्रं छिद्रेश्वरो यदि ।

न बुडति तदा पोतो लाभो भवति चिन्तितः^४ ॥ ६७० ॥

लग्नपश्छिद्रपश्चापि सप्तमे यदि तिष्ठतः ।

तदा प्रवहणप्रश्ने भ्रवं वापनिका^५ भवेत् ॥ ६७१ ॥

अस्तं गतोऽपि लग्नेशो लग्ने तुर्ये तथाष्टमे ।

क्रास्तिष्ठन्ति पृच्छायां म्रियते पोतपस्तदा^६ ॥ ६७२ ॥

विलग्नं नैव लग्नेशश्छिद्रं छिद्रपतिर्नच ॥

पश्यतो यदि पृच्छासु तदासौ बुडति भ्रुवम्^७ ॥ ६७३ ॥

नौका पर गमन करने वालों का चार प्रश्न होता है, पहला कुशलागमन, दूसरा व्यवहार में लाभ, तीसरा पोत का बुडना, चौथा वपन अर्थात् वायु आदि से इधर उधर घूमते रहना ॥६६९॥

लग्नेश, यदि लग्न को देखे और अष्टमेश, अष्टम भाव को देखे तो पोत नहीं बूडती है और व्यवहार से लाभ होता है ॥६७०॥

लग्नेश, अष्टमेश, यदि सप्तम में हो तो प्रवहण के प्रश्न में अवश्य ही नौका भ्रमण कर रही है ऐसा कहना चाहिये ॥६७१॥

लग्नेश अस्त हो और पाप ग्रह लग्न, चतुर्थ, अष्टम, में हो तो पोत के मालिक अवश्य ही मर जाते है ॥६७२॥

प्रश्न काल में लग्नेश यदि लग्न को नहीं देखे और अष्टमेश, अष्टम स्थान को नहीं देखे तो पोत अवश्य ही बूडती है ॥६७३॥

1. पृच्छा for प्रवहण A. A^१. 2. लामे च for लाभोपि Bh.
3. चतुष्टयम् for चतुष्टयी A. 4. वित्ततः for चिन्तितः Bh.
5. वापनिकां वदेत् for वापनिका भवेत् A. 6. मृत्युः for म्रियते A.
7. पोतपते for पोतप० A. 8 पश्यति for पश्यतो Bh. 9. नौकानं for सौ बुडति A.

यदा छिद्रेशलमेशौ नीचे वा शत्रुवेश्मनि ।
 नीचगौ नवमस्थौ चेत् लाभो न व्यवहारतः ॥ ६७४ ॥
 लग्नं पश्यति लग्नेशः छिद्रे भवति वाग्पत्तिः ।
 व्यवहाराद् धनो लाभस्तरी प्रश्ने सतां मतः ॥ ६७५ ॥
 बलयुक्तो हि लग्नेशः छिद्रयुक्ते च भार्गवे ।
 अक्रराध्यासिते तत्राऽसंख्यो लाभो जलोद्भवः ॥ ६७६ ॥
 अष्टमे चन्द्रसंयुक्ते पृच्छालग्नौ बलोत्कटे ।
 परदेशीयवस्तुभ्यो लाभो भवति निश्चितः ॥ ६७७ ॥
 उच्चेऽष्टमे शुभैर्युक्ते मूललग्ने बलाश्रिते ।
 परदेशीयवस्तूनां लाभः शतगुणो भवेत् ॥ ६७८ ॥

इति प्रवहणप्रकरणं चतुर्थं सम्पूर्णम् ।

¹ बेडाप्रश्ने तनुर्वक्रं पद्मानं तुर्यकं स्मृतम् ।

सप्तशत्रुसुते लग्नं सुकाणमस्तभागम् ॥ ६७९ ॥

जब अष्टमेश और लग्नेश नीच में हों वा शत्रु के घर में हों वा दोनों नीच स्थित होकर नवम स्थान में हों तो व्यवहार से लाभ नहीं होता है ॥६७४॥

लग्नेश यदि लग्न को देखें और गुरु अष्टम स्थान में हो तो नौका के प्रश्न में व्यवहार से बहुत धन लाभ होता है ॥६७५॥

यदि लग्नेश बलवान् हो और शुक्र अष्टम स्थान में हो शुभप्रहों से सम्बन्ध हो तो जल से बहुत लाभ हो ॥६७६॥

प्रश्न लग्न में बलवान् चन्द्रमा अष्टम स्थान में हो तो परदेशीय वस्तु के व्यवहार से निश्चय लाभ होता है ॥६७७॥

शुभग्रह उच्च का होकर अष्टम भाव में हो, और लग्न बलवान् हो तो परदेशीय वस्तुओं का सौगुण्य लाभ होता है ॥६७८॥

इति प्रवहणप्रकरणां चतुर्थं सम्पूर्णम्

बेडा प्रश्न में लग्न को वक्र, चौथा को पद्मान, सातवां, छठां, पांचवां, लग्न को सुकाया ॥६७९॥

1. The portion beginning with बेडा and ending with इति प्रवहणपद्धतिस्ताजिकाभिप्राये is missing in A,

दशमं कूपकं ख्यातं तदेव पञ्जरं मतम् ।
 मध्ये मौलिक्यजङ्घायां बध्यन्ते जिनकाष्ठकम् ॥ ६८० ॥
 तत्रैव बध्यते कूपः सङ्गः पोतस्ततो भवेत् ।
 परबाणाग्रसंलग्नो हारिणीदोर उच्यते ॥ ६८१ ॥
 कुवारं छिद्रसंज्ञं च नवमं पुष्पसंज्ञकम् ।
 आयुरायुरिति ज्ञेयं द्वादशमन्त्यनामकम् ॥ ६८२ ॥
 पुण्याये सबले लाभाष्टमे दुष्टधनागमः ।
 यत्र क्रूराः क्षयस्तत्र सौम्या यत्र शुभं ततः ॥ ६८३ ॥
 इति प्रवहणपद्धतिस्ताजिकाभिप्राये ।
 आदित्याद्यैर्बलिभिभवन्ति पुंसां यथाक्रमं दीक्षाः ।
 १
 तापसायकपालिसौगतभगवद्यतिचरकजैनानाम् ॥ ६८४ ॥
 यावन्तो बलिनः खेटाः प्रव्रज्या तावतामपि ।
 एकभवेऽपि चैकस्य तावद्धेलाव्रतं भवेत् ॥ ६८५ ॥

दशवां को कूपक, तथा पञ्जर कल्पना करें, मध्य में मौलिक्य
 जंघा में जिनकाष्ठ को बांधते हैं ॥६८०॥

उस में पोत को बांधते हैं तब कूप से संग होता है पर बाणाग्र में
 लगा हुआ हारिणीदोर कहलाता है ॥६८१॥

आठवां कुवार तथा नवमां पुष्प संज्ञक, आयु स्थान को आयु,
 और द्वादश को अन्त्य कल्पना करके फल का विचार करें ॥६८२॥

यदि बलवान् ग्रह नवम एकादश भाव में हो तो धन का लाभ
 होता है और अष्टम, एकादश में हो तो दुष्ट से धन का लाभ होता है
 जहां पर पाप ग्रह हो वहां क्षय होता है और शुभग्रह जहां पर हो वहां
 शुभ होता है ॥६८३॥

सूर्यादि ग्रह बलवान् हो तो क्रम से मनुष्य दीक्षा, तापस, कपाली,
 मोक्ष, भगवान् यति, चरक, जैन, इन पक्षों को अवलम्बन करने वाले
 होते हैं ॥६८४॥

जितने बलवान् ग्रह प्रव्रज्यायोग कारक होते हैं उन के बल से
 फल का विचार करें । यदि एक ग्रह भी प्रव्रज्यायोग कारक हो तो उसी
 एक पक्ष का व्रत धारण करने वाला होता है ॥६८५॥

प्रव्रज्येशे विनष्टे तु व्रतं त्यजति मानवः ।

दीक्षेशे राहुयुक्ते तु व्रतगन्धोऽपि नो भवेत् ॥ ६८६ ॥

सबले सौम्यदृष्टे तु गुरुभक्तिर्दृढा मता ।

नीचेऽत्र क्रूरदृष्टे तु व्रतेन सह नश्यति ॥ ६८७ ॥

जन्मराशिपतिर्मन्दैर्दृष्टः शेषैर्न वीक्षितः ।

अबलो यस्य संजातो रोगादीक्षां दधाति सः ॥ ६८८ ॥

सौरिहीनाङ्गजन्मेशः केन्द्रे पश्यति सद्गलम् ।

यस्य स पुण्यसंत्यक्ता भोज्यार्थी कुरुते व्रतम् ॥ ६८९ ॥

चन्द्रं शुभांशकस्थं बलिनं स्वोच्चस्थितं तथा शेषान् ।

पश्यति बलिनि शनौ स्याज्जगदीशो दीक्षितः शान्तः ॥ ६९० ॥

एकगेहगतैः सर्वैर्जन्मेशो यत्र वीक्षितः ।

यदि प्रव्रज्या योगकारक नष्ट बल का हो तो मनुष्य अपने व्रत को त्याग कर देते हैं और वही दीक्षेश यदि राहु से युक्त हो तो मनुष्य को व्रत का स्पर्श भी नहीं रहता है ॥६८६॥

यदि प्रव्रज्या योग कारक सबल हों और शुभ ग्रहों से देखे जाते हों तो दृढ़ गुरु की भक्ति करने वाले होते हैं और वह यदि नीच में हो पाप ग्रहों से देखे जाते हों तो व्रत के साथ ही नष्ट हो जाते हैं ॥६८७॥

जिस का जन्म राशीश शनि से देखा जाय और शेष ग्रह उसको न देखें तो वह अबल हो जाता है इस लिये वह मनुष्य रोग के कारण दीक्षा को ग्रहण करते हैं ॥६८८॥

जिसको जन्म लग्नेश से रहित केन्द्र को बलवान् शनि देखे वह पुण्य से त्यक्त होकर केवल भोजन के लिये व्रत को धारण करता है ॥६८९॥

जिस को जन्म काल में उच्च का बलवान् चन्द्रमा शुभ ग्रहों के अंश में स्थित हो उसको और शेष ग्रहों को भी बलवान् शनि यदि देखे तो वह भगवान् का मन्त्र ग्रहण करता है और शान्त भी होता है ॥६९०॥

1. जन्माङ्गहीनेशः for हीनाङ्गजन्मेशः A. A¹ 2. संत्यक्तो for संत्यक्ता A. A¹, Bh. 3. शेषान् Bh.

तस्यावश्यं भवेदीक्षा त्वेवमुक्तं पुरातनैः ॥ ६९१ ॥

प्रकटितमुनियोगे राजयोगो यदि स्या-

दशुभफलविपाकं कर्म प्रोन्मूल्य पश्चात् ।

जनयति पृथिवीशं दीक्षितं साधुशीलं

प्रणतनृपशिरोभि घृष्टपादारविन्दम् ॥ ६९२ ॥

भाग्यग्रहोऽथ मूर्तौ स्यान्मूर्तिपो भाग्यवेश्मनि ।

दीक्षायोगो भवेदेको भाग्ये भाग्यग्रहो^१ यदि ॥ ६९३ ॥

लग्ने मूर्तिपातिर्जातो दीक्षायोगः परो भवेत् ।

विलग्नं लग्नपः पश्येद् गुरुं च गुरुपो यदि ॥ ६९४ ॥

दीक्षायोगो भवेदन्यो लग्ननाथो रुस्तथा^२ ।

गुरुनाथो विलग्नं चेद्दीक्षायोगश्चतुर्थकः ॥ ६९५ ॥

जिस का जन्म लग्नेश, एक राशि में स्थित सब ग्रहों से देखा जाय तो उस को अवश्य ही दीक्षा होगी ऐसा प्राचीनाचार्यों का मत है ॥६९१॥

इस प्रसिद्ध मुनि के योग में यदि राज योग भी हो जाय तो अशुभ फल के विपाक को हटा कर पीछे वे दीक्षित और साधुशील होकर राजा अर्थात् किसी बड़े स्थान के महन्त होते हैं और उनके चरणारविन्द नम्र राजाओं के शिर मुकुट से संवित होते हैं ॥६९२॥

जिस का जन्म में भाग्येश लग्न में हो, और लग्नेश भाग्य में हो तो एक दीक्षा योग हुआ ॥६९३॥

भाग्येश भाग्य में हों, और लग्नेश लग्न में हो तो द्वितीय दीक्षा योग हुआ, यदि लग्नेश लग्न को देखे और भाग्येश, भाग्य को देखे तो ॥६९४॥

तृतीय दीक्षा योग हुआ और यदि लग्नेश नवम भाव को देखे । नवमेश लग्न को देखे तो चतुर्थ दीक्षा योग हुआ ॥६९५॥

1. ग्रहो for ग्रहो A. 2. गुरुं शुभम् for गुरुस्तथा A, A¹

चतुःप्रभृतिभिः खेटै रेकगृहसमाश्रितैः ।

प्रव्रज्या जायते जन्तो रबलैर्मक्तिरेव हि ॥ ६९६ ॥

घत्ते धर्मे^१ धर्मभावमादित्ये कुरुते नहि ।

बुधशुक्रद्वये तत्र शाक्ते^२ बुध्यते विधिः ॥ ६९७ ॥

भौमे धर्मस्थिते पीडां प्रजानां कुरुते घनाम् ।

राहौ तत्र स्थिते कान्तामस्पर्शा रूपशालिनीम् ॥ ६९८ ॥

धर्मश्रद्धां नवा घत्ते पापकर्म करोति च ।

शनियुक्ते स्थिते राहावर्धधर्म करोति च ॥ ६९९ ॥

शनौ तत्र स्थिते जैनं मार्गमाश्रयतेऽखिलम् ।

रवौ राहौ च भौमे च ब्रह्महत्यां करिष्यति ॥ ७०० ॥

तुंगे शुभेक्षिते धर्मे स्वामियुक्ते बलाधिके ।

राजा भवति पुण्याढ्यो वर्णाश्रमविधौ गुरुः ॥ ७०१ ॥

चार प्रभृति के अर्थात् चार पांच इत्यादिक ग्रह यदि एक राशि में हों प्रव्रज्यायोग होता है, निर्बल ग्रह हों तो भक्तिमात्र होता है ॥६९६॥

धर्म स्थान में धर्म भाव का धारण करता है और सूर्य हो तो वह नहीं करता है और बुध शुक्र हो चन्द्रमा भी हो तो शाक्त होता है ॥६९७॥

धर्म स्थान में यदि मंगल हो तो वह प्रजाओं को बहुत पीड़ा करता है, यदि उस स्थान में राहु हो तो वह बहुत सुन्दरी स्त्री का अंग स्पर्श भी नहीं करता ॥६९८॥

और वह धर्म पर श्रद्धा भी नहीं करता है और पाप कर्म करता है, और शनि से युक्त राहु उस स्थान में हो तो आधा धर्म करता है ॥६९९॥

यदि उस स्थान में शनि हो तो जैन का ही मार्ग अवलम्बन करता है, और उस स्थान में यदि रवि, राहु मंगल, हो तो वह ब्रह्म हत्या करेगा ॥७००॥

यदि धर्मेश उच्च का बलवान् होकर धर्म स्थान में हो और शुभ ग्रहों से देखा जाता हो तो वे बड़े पुण्यवान् राजा होते हैं और वर्णाश्रम में श्रेष्ठ कहलाते हैं ॥७०१॥

सितयुक्ते शनौ तुंगे गुरुयुक्ते^१ विलोकिते ।

जायते धार्मिको राजा राजपूज्यो गुरुश्च वा ॥ ७०२ ॥

क्रियते केवलादर्शो दीक्षामिद्धि^२ प्रकाशकः ।

श्रीमद्देवेन्द्रशिष्येण श्रीहेमप्रभसूरिणा ॥ ७०३ ॥

इति भाग्यभवने प्रव्रज्याप्रकरणम् ॥

अथ दशमे पदप्रकरणम् ।

हर्षावस्थे^३ नभोनाथे तुङ्गादिस्थे शुभेक्षिते ।

चित्ते^४ केन्द्रत्रिकोणस्थे राज्यादिपदलब्धयः ॥ ७०४ ॥

मूर्तिपत्युच्चनाथेन स्वोच्चादिस्थेन वीक्षितः ।

ददात्येव पदावामि लग्ने लग्नेश्वरो यदि ॥ ७०५ ॥

यदि उच्च का शनि युक्त से वा बृहस्पति से युक्त हो वा देखा जाय तो वह धार्मिक राजा होता है, वा राजपूज्य गुरु होता है ॥७०२॥

श्रीमान् देवेन्द्र के शिष्य हेमप्रभसूरि ने इस त्रैलोक्य प्रकाश नाम के ग्रन्थ में दीक्षासिद्धि के प्रकाश करने वाले केवल आदर्श को किया ॥७०३॥

इति भाग्यभवने प्रव्रज्याप्रकरणम्

अथ दशमे पदप्रकरणम्

दशमेश उच्चादि में स्थित होकर हर्षस्थान में हो और शुभ ग्रहों से देखा जाता हो और धनेश, केन्द्र, त्रिकोण में हो तो राज्यादि पद का लाभ होता है ॥७०४॥

अष्टमेश, यदि अपने उच्च के स्वामी से और स्वोच्च स्थित ग्रह से देखा जाता हो इन योग में यदि लग्नेश, लग्न में हो तो पद की प्राप्ति होती है ॥७०५॥

-
1. युक्ता for युक्ते A. 2. ०र्शस्त्रैलोक्यस्य for ०र्शोदीक्षासिद्धि A.
3. हर्षावस्थानभोनाथे for हर्षावस्थे नभोनाथे ms. 4. चित्ते for चित्ते Bh,

स्थिरलग्ने पदावाप्तिः सौम्यस्वामियुतेक्षिते ।

तदोदिते च राज्येशे राज्यं भवति भूभुजाम् ॥ ७०६ ॥

इत्थमेव पदावाप्तिः सा त्वल्पा किन्तु वृश्चिके ।

स्थिरं पदं स्थिरैः प्रोक्तं द्वयङ्गैश्चापि शुभस्थितैः ॥ ७०७ ॥

क्रूरयोगे च वेधे च भवत्येव पदच्युतिः ।

चतुःपञ्चभिरुच्चादिकेन्द्रकोणगतैर्ग्रहैः ।

वाञ्छितैव पदावाप्तिर्देशवंशानुसारतः ॥ ७०८ ॥

सेनाधिपत्ययोगैश्च दुर्धराशुनफादिभिः ।

पदावाप्तिर्भवत्येव नच स्वल्पा विपर्यये ॥ ७०९ ॥

स्वोच्चं तनुः शुभः स्वोच्चात्पश्यत्युच्चपदार्पकः ।

द्वयाद्युच्चादिकेन्द्रादिस्थितदृष्टोदितस्तथा ॥ ७१० ॥

जन्म काल में स्थिर लग्न हो और वह अपने स्वामी तथा शुभ ग्रहों से युक्त तथा दृष्ट हो उस समय यदि राज्येश उदित हो तो राजाओं को राज्य होना है ॥७०६॥

इस प्रकार पद की प्राप्ति होती है यदि वृश्चिक लग्न हो तो अल्प रूप से पद की प्राप्ति होती है स्थिर राशि लग्न हो तो स्थिर पद होता है, द्विस्वभाव राशि हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो भी स्थिर पद होता है ॥७०७॥

यदि क्रूर ग्रहों का योग हो वा वेध हो तो पद की च्युति होती है ।

चार पांच ग्रह उच्चादि अर्थात् उच्च, स्वग्रह, मित्रादि उत्तम स्थानों में तथा केन्द्र, त्रिकोणा, में हों तो अपनी इच्छानुकूल, कुल देश के अनुसार पद की प्राप्ति होती है ॥ ७०८ ॥

दुर्धुरा, सुनफादि सेनाधिपत्य योग से पद की प्राप्ति होती है विपरीत होने पर नहीं होती ॥ ७०९ ॥

शुभ ग्रह लग्न में उच्च का हो और स्वोच्च स्थित शुभग्रहों से दृष्ट हो तो उच्च पद को देने वाला होता है एवं द्वयादि ग्रह उच्चादि अर्थात् उच्च, वर्गोत्तम, स्वग्रही, मित्रग्रही, इत्यादि होकर केन्द्र त्रिकोणा में स्थित हो और इसी तरह का बलशान् ग्रह से दृष्ट हो और उदित हो तो उच्च पद को देता है ॥ ७१० ॥

तुंगस्थो मूर्तिगः खेटः शेषैराद्यत्रिकोणगैः।

आकस्मिका पदावाप्तिरेवं स्तोका स्वगेहगैः ॥ ७११ ॥

प्रभुमेनं करोमीति प्रश्ने क्रूरग्रहो यदि ।

छिद्रे घने घने च स्याद्विनाशो वाञ्छितः प्रभो ॥ ७१२ ॥

वर्गोत्तमैः शुभैर्युक्ते शीर्षोदयस्वभावके ।

उच्चांशे स्वगृहांशे वा पदप्राप्तिर्न दुर्लभा ॥ ७१३ ॥

अन्योन्यधामगोलोकौ लग्नाधिपपदेश्वरौ ।

खे च चन्द्रनभोनाथे मूर्तीशाः स्युः पदार्पकाः ॥ ७१४ ॥

पदेशश्चेत्पदं पश्येत् पदं तदा स्थिरात्मकम् ।

मध्यपेशशुभै राज्यं पदभ्रंशो हि पापगे ॥ ७१५ ॥

मुथशिले नभोनाथे तत्र च सूर्यमिश्रिते ।

मकचूले महायोगे राज्यं भवति तत्क्षणात् ॥ ७१६ ॥

लग्न स्थित ग्रह उच्च का हों और शेष ग्रह पञ्चम में हो तो आकस्मिक पद की प्राप्ति होती है, यदि वे ग्रह अपने घर के हों तो छोटे पद की प्राप्ति होती है ॥ ७११ ॥

इसको मालिक बनायेंगे ऐसा प्रश्न करने पर यदि पाप ग्रह, अष्टम, सप्तम, द्वितीय, में हों तो उसकी इच्छासिद्धि नहीं होती ॥ ७१२ ॥

शुभग्रह अपने वर्गोत्तम में हों, शीर्षोदय राशि लग्न हो और वे ग्रह उच्चांश में या स्वगृही के अंश में हों तो पद की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है ॥ ७१३ ॥

लग्नश पद स्थान में हो पदेश लग्न में हो और चन्द्रमा, दशमेश लग्नश ये दशम भाव में हों तो पद को देने वाले होते हैं ॥ ७१४ ॥

पदेश यदि पद स्थान को देखे तो स्थिर पद कहना चाहिये । पदेश यदि शुभयुक्त हो तो राज्य होता है, पाप राशी में हो तो पद भ्रंश होता है ॥ ७१५ ॥

यदि दशमेश मुथशिल करता हो उस में सूर्य भी हो इस प्रकार मकचूल महायोग में उसी क्षण राज्य होता है ॥ ७१६ ॥

1. ०ग्रहों for ग्रहो A. 2. पदे for पदं ms. 3. मध्यमांश for मध्यपेश Bh. 4. भ्रंशः समापनैः for भ्रंशी हि पापगे Bh. 5. भूभुजाम् for तत्क्षणात् A.

उच्चयुक्तेषु केन्द्रेषु किंवा दृष्टयुतेषु च^१ ।

मकचूले महायोगे राज्यं भवति भूभुजाम् ॥ ७१७ ॥

उदयादशमं स्थानं मुख्यस्यामिप्रकाशकम् ।

ततश्च दशमं गेहं प्रतिहस्तः प्रकाशकृत् ॥ ७१८ ॥

इति मध्यताजिके पदप्रकरणं सम्पूर्णम् ।

दुष्कालकालज्ञानार्थं कौतुकार्थं च जन्मिनाम् ।

दृष्टिप्रकरणं वक्ष्ये नत्वा देवं जिनेश्वरम् ॥ ७१९ ॥

केन्द्रे च जलराशिस्थे सौम्यपक्षे सिते भ्रुवम् ।

मृत च जलराशिस्थे चन्द्रे वा स्याद्ब्रह्मदकम् ॥ ७२० ॥

लग्नाद् द्विके त्रिके वापि^३ जलराशिर्यदा भवेत् ।

जलखेटस्तु तत्रैव जलपातस्तदा भ्रुवम् ॥ ७२१ ॥

सब ग्रह उच्च के होकर केन्द्र में हों अथवा उच्च स्थित ग्रहों की दृष्टि से युक्त हों तो मकचूल महायोग में राजाओं को राज्य होता है ॥७१७॥

लग्न से दशम स्थान मुख्य स्वामी का प्रकाश करने वाला होता है । और उस से दशम स्थान प्रतिहस्त को प्रकाश करने वाला होता है ॥ ७१८ ॥

इति मध्यताजिके पदप्रकरणम्

अपने इष्ट जिनेश्वर देव को नमस्कार कर दुष्काल काल अर्थात् जिस समय वर्षा नहीं होने से अकाल कहलाता है उस समय के ज्ञान के लिये और शरीर धारियों के आनन्द के लिए वृष्टि प्रकरण को कहते हैं ॥ ७१६ ॥

जलचर राशि केन्द्र में हो, उस में शुभ ग्रह स्थित हो, शुक्र पक्ष में बहुत जल होता है वा ज । राशि लग्न हो उस में चन्द्रमा हो तो भी बहुत जल होता है ॥ ७२० ॥

लग्न से दूसरा, तीसरा, स्थान में जलचर राशि हो उस में चन्द्रमा आदि जल स्वभाव के ग्रह हों तो अवश्य ही वृष्टि होती है ॥ ७२१ ॥

१. दृष्टे शुभेषु वा for दृष्टयुतेषु च ms. २. वृष्टि for दृष्टि Bh.

३. तृतीये वा for त्रिके वापि A.

जललग्नं ग्रहैर्युक्तं सजलैर्जलदायकम्
 सजलैर्लग्नस्वेतैश्चाप्यंशस्थैर्वा घनं जलम् ॥ ७२२ ॥
 शुक्रपक्षे शशी दृष्टोऽथवा युक्तो यदाशुभैः ।
 लग्नस्थो जलराशिस्थः केन्द्रस्थो वा जलार्पकः ॥ ७२३ ॥
 चेत्कर्कमृगमीनाःस्यु केन्द्रस्थाः क्रूरवर्जिताः ।
 पूर्णेन्दुशुक्रदेवेज्यबुधैर्युक्ता बलान्विताः ॥ ७२४ ॥
 वृष्टिरेवविधे योगे वीतरागेण भाषिता ।
 लग्नात्तुर्ये^१ यदि स्थाने शुक्रेन्दुगुरुचन्द्रजाः ॥ ७२५ ॥
 एवंयोगे महावृष्ट्या शुभकालः सतां मतः ।
 कण्टकेऽप्यन्यलग्नेषु शुभलग्नेषु^२ सर्वतः ॥ ७२६ ॥
 पादोनवृष्टिरादेश्या क्रूरयुक्तेष्ववर्षणम् ।
 अन्ये च राशयः केन्द्रे शुष्कसाम्बुग्रहैर्युताः ॥ ७२७ ॥

जलचर राशि लग्न हो उस में जल स्वभाव के ग्रह हों तो जल होता है वा जल स्वभाव के ग्रह जलचर राशि के लग्न में हों वा उस के अंश में हों तो बहुत जल होता है ॥ ७२२ ॥

प्रश्न काल में जलचर राशि लग्न में वा केन्द्र में हो, उस में शुभग्रहों से दृष्ट वा युक्त शुक्रपक्ष के चन्द्रमा स्थित हों तो जल होता है ॥ ७२३ ॥

यदि कर्क, मकर, मीन, राशि केन्द्रों में हो और उन में पाप ग्रह नहीं हो तो और पूर्ण चन्द्रमा, शुक्र, बृहस्पति, बुध इन शुभ ग्रहों से युक्त हो तथा बल से युक्त हो ॥ ७२४ ॥

इस प्रकार के योग में वर्षा होती है यह मुनियों की उक्ति है यदि लग्न से चतुर्थ स्थान में शुक्र चन्द्रमा, गुरु, बुध हों तो ॥ ७२५ ॥

इस प्रकार के योग में बहुत वृष्टि होने के कारण शुभ काल होगा ऐसा सज्जनों का मत है । केन्द्र के और राशि अर्थात् सप्तम दशम, में शुभ ग्रहों का योग तथा दृष्टि हो तथा बल युक्त हो तो ॥ ७२६ ॥

पादोन वृष्टि कहनी चाहिये और क्रूर ग्रह का योग तथा कोई प्रकार का सम्बन्ध हो तो वृष्टि नहीं होती, और केन्द्रों में यदि जलचर से अन्य राशि हो उस में सजल तथा शुष्क ग्रह बैठे हो तो ॥ ७२७ ॥

1. लग्न तुयें for लग्नात्तुर्ये ms. 2. युक्तेषु for लग्नेषु A¹, Bh.

तदाद्भृष्टिरादेश्या सौम्यासौम्यप्रमाणतः ।

सजलराशयो लभे शुभाशुभग्रहैर्युताः ॥ ७२८ ॥

त्रिभागवृष्टिरादेश्या वृष्टिज्ञानविशारदैः ।

शुक्ललग्नगतैः क्रूरैर्वृष्टिरोधः प्रकीर्तितः ॥ ७२९ ॥

लग्नतस्तुर्यगे सौरे दुर्भिक्षं च सविग्रहम् ।

वृष्टिप्रश्ने कुजे मूर्तो विद्युत्पति चञ्चला ॥ ७३० ॥

घनगर्जनसंयुक्ता भवेद्वृष्टिर्गरीयसी ।

लग्ने शुक्रः कुजश्चन्द्रः शनिश्च मिलिता यदि ॥ ७३१ ॥

अतिवृष्टिस्तदादेश्या नानाचित्रकरी जने^२ ।

सवातकरका वृष्टिर्विद्युच्चलति सर्वतः ॥ ७३२ ॥

शनिनेन्दोर्विनाशित्वात् करकैर्वर्षणं घनम् ।

वृष्टियोगे चरे लग्ने वृष्टिर्द्रादिश यामकैः ॥ ७३३ ॥

शुभ अशुभ के प्रमाण से आधी वृष्टि कहनी चाहिये । जलचर राशि लग्न में हो और शुभाशुभ ग्रह से युक्त हो तो ॥ ७२८ ॥

त्रिभाग वृष्टि वर्षा के जानने वाले पंडितों को कहना चाहिये, और शुक्ल राशि लग्न हो उस में पाप ग्रह हो तो वर्षा नहीं होती है ॥ ७२९ ॥

लग्न से चतुर्थ स्थान में शनि हो तो विग्रह के साथ दुर्भिक्ष होता है, और वर्षा के प्रश्न में मंगल लग्न में हो तो विद्युत् बहुत चपलता के साथ चलती है ॥ ७३० ॥

और मेघों के बहुत गर्जन शब्दों के साथ वृष्टि होती है, यदि लग्न में शुक्र, मंगल, चन्द्रमा, शनि ये सब मिल कर स्थित हों तो ॥ ७३१ ॥

उक्त योग में बहुत वृष्टि होती है और करकापात होता है वायु बहुत चलती है । चारों तरफ से विद्युत् चलती है जिस से लोक विचित्र होते हैं ॥ ७३२ ॥

यदि चन्द्रमा से अष्टम स्थान में शनि हो तो करकापात के साथ वृष्टि होती है । यदि वृष्टि योग में चर लग्न में हो तो बाहर प्रहर तक वृष्टि होती है ॥ ७३३ ॥

1. सजला for सजल Bh. 2. जनैः for जने Bh. 1. नेन्दो for नेन्दो A. A¹, ०जेन्दु० Bh.

चरे लग्ने धने सौम्ये मासतो वृष्टिरुत्तमा ।

जललग्ने शुभैर्युक्ते सद्यो वृष्टिर्जलग्रहैः ॥ ७३४ ॥

वृष्टिप्रश्ने स्थिरे मूर्ता द्विर्द्वादशभिर्दिनैर्भवेत् ।

द्विस्वभावो यदा प्रश्नः षट्त्रिंशद्भिर्दिनैर्जलग्म् ॥ ७३५ ॥

पृच्छालग्नने चतुर्थस्थौ शनिराहू युतौ पुनः ।

दुर्भिक्षं च महाघोरं तत्र वर्षे ध्रुवं भवेत् ॥ ७३६ ॥

अत्र वर्षे दिशो भंगः कस्या अपि भविष्यति ।

कस्यां वा सस्यनिष्पत्तिरिति प्रश्ने कृते सति ॥ ७३७ ॥

चतुर्णामपि केन्द्राणां मध्ये यत्र शुभग्रहः ।

तस्यां च सस्यनिष्पत्तिः सुभिक्षं च प्रजायते ॥ ७३८ ॥

यस्यां दिशि शनिः पुष्टः क्रूरैरेव निरीक्षितः ।

दिशि तस्यां बुधैर्वाच्यं दुर्भिक्षं त्वीतिसम्भवम् ७३९ ॥

यदि वर्षा प्रश्न में चर लग्न हो, धनस्थान में शुभग्रह हो तो एक मास तक वृष्टि होती है और जलचर राशि लग्न हो उसमें शुभ ग्रह से युक्त जल स्वभाव के ग्रह हों तो सद्यः वृष्टि होती है ॥ ७३४ ॥

वर्षा प्रश्न में पूर्वयोग में यदि स्थिर राशि लग्न हो तो चौबीस दिन में, और द्विःस्वभाव राशि लग्न में हो तो छत्तीस दिन में वृष्टि होती है ॥ ७३५ ॥

प्रश्न लग्न में चतुर्थ स्थान में यदि शनि, राहू हों तो उस वर्ष में महाघोर दुर्भिक्ष होता है ॥ ७३६ ॥

इस वर्ष में कब किस दिशा का मंगल होगा और किस दिशा में धान्यादि होगा ऐसा प्रश्न करने पर ॥ ७३७ ॥

चारों केन्द्रों में जहां पर शुभ ग्रह हों वहां उस दिशा में धान्य की निष्पत्ति होगी और सुभिक्ष होगा ॥ ७३८ ॥

जिस दिशा में क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो कर पुष्ट शनि स्थित हो उस दिशा में ईति होने के कारण दुर्भिक्ष होगा ऐसा फल पंडित कहें। ईति का का लक्षण जैसे संहिता ग्रंथों में लिखा है "अतिवृष्टिरनावृष्टि मूषकाः शलभाः शुकाः ॥ प्रत्यासन्नाश्च राजानः षडैता ईतयः स्मृताः ॥ ७३६ ॥

दिशि यस्यां रविस्तस्यां धान्यनाशोऽतितापतः ।

यत्रापि मङ्गलः क्रूरः सस्यनाशोपि तापतः ॥ ७४० ॥

यस्यां दिशि शुभाः पुष्टाः समस्तबलगविताः ।

निष्पन्ना सा च विज्ञेया समस्ताःसस्यसम्पदः ॥ ७४१ ॥

अस्मदीये पुनः क्षेत्रे वृष्टिः शस्या^१ भविष्यति ।

एवं प्रश्ने बुधैश्चिन्त्यं लग्नं सव्योमतुर्यकम्^२ ॥ ७४२ ॥

लग्नस्य सबलत्वे च सस्याधिक्यं धनं स्मृतम् ।

चतुर्थस्य बलाधिक्ये क्षेत्रं सर्वं समृद्धिमत्^३ ॥ ७४३ ॥

कर्मणः सबलत्वेन शुभग्रहबलात् पुनः ।

सफलानि सुकर्माणि सस्योत्पत्तौ भवन्ति हि ॥ ७४४ ॥

चन्द्रशुक्रादितस्तुर्यं^४ महावृष्टिः प्रकीर्तिता ।

क्रूरैस्तत्राप्यनावृष्टिर्वक्तव्या हितमिच्छता ॥ ७४५ ॥

जिस दिशा में रवि हो उस दिशा में अन्यन्त ताप होने के कारण धान्य का नाश होता है, और जिस दिशा में मंगल हो उसमें भी अन्यन्त ताप से सस्य का नाश होता है ॥ ७४० ॥

जिस दिशा में शुभ ग्रह पुष्ट तथा समस्त बल से युक्त होकर स्थित हों उस दिशा में समस्त सस्य-सम्पत्ति की निष्पत्ति करनी चाहिये ॥ ७४१ ॥

हमारे यहां वर्षा तथा धान्यादि होगा या नहीं इस प्रश्न में पंडित लोग लग्न, चतुर्थ, दशम, भावों का विचार करें ॥ ७४२ ॥

लग्न को बलवान् होने से धान्य बहुत कहना चाहिये । चतुर्थ भाव बलवान् हो तो सब क्षेत्रों को सस्यादि से समृद्ध कहना चाहिये ॥ ७४३ ॥

कर्मस्थान के बल से तथा शुभ ग्रहों के बल से क्षेत्रों में सुन्दर फल तथा कर्मों से युक्त सस्यात्पत्ति होती है ॥ ७४४ ॥

चन्द्रमा शुक्र यदि चतुर्थ स्थान में हों तो महावृष्टि होती है । वहीं पर यदि पाप ग्रह हो तो अनावृष्टि होती है । हित की इच्छा करने वाले ऐसा कहें ॥ ७४५ ॥

1. भूया for शस्या A., Bh. 2. व्योमचतुर्थकम् Bh. 3. बलात्मके for बलात्पुनः A, A¹, Bh. 4. चतुर्थचन्द्रशुक्राद्यैः for चन्द्रशुक्रादि-स्तुर्यै A¹. 5. ऽमिच्छताम् for ऽमिच्छता A.

मूषकाः शलभा वृष्टौ तुलासिंहवृषोदये ।

मृगे मेषालिकुम्भेषु वायुवह्नी वृकादयः ॥ ७४६ ॥

युग्मे मीनधनुःस्त्रीषु शलभाः कृमिकर्त्तराः ।

कर्काख्या जलशीतेन रसौघः स्वामिदर्शनात्^१ ॥ ७४७ ॥

शालिजतैल^२गोधूमतिलाढकीमकुष्टकाः ।

मुद्गचणकमाषाश्च सकांगुः कोद्रवस्तथा ॥ ७४८ ॥

चटुला^४ इति चान्नानि द्वादशांशक्रमात्पुनः^५ ।

लग्नादेकैकलग्नेषु समसंख्यांशकैर्धृतः ॥ ७४९ ॥

स्त्रीयेशदृष्टयवस्थाभ्यां द्वादशांशोद्भवः स्फुटः ।

धान्योत्पत्त्यनुमानेन बुधैर्वाच्यं शुभाशुभम् ॥ ७५० ॥

यदि तुल, सिंह, वृष, लग्न हो तो मूषक तथा शलभ की वृष्टि होती है, और मकर, मेष, वृश्चिक, कुम्भ, इन लग्नों में वायु, अग्नि, वृक, आदि की वर्षा होती है ॥ ७४६ ॥

यदि मिथुन, मीन, धनु, कन्या, लग्न हो तो शलभ तथा कृमि इत्यादिक वृष्टि होती है । कर्क लग्न हो और वह अपने स्वामी से दृष्ट हो तो जल शीत से रस बहुत होते हैं ॥ ७४७ ॥

चावल, तेल, गोधूम, तिल, आढकी, मकुष्टक, मुद्ग, चणक, माष कंगु, कोद्रव, तन्दुल, प्रथमादि वारह द्वादशांशों को क्रम से लग्न गत होने से उसी क्रम से इन अन्नों की निष्पत्ति होती है और लग्न से एक एक राशि में लग्न संख्यक अंश-पर उसके स्वामी के योग तथा दृष्टि पर स्थित हों अन्नों की उत्पत्ति होती है यह स्पष्ट है, और धान्योत्पत्ति के अनुमान से पंडित लोग शुभाशुभ फल कहें ॥ ७४८-७५० ॥

1. सरकस्वाम्य० for रसौघः स्वामि० A. रसौघः स्वाम्य० Bh.
2. शालिजोनल for शालिजतैल A. शालयो तिल Bh. 3. सकंगु Bh.
4. तंदुला for चटुला Bh. 5. वदेत for पुनः A, A¹

विलगनादीतयश्चिन्त्या मण्डलैर्वृष्टिनिश्चयः ।

येन विज्ञातमात्रेण ज्ञायतेऽर्थः परिस्फुटम् ॥ ७५१ ॥

धनिष्ठारोहिणी ज्येष्ठानुराधा श्रवणं तथा ।

अभीचिरुत्तराषाढा भूमिमण्डलमुत्तमम् ॥ ७५२ ॥

भरणी कृत्तिका पुष्यो मघा च पूर्वफाल्गुनी ।

पूर्वभद्रपदा चेति तेजोऽभिख्यं विशाखया ॥ ७५३ ॥

उत्तराफाल्गुनीहस्तचित्रा स्वाती पुनर्वसु ।

अश्विनी च मृगश्चेति वातयन्त्रं चतुष्टयम् ॥ ७५४ ॥

सप्तरात्रान्महीतत्त्वं फलत्येव शुभं फलम् ।

जलतत्त्वं च मासेन शुभसौख्यफलप्रदम् ॥ ७५५ ॥

अग्न्याख्यमष्टभिर्मासैर्मासयुग्मेन मारुतः ।

अशुभं द्वौ फलं दत्ते वायुवह्नी महीभुजाम् ॥ ७५६ ॥

लम् से इति का विचार करना चाहिये और मण्डल से वृष्टि का निश्चय करें जिसको जानते ही सब वस्तु का ज्ञान हो जाता है ॥ ७५१ ॥

धनिष्ठा, रोहिणी, ज्येष्ठा, अनुराधा, श्रवण, और अभिजित्, उत्तराषाढा, ये भूमिमण्डल होते हैं ॥ ७५२ ॥

भरणी, कृत्तिका, पुष्य, मघा, पूर्वफाल्गुनी, पूर्वभाद्र, विशाखा, ये तेज मण्डल कहलाते हैं ॥ ७५३ ॥

पूर्वाषाढा, अश्लेषा, मूल, आर्द्रा, रेवती, उत्तराभाद्र ये जल-संज्ञक हैं। उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, पुनर्वसु, अश्विनी, मृगशिरा, ये चौथा वातमण्डल है ॥ ७५४ ॥

पृथ्वी तत्त्व सात राशि में शुभ फल देता है। जल तत्त्व एक मास में शुभ, सौख्य फल को देता है ॥ ७५५ ॥

अग्नि तत्त्व, आठ मास में, और वायु तत्त्व दो मास में ये दोनों अशुभ फल देते हैं ॥ ७५६ ॥

1. विज्ञान for विज्ञात A. 2. After this verse A¹ adds पूर्वाषाढा तथाश्लेषा मूलमार्द्रा च रेवती । उत्तरभद्रपर्यायसंज्ञं शत्रुभिषक् समम् ७५३ 3. चतुर्थकम् Bh.

उपशुद्धे नृपः सौख्यं हृष्टा भूमिर्न चेतयः ।
 निर्भया मुदिता लोका उत्पाते भूमिमण्डले ॥ ७५७ ॥
 बहुदुग्धयुता गावो बहुपुष्पफला द्रुमाः ।
 आरोग्यं जायते भूमावुत्पाते जलतत्त्वजे ॥ ७५८ ॥
 धनक्षयो भयं घोरं पीडारोगोऽल्पनीरता ।
 अग्न्याह्मण्डलोत्पाते फलदुग्धादितुच्छता ॥ ७५९ ॥
 आग्नेये पीडयते याम्या वायव्ये पुनरुत्तरा ।
 वारुणे पश्चिमा सौख्यं पूर्वा माहेन्द्रमण्डले ॥ ७६० ॥
 मीनसंक्रान्तिकाले च पौष्ण्यभोग्ये दिने यदि ।
 यत्र विद्युत् शुभो वातस्तत्र गर्भो ध्रुवो मतः ॥ ७६१ ॥
 मेषसंक्रान्तिकालात् नवस्वपि दिनेष्वपि ।
 यत्राभ्रं वातविद्युत्स्याद्देवेन्द्रस्तत्र वर्षति ॥ ७६२ ॥

यदि भूमि मण्डल में उत्पात हो तो राजा प्रसन्न भूमि को सौख्य पूर्वक उपभोग करते हैं और ईति का उपद्रव नहीं होता है और लोक सब प्रसन्न और निर्भय रहते हैं ॥ ७५७ ॥

जल तत्त्व में उत्पात होने से गौ बहुत दुग्धवती होती है और वृक्ष बहुत फल पुष्प से संयुक्त होते हैं । आरोग्य पूर्वक सब रहते हैं ॥ ७५८ ॥

अग्निमण्डल में उत्पात हो तो धनक्षय, भय, बहुत पीड़ा, रोग, स्वल्प जल और फल, दुग्धादि में अल्पता होती है ॥ ७५९ ॥

आग्नेय मण्डल में दक्षिण दिशा में पीड़ा होती है, वायव्य मण्डल में उत्तर दिशा में पीड़ा होती है और जल मण्डल में पश्चिम दिशा में सौख्य होता है और माहेन्द्र मण्डल में पूर्व दिशा में सौख्य होता है ॥ ७६० ॥

मीन संक्रांति काल में उस दिन में रेवती नक्षत्र हो, उस में जहां पर विद्युत् और शुभ वायु बहे तो वहां निश्चय गर्भ समझना चाहिये ॥ ७६१ ॥

मेष संक्रांति काल से नौ दिनों में जहां पर, बादल, वायु, विद्युत् हो वहां पर इन्द्र वर्षा करते हैं ॥ ७६२ ॥

किं वा नवसु यामेषु विद्युद्वाताभ्रदर्शनम्^१ ।
 यस्यां दिशि च सम्पूर्णं तद्दिने तत्र वर्षति ॥ ७६३ ॥
 चैत्रमासे मेषसंक्रान्तिदिने यामविद्धिरपि कालनिष्पत्तिज्ञानम् ।
 आषाढीतः कालनिष्पत्तिज्ञानं फथ्यते ॥
 आषाढ्या घटिकाषष्ठ्या मासद्वादशनिर्णयः ॥
 द्वादश पञ्चका षष्टिरित्येवं क्रममादिशेत् ॥ ७६४ ॥
 पञ्चनाडी भवेन्मासे^२ मासि मासि फलं पृथक् ।
 यत्र नाड्यां शुभो वातो विद्युद्भ्राणि गर्जनम् ॥ ७६५ ॥
 तत्र मासे भवेद्दृष्टिरिदं कालनिरीक्षणम् ॥
 पूर्णमास्यां विनष्टायां विनष्टं वर्षमादिशेत् ॥ ७६६ ॥

अथवा मेष संक्रान्ति काल से नौ प्रहरों में जिस दिशा में विद्युत्, वायु, बादल, सम्पूर्ण दिखाई दें तो उस दिशा में उस दिन वर्षा होती है ॥ ७६३ ॥

ऐसा चैत्र मास में मेष संक्रान्ति दिन याम को भी जानने वाले काल निष्पत्ति का ज्ञान करें ।

अब आषाढी पूर्णिमा पर से कालनिष्पत्ति ज्ञान को कहते हैं ।

आषाढी पूर्णिमा के साठ घटी से द्वादश मासों का निर्णय करें । अब साठ घटी को द्वादश भाग करने पर पांच पांच घटी का एक भाग हुआ इसी के क्रम से फल का आदेश करें ॥ ७६४ ॥

पांच, पांच, नाड़ी का एक एक मास हुआ इस से मास मास का फल पृथक् होता है, जिस मास की नाड़ी में सुन्दर वायु, विद्युत्, बादल, तथा उसका गर्जन हो ॥ ७६५ ॥

उस मास में वर्षा होगी यही काल का निरीक्षण है । पूर्णिमा यदि नष्ट हो जाय अर्थात् पूर्णिमा में बादल, वायु इत्यादिक नहीं हो तो उस वर्ष को नष्ट ही समझना चाहिये ॥ ७६६ ॥

1. वाताभ्रादि शुभं बहु for विद्युद्वाताभ्रदर्शनम् A. 2. भवेन्मासो for भवेन्मासे A.

चलत्यङ्गारके वृष्टिरुदये च बृहस्पती ।

शुक्रस्यास्तमने वृष्टिर्वक्रं याते शनैश्चरे ॥ ७६७ ॥

उदयास्तमने चारे वक्रं याते शनैश्चरे ।

जलनाडिगताः खेटाः महावृष्टिकरा मताः ॥ ७६८ ॥

भृगुतः सप्तमश्चन्द्रः शुभदृष्टश्च वृष्टिदः ।

त्रिकोणस्मरगो वापि शनिः प्रावृषि कीर्तितः ॥ ७६९ ॥

त्रिपूर्वमूलपैत्र्यग्निरग्रयोगाः षडेव हि ।

अश्विनीयाम्यकर्णाश्च धनिष्ठा मैत्र रेवती ॥ ७७० ॥

पुष्यो मृगकरश्चित्रा पृष्टयोगा दश स्मृताः ।

एतानि दुरतिक्रम्य भुंक्ते वारे सदैव हि ॥ ७७१ ॥

मंगल के संचार में वर्षा होती है. और बृहस्पति के उदय होने पर तथा शुक्र के अस्त होने से, तथा शनि को वक्री होने पर वर्षा होती है ॥ ७६७ ॥

इस प्रकार ग्रहों के उदय अस्त, चार तथा शनि के वक्री होने पर जो वर्षा का योग कहा गया है उस में यदि आपाढी में नाड़ी के बल से जो वर्षा का योग कहा गया है उन दोनों का यदि एक काल में योग हो तो महावृष्टि होती है ॥ ७६८ ॥

शुक्र से सप्तम में चन्द्रमा हो और शुभ ग्रहों से देखा जाय तो वर्षा होती है वा, नवम, पञ्चम, या, सप्तम, में शनि हो तो वर्षा होती है ॥ ७६९ ॥

पूर्वफल्गुनी, पूर्वाषाढ़, पूर्वभाद्र, मूल, मघा, कृत्तिका, ये अग्नि योग है, अश्विनी, भरणी, श्रवणा, धनिष्ठा, अनुराधा, रेवती, पुष्य, मृगशिरा, हस्त, चित्रा, ये दश नक्षत्र पृष्ठ योग हैं, इन नक्षत्रों को चन्द्रमा दिन में सर्वदा क्रम से भोग करते हैं ॥ ७७०, ७७१ ॥

1 शनीश्चरे Bh. 2. वारे for चारे ms. चरे Bh. 3. शनैः for शनिः A., Bh. 4. मैत्र्य for मैत्र A. 5. वा for वारे Bh.

आर्द्राश्लेषाश्विनीज्येष्ठाभिजित्वाष्टं च वारुणम् ।
 एतानि समयोगानि त्वेककालानि चेन्दुना ॥ ७७२ ॥
 पूर्वाषाढात्समारभ्य ज्येष्ठा राकातिथेः परम् ।
 कृष्णपक्षाद्यकाले चेद् वर्षत्युभययोगिषु ॥ ७७३ ॥
 तदा त्रिकालधान्यानामुत्पत्तिस्तु घना भवेत् ॥
 मासचतुष्टयं वृष्टिर्जातव्या वृष्टिवेदिभिः ॥ ७७४ ॥
 अग्न्यायोगिषु धिष्ण्येषु पुरोधान्यं घनं स्मृतम् ।
 पृष्टयोगिषु वृष्टौ तु स्वल्पधान्यं नवा पुनः ७७५ ॥
 युज्यमानः शुभैश्चन्द्रः सुभिक्षं कुरुते घनम् ।
 चन्द्रयोगानुमानेन धान्यवृष्टी घनाघने ॥ ७७६ ॥
 इति दशमभावे वृष्टिप्रकरणं द्वितीयम् ।

और शेष आर्द्रा, अश्लेषा, रोहिणी, पुनर्वसु, तीनों उत्तर, स्वाती, विशाखा, अभिजित, शतभिषा, ज्येष्ठा, ये नक्षत्र समयोग के हैं ॥ ७७२ ॥

ज्येष्ठ, पूर्णिमा के बाद पूर्वाषाढा से लेकर कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा में उभय योग में यदि वर्षा हो ॥ ७७३ ॥

तो प्रोष्म वर्षा, शरद, तीनों ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले धान्यों की उत्पत्ति होती है और चार मास तक वर्षा भी होती है ॥ ७७४ ॥

अम्र योग के नक्षत्र में वर्षा होने से आगे बहुत धान्य होते हैं, और पृष्ठ योग में स्वल्प धान्य होता है वा नहीं भी होता ॥ ७७५ ॥

चन्द्रमा शुभ ग्रह से युक्त हो तो बहुत सुभिक्ष होता है, इस प्रकार चन्द्रमा के योग के अनुमान से धान्य, तथा वर्षा का भी फलादेश करें ॥ ७७६ ॥

इति दशमभावे वृष्टिप्रकरणं द्वितीयम् ॥

अर्चकाण्डं प्रवक्ष्यामि लग्नान् गुरूपदेशतः ।
 यथादृष्टं यथाभूतमुपकाराय धीमताम् ॥ ७७७ ॥
 क्रेता लग्नपतिर्ज्ञेयो विक्रेतायपतिः स्मृतः ।
 गृह्णाम्यहमिदं वस्तु सति प्रश्ने ह्यमूदृशि ॥ ७७८ ॥
 बलाढ्यं प्रश्नलग्नं चेद् गृह्यते तत् क्रयाणकम् ।
 तस्मात्क्रयाणकाल्हाभः सतां भवति संमतः ॥ ७७९ ॥
 विक्रीणाम्यमुकं वस्तु प्रश्ने एवंविधे सति ।
 आयस्थाने चलति विक्रेतव्यं क्रयाणकम् ॥ ७८० ॥
 विक्रेता लग्नपो ज्ञेयो ग्राहकस्त्वस्तभावपः ।
 यो यस्य स्थानगः सोऽर्थी स दृग्योगे तयोः शुभम् ॥ ७८१ ॥
 लग्नेशः स्वोच्चगेहादौ विक्रेता द्रविणेश्वरः ।
 एवंविधे तु जायेशं ग्राहकोऽपि धनेश्वरः ॥ ७८२ ॥

अब लग्न से गुरु के उपदेश के अनुसार बुद्धिमानों के उपकार के लिये जैसा मैं ने देखा, तथा अनुभव किया वैसे ही अर्चकाण्ड को मैं कहता हूँ ॥ ७७७ ॥

ऐसे इस वस्तु को खरीदूंगा इस प्रश्न में लग्नेश को क्रेता, तथा आयेश को विक्रेता समझ कर विचार करें ॥ ७७८ ॥

यदि प्रश्न लग्न बलवान् हो उस समय में जो वस्तु खरीद करे तो उस से अवश्य ही लाभ होगा ऐसा सज्जनों का मत है ॥ ७७९ ॥

इस वस्तु को बेचूंगा इस प्रश्न में यदि लाभेश, बलवान् हो तो उसको बेच लें ॥ ७८० ॥

लग्नेश को विक्रेता सप्तमेश को ग्रह का समझ कर ये जिस के भाव में हों वह याचक होता है और दृष्टि योग होने से दोनों को शुभ होता है ॥ ७८१ ॥

लग्नेश यदि अपने उच्चादि स्थित हो तो विक्रेता बहुत धनी होता है, इस प्रकार सप्तमेश यदि उच्चादि में हो तो ग्राहक धनेश्वर होता है ॥ ७८२ ॥

समर्घ वा महर्घ वा कदा धान्यं भविष्यति ।
 इति प्रश्ने शुभेष्टे शुभयुक्ते बलाधिके ॥ ७८३ ॥
 समर्घ सबले लग्ने महर्घमबले पुनः ।
 क्रेता चेत्स्वगृहं पुष्टं पश्यति सबलं शुभः ॥ ७८४ ॥
 तदा धान्यं समर्घं स्याच्छुभकालः प्रवर्तते ।
 धनस्थानेश्वरे दुष्टे महर्घं स्यात्कणादिकम् ॥ ७८५ ॥
 सबले लाभनाथेऽपि महर्घं स्यात्कणादिकम् ।
 अबले तत्र लाभेशे महर्घं तु वदेत्सुधीः ॥ ७८६ ॥
 येन ग्रहेण लग्नस्य शुभत्वं प्रतिपद्यते ।
 क्रमाद् ग्रहः ससंचार्यो धर्मादिसर्वाशिषु ॥ ६८७ ॥
 यावद्वाशौ शुभः स स्यात्तावन्मासान् समर्घता ।
 यावत्कालं भवेद्दुष्टस्तावत्कालं महर्घता ॥ ७८८ ॥

कब धान्य, समर्घ, वा महर्घ होगा इस प्रश्न में लग्न में शुभ ग्रहों का योग तथा दृष्टि हो और बलवान् हो तो समर्घ होता है ॥ ७८३ ॥

सबल लग्न में समर्घ होता है और निर्बल लग्न में महर्घ होता है । यदि क्रेता अपने सबल तथा पुष्ट घर को देखे तो शुभ होता है ॥ ७८४ ॥

और धान्य समर्घ तथा शुभ काल होता है, यदि धनेश दुष्ट हो तो कणादिक महर्घ होता है ॥ ७८५ ॥

लाभेश के सबल रहने पर भी कणादिक महर्घ होता है और लाभेश निर्बल हो तो भी महर्घ होता है ॥ ७८६ ॥

जिन ग्रहों के योग से लग्न को शुभ कहा गया है उन ग्रहों को क्रम से धर्मादि भावों में संचारित करके विचार करें ॥ ७८७ ॥

वह ग्रह जितने राशिपर्यन्त शुभ हों उतने मासों तक समर्घ होता है और जितने काल तक दुष्ट हों उतने कालों तक महर्घता होती है ॥ ७८८ ॥

ज्ञातव्या दिवसैर्मासा मासैस्तावद्भिरस्य हि ।

समर्धता वस्तुनो हि प्रतिपाद्या विचक्षणैः ॥७८९॥

प्रकारान्तरेणार्धरहस्यमाह —

शुक्लपक्षे द्वितीयायां भानोर्बामोदयः शशी ।

तस्मिन् मासे समर्ध स्यान्महर्ध दक्षिणोदये ॥७९०

बृहदृशेषु जायन्ते यदि द्वादश संक्रमाः ।

तत्र वर्षे समग्रोऽपि शुभः कालो भवेद् ध्रुवम् ॥७९१॥

अमावास्यां यदा चन्द्रोऽप्युदयास्तं करोति चेत् ।

महदृशे तदा मासे भवेन्नूनं समर्धता ॥७९२॥

बृहस्पतौ बृहदृशे राशिगामिनि सद्बले ।

मासास्त्रयोदश तदा समर्ध जायते भुवि ॥७९३॥

दिन से मास जानें अर्थात् जितने दिनों तक वह ग्रह शुभ अशुभ रहे क्रम से उतने मास पर्यन्त वस्तुओं को समर्ध और महर्ध कहना चाहिये ॥ ७८६ ॥

प्रकारान्तर से समर्ध और महर्ध को कहते हैं -

शुक्ल पक्ष की द्वितीया में सूर्य से चन्द्रमा का वामोदय हो तो उस मास में समर्ध होता है । दक्षिणोदय में महर्ध होता है ॥ ७९० ॥

बृहत्संज्ञक अर्थात् रोहिणी, उत्तरफल्गुनी, उत्तराषाढ, उत्तराभाद्र, विशाखा, पुनर्वसु, नक्षत्रों में वारह राशियों की सूर्य की संक्रांति हो तो सम्पूर्ण वर्ष शुभ काल होता है ॥ ७९१ ॥

अमावास्या में बृहन्नक्षत्र में यदि चन्द्रमा का उदय अस्त हो तो उस मास में समर्ध होता है ॥ ७९२ ॥

बृहत्संज्ञक नक्षत्र में बृहस्पति किसी राशि का संचार करें तो पृथ्वी में तेरह मास पर्यन्त समर्ध होता है ॥ ७९३ ॥

1. A. adds after this verse the following:

बृहत्सुधान्यं कुर्वते समर्धं त्रघन्यं धिषण्याभ्युदिते महर्धम् ।

समेपु धिषण्येषु समं हिमाशोर्वेदन्यसन्दिग्धमिदं महान्तः ॥

2 The verse is missing in Bh.

ऊर्ध्वसंक्रमणे मित्रे शुभयुक्ते च पूर्वकात् ।

त्रिवारे तुर्यगे धिष्ये बृहदक्षेऽर्कसंक्रमः ॥७९४॥

यदा भवेत्तदा वाच्यं सुभिक्षं सततं श्वितौ ।

रात्रौ सुप्तं च सक्रूरे पापविद्धेक्षितेऽपि वा ॥७९५॥

पूर्वात्तृतीयपञ्चर्क्षलघ्वर्क्षे यदि संक्रमः ।

तदा भवेन्महलोके दुर्भिक्षं कष्टकारकम् ॥७९६॥

मध्यर्क्षे मिश्रसंयुक्तेऽप्युपविष्टे च संक्रमः ।

अर्धसाम्यं तदा वाच्यं स्य संक्रान्तिलक्षणैः ॥७९७॥

यदा धनुषि मार्तण्डः संक्रामति तदा विधुः ।

विलोक्यते हृदक्षे किमध्वे किंजघन्यके ॥७९८॥

अनुराधा, तथा तीनों पूर्वा से तृतीय, चतुर्थ, तथा बृहत् संज्ञक नक्षत्र में शुभग्रह से युक्त रवि यदि ऊर्ध्व-संज्ञक संक्रान्ति करता हो ॥ ७९४ ॥

तो पृथ्वी पर सर्वदा सुभिक्ष होता है और सुप्त अर्थात् तैलिल, नाग, अतुष्पद करणों में रवि के संक्रान्ति होने से सुप्त संक्रान्ति होती है जैसे नारद का वचन है

“निविष्टो वणिजे विष्ट्यां बालवे च बवे गरे । कौलवं शकुनौ भानुः

किस्तुत्रे चोर्ध्व संस्थितः । चतुष्पात्तैतिले नागे सुप्तः क्रान्तिं करोति सः ।

यान्यार्धवृष्टिषु समं श्रेष्ठं हीनं भवेत्क्रमात् ॥”

रात्रि में पाप ग्रह से युक्त वा विद्ध वा दृष्ट पूर्वा से तृतीय, पञ्चार्क्ष (हस्त, स्वाती, अभिजित, धनिष्ठा, रेवती, भरणी,) और लघ्वर्क्ष (अश्लेषा, शतभिषा, आर्द्रा, स्वाती, ज्येष्ठा, भरणी,) इन नक्षत्रों में रवि की सुप्त संक्रान्ति हो तो महलोक में दुर्भिक्ष तथा कष्ट कारक होता है । प्रसङ्ग से बृहत् सम जघन्य नक्षत्रों की संज्ञा संक्रान्ति वश से जैसे नारद का वचन है “तारा जघन्याः सापेन्द्रा वाताद्गन्तकतोयपाः । ध्रुवादिनि द्विदैवत्यं बृहत्ताराः पराः समाः ॥” इति ॥ ७९५ ॥ ७९६ ॥

मध्यम अर्थात् सम संज्ञक तथा विशाखा, कृत्तिका इन नक्षत्रों में रवि की संक्रान्ति हो तो संक्रान्ति के लक्षण से अर्ध साम्य कहना चाहिये ॥ ७९७ ॥

धनुराशि की संक्रान्ति में चन्द्रमा यदि बृहन्नक्षत्र, या मध्य नक्षत्र, या जघन्य नक्षत्र में हो ॥ ७९८ ॥

उत्तमर्धे समर्धं ¹स्यान्मध्यमे समतामता ।
जघन्येषु महर्धं स्यादेवं संक्रमधिष्ण्यतः ॥७९९॥
तिथिः षष्टिघटीमानात् त्रिभागेन विभाजिता ।
आद्यभागे ततो नाड्यः पञ्चदश प्रकीर्तिताः ॥८००॥
त्रिंशन्नाड्यो द्वितीयेऽपि पञ्चदश तृतीयके ।
एवं चन्द्रस्य धिष्ण्यं तु ततस्त्रेधा विभज्यते ॥८०१॥
²बृहद्धिष्ण्यस्य चाद्योऽश्वत्थान्द्रतिथ्योरथांशकः ।
आद्यो भवेत्त्रिधा तुल्यस्ततः सूर्यः शुभेक्षितः ॥८०२॥
धनुषि याति संपुष्टस्तूत्तमार्धे तदा भवेत् ।
यदा च गुरुधिष्ण्यस्य कंटकः ³स्याद् द्वितीयकः ॥८०३॥

बृहन्नक्षत्र में हो तो समर्ध होता है । मध्यम में हो तो-समता,
जघन्य में महर्ध होता है ऐसा संक्रान्ति के नक्षत्र-से फल का विचार
करें ॥ ७९९ ॥

तिथि के साठ घटी मान को तीन विभाग करने पर पहले भाग
में पन्द्रह घटी कही हैं ॥८००॥

और द्वितीय भाग में तीस घटी, तृतीय भाग में पन्द्रह घटी, इसी
तरह चन्द्र नक्षत्र के साठ घटी मान के भी तीन भाग करें ॥८०१॥

बृहत् संज्ञक नक्षत्र के तथा चन्द्र नक्षत्र के पहले घटी विभाग में
सूर्य की संक्रान्ति हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो अर्ध समान होता है ॥८०२॥

यदि बलवान् सूर्य बृहत् संज्ञक नक्षत्र के द्वितीय घटी विभाग में धनु
राशि में जाय तो उत्तम अर्ध होता है ॥८०३॥

1. सुभिन्नं for समर्ध A, A¹ 2. Bh adds before this
verse the following: 3. कण्टकस्य for कण्टकःस्याद् A.

बृहद्द्रक्षाद्यभागश्च प्रातश्चन्द्रतिथिरपि ।

तदोत्तमजघन्यार्धपाकश्रीशास्त्रसम्मतः ॥

But this verse is repeated, see V. 806.

चन्द्रधिष्ण्ये तिथेश्चापि कण्टकोऽथ द्वितीयकः ।

तदाप्युत्तम एवार्धो विज्ञातव्यो महर्द्धिकैः¹ ॥८०४॥

यदा च गुरुधिष्ण्यस्य तृतीयः कण्टको भवेत् ।

चन्द्रधिष्ण्यतिथेश्चापि तृतीयश्चोत्तमोत्तमः ॥८०५॥

बृहदृक्षाद्यभागश्चेत् चन्द्रतिथ्योर्द्वितीयकः ।

तदाऽपि चोत्तमार्धोऽस्ति नक्षत्रस्य स्वभावतः ॥८०६॥

बृहदृक्षाद्यभागश्चेत् प्रान्तश्चन्द्रतिथेरपि ।

तदोत्तमजघन्यार्धपक्षः श्रीशास्त्रसंमतः ॥८०७॥

गुर्वर्धमध्यमो भागश्चन्द्रतिथ्योरथान्त्यगः ।

तदा मध्यो भवेद्वर्धो गुरुनक्षत्रवैभवात् ॥८०८॥

एवं चन्द्रतिथिभ्यां च महर्द्धं विचारितम् ।

त्रिंशन्मुहूर्तकं² ऽप्येवमाद्यमध्यान्तकल्पना ॥८०९॥

यदि चन्द्र नक्षत्र तथा तिथि की भी द्वितीय घटी विभाग में संक्रान्ति हो तो भी उत्तम अर्ध होता है ॥८०४॥

यदि बृहत् संज्ञक नक्षत्र तथा तिथि की भी तृतीय घटी विभाग में संक्रान्ति हो तो अर्ध उत्तमोत्तम होता है ॥८०५॥

बृहन्नक्षत्रों का प्रथम भाग चन्द्र, तिथि, का द्वितीय भाग हों तो भी नक्षत्र के स्वभाव से उत्तमार्ध होता है ॥८०६॥

बृहन्नक्षत्र का आद्य भाग, और चन्द्र तिथि का अन्त भाग हो तो शास्त्र संमत से उत्तमार्धम अर्ध पाक होता है ॥८०७॥

बृहन्नक्षत्र का मध्य भाग, और चन्द्र, तिथि का अन्त्य भाग हो तो बृहन्नक्षत्र के प्रभाव से मध्यम अर्ध होता है ॥८०८॥

इस प्रकार चन्द्रमा, तिथि पर से बृहन्नक्षत्र का विचार किया, इसी तरह तीस मुहूर्त पर से भी आद्य मध्य अन्त्य को कल्पना करें ॥८०९॥

1. महर्द्धिकैः for महर्द्धिकैः A. 2. मोहूर्तिके for मुहूर्त के A.

मध्यर्क्षस्याद्यभागश्चेच्चन्द्रतिथ्योरथादिमः ।

तदा मध्योत्तमार्धोऽपि धान्यस्य विदुषां मतः ॥८१०॥

मध्यर्क्षो^१ मध्यभागश्चेत् चन्द्रतिथ्योश्च मध्यमः ।

तदा मध्योत्तमार्धः स्यादन्तिमेऽपि च मध्यमः ८११॥

मध्यर्क्षस्यापि मध्यश्चेत् चन्द्रतिथ्योरथादिमः ।

तदा मध्यम एवार्धो द्वयोर्मध्येऽपि मध्यमः ॥८१२॥

एवं तिथिचन्द्रेण लघ्वर्क्षविचारोऽपि वाच्यः । तथा च

लघ्वर्क्षस्याद्यभागश्चेत् चन्द्रतिथ्योरथादिमः ।

तदा जघन्योत्तमार्धो लघ्वर्क्षमध्यमो यदि ॥७१३॥

चन्द्रतिथ्योश्च मध्येऽस्ति^३ तदा जघन्यमध्यमः ।

लघ्वर्क्षस्यान्तभागश्चेत् चन्द्रतिथ्योरथान्त्यमः^४ ॥८१४

यदि मध्यनक्षत्र का पहला भाग चन्द्र, तिथि का भी पहला भाग हो तो धान्य का मध्यम, उत्तम अर्ध होता है ॥ ८१० ॥

मध्य नक्षत्र का मध्यभाग चन्द्र, तिथि, का मध्यभाग हो तो मध्यम, उत्तम अर्ध धान्य का होता है और अन्तिम भाग में भी मध्यम होता है ॥ ८११ ॥

मध्यम नक्षत्र का मध्यभाग चन्द्र तिथि का आदिभाग हो तो मध्यम अर्ध समझना चाहिये । दोनों के मध्य में होने पर भी मध्यम होता है ॥ ८१२ ॥

इस प्रकार लघुनक्षत्र चन्द्र तिथि पर से विचार कहते हैं । लघुनक्षत्र का आद्य भाग तथा चन्द्र तिथि का भी आद्य भाग हो तो अधमोत्तम अर्ध होता है यदि लघ्वर्क्ष मध्यम में हो तो भी वही होता है ॥ ८१३ ॥

लघु नक्षत्र का मध्यभाग तथा चन्द्र तिथि का भी मध्य भाग हो तो इस तरह लघु नक्षत्र का अन्त्य भाग तथा चन्द्र तिथि का भी अन्त्य भाग होता है ॥ ८१४ ॥

1 मध्यर्क्षो for मध्यर्क्षो Bh. 2. लघ्वर्क्षो for लघ्वर्क्ष Bh. 3. मध्यास्ति for मध्येऽस्ति Bh. 4. अथान्तिमः for अथान्त्यमः for A.

तदा दुर्भिक्षमादेश्यं नक्षत्रस्य प्रभावतः ।

विकल्पैः सकलैरेवं सुभिक्षं पृच्छतां वदेत् ॥८१५॥

शुक्रो बुधकुजौ सौरिर्बृहद्विष्ये च राशिगाः ।

तदा जने समर्घं स्यान्मध्यं मध्येऽधमेऽधमम् ॥८१६॥

पुनर्वसो विशाखायां रोहिण्यामुत्तरात्रये ।

नवेन्दुः कुरुते प्रोद्यत् दुर्भिक्षं दक्षिणोन्नतः ॥८१७॥

समो नवेन्दुरुद्गच्छन् समर्घं कुरुतेऽशनम् ।

नवेन्दुः कुरुते प्रोद्यत्सुभिक्षमुत्तरोन्नतः ॥८१८॥

स्वात्यश्लेषा भरण्यार्द्रा ज्येष्ठा शतभिषकसुच ।

पंच दशसु शेषेषु नक्षत्रेषु च सर्वदा ॥८१९॥

पुनर्वसु विशाखा च रोहिणी चोत्तरात्रयम् ।

एतानि पञ्चचत्वारिंशन्मुहूर्तानि संक्रमे ॥८२०॥

वेदाको^१ याति मेषादौ विधौ सप्तमराशिगे ।

त्रिंशद्येकशराम्भोधिमासेष्वर्घः क्रमाद् भवेत् ॥८२१॥

तो नक्षत्र के प्रभाव से दुर्भिक्ष कहना चाहिये इस के विकल्प में सुभिक्ष कहना चाहिये ॥ ८१५ ॥

शुक्र, बुध, मंगल, शनि यदि बृहन्नक्षत्र के राशि में हों तो समर्घ होता है । मध्यम में मध्यम; तथा अधम में अधम होता है ॥ ८१६ ॥

पुनर्वसु, विशाखा, रोहिणी, उत्तरफल्गुनी, उत्तराषाढ, उत्तरभाद्र, इन नक्षत्रों में चन्द्रमा का दक्षिणोन्नत शृङ्ग उदित हो तो दुर्भिक्ष होता है ॥ ८१७ ॥

पूर्व के नक्षत्रों में यदि चन्द्रमा का सब शृङ्ग उदित हो तो समर्घ होता है, उत्तरोन्नत शृङ्ग उदित हो तो सुभिक्ष होता है ॥ ८१८ ॥

स्वाती, अश्लेषा, भरणी, आर्द्रा, ज्येष्ठा, शतभिषा, इन, नक्षत्रों में संक्रान्ति होने से पन्द्रह मुहूर्त होते हैं, पुनर्वसु, विशाखा, उत्तरात्रय, इन नक्षत्रों में संक्रान्ति होने से ४५ मुहूर्त होता है और शेष नक्षत्रों में तीस ३० मुहूर्त होता है ॥ ८१९ ॥ ८२० ॥

यदि सूर्य के मेष संक्रम काल में चन्द्रमा सप्तम राशि में हो तो क्रम से तीन, दो, एक, पांच, चार, मासों में जाकर अर्घ होता है ॥ ८२१ ॥

1- वेद को for वेदाको A. चेदको Bh. 2- त्रिंशद्येकशराम्भोधि for त्रिंशद्येकशराम्भोधि A. A^१

आर्द्रा च भरणी स्वातिरश्लेषा शततारका ।
 ज्येष्ठा च रविसंक्रान्तौ पञ्चदश मुहूर्तिका ॥८२२॥
 धनिष्ठा रेवती पुष्योऽनुराधा कृत्तिकाशिवनी ।
 हस्तः पूर्वात्रयं चित्रा श्रुतिर्मूलं मृगो मघा ॥८२३॥
 एतानि पञ्चदश च नक्षत्राणि मनीषिभिः ।
 त्रिंशन्मुहूर्तकानीति प्रोक्तानि रविसंक्रमे ॥८२४॥

इत्यायेऽर्घकाण्डम् ।

अथ लाभप्रकरण एवार्घकाण्डं निरूप्य स्त्रीलाभप्रकरणम् ।
 मूर्तौ सुरे ज्ये ऽस्तगते शशाङ्के बुधेऽथवा स्वर्क्षगते तु शुक्रे ।
 संप्राप्यते व्योमगते च सूर्ये कन्या नरैः पार्थिववल्लभेव ॥८२५॥
 कर्कोदये सप्तमगे शशाङ्के चतुष्टये पापविजिते च ।
 अवाप्यते भूरिधनादियुक्ता नयप्रधाना विजितारिपक्षा ॥८२६॥
 आयस्थिते तीव्रकरे स्वतुंगे मूर्तौ शशाङ्के परिपूर्णदेहे ।

आर्द्रा, भरणी, स्वाती, अश्लेषा, शतभिषा, ज्येष्ठा, इन नक्षत्रों में संक्रान्ति होने से पन्द्रह मुहूर्त होता है ॥८२२॥

धनिष्ठा, रेवती, पुष्य, अनुराधा, कृत्तिका, अशिवनी, हस्त, पूर्व फल्गुनी, पूर्वाषाढ, पूर्वभाद्र, चित्रा, श्रवणा, मूल, मृगशिरा, मघा, ॥८२३॥

इन पन्द्रह नक्षत्रों में रवि संक्रान्ति हो तो पन्द्रह मुहूर्त होता है, ऐसा मुनियों का वचन है ॥८२४॥

लाभ प्रकरण में ही अर्घकाण्ड को कहकर अब स्त्रीलाभ प्रकरण कहते हैं ॥

जिसको जन्म में बृहस्पति लग्न में हो, सप्तम में चन्द्रमा वा बुध हो, शुक्र अपने राशि में हो और सूर्य दशम स्थान में हो तो वह मनुष्य रानी के समान कन्या का लाभ करता है ॥८२५॥

जन्म समय में जिसको कर्क लग्न हो, सप्तम में चन्द्रमा हो और केन्द्र में एक भी पापग्रह नहीं हो वह बहुत धनादि से युक्त और नीति को जाननेवाली, तथा शत्रु पक्ष को पराजित करने वाली स्त्री का लाभ करता है ॥८२६॥

सौम्येम्बरस्थे सुभगा सुरूपा संप्राप्यते स्त्री बहुपुत्रपौत्रा ॥८२७
 छिद्रे स्थिते चन्द्रयुते च शुक्रे लग्ने गुरौ सौम्ययुते च सूर्ये ।
 लाभेऽथ दुश्चिक्यगतेऽनौतु प्राप्नोतिकन्यां सुरसां सुरूपाम् ॥८२८
 शुक्रे मूर्तां सुरूपा स्त्री साहंकारा च भूमिजे ।
 बुधे वक्रा गुरौ सश्रीश्चतुरस्राखिलैः शुभैः ॥८२९॥
 शुद्धे शनौ दरिद्रा तु दुर्भगा युवती मता ।
 शुक्रे लग्ने गुरौ घने सेवते न पतिं निजम् ॥ ८३० ॥
 तुर्ये तुंगाश्रिते चन्द्रे जीवदृष्टे महोदया ।
 विद्याधरीसमा प्राप्या जितारिश्च बहुप्रजा ॥ ८३१ ॥
 चन्द्रो लग्नेश्वरो वापि कन्यालाभाय सप्तगौ ।
 सप्तपो मूर्तिगः शीघ्रं स्त्रीलाभो निश्चितो भवेत् ॥ ८३२ ॥

सूर्य षष्ठा का होकर लाभ स्थान में हो, पूर्वा चन्द्रमा लग्न में हो, शुभग्रह दशम स्थान में हो तो वह बहुत सुन्दरी सुभगा तथा बहुत पुत्र पौत्र को उत्पन्न करने वाली स्त्री का लाभ करता है ॥८२७॥

चन्द्रमा से युक्त, शुक्र अष्टम स्थान में हो, लग्न में गुरु हो, बुधसे युक्त सूर्य लाभ में हो और शनि तृतीय में हो तो वह सुन्दर रस वाली सुन्दरी स्त्री को प्राप्त करता है ॥ ८२८ ॥

लग्न में शुक्र हो तो सुन्दर स्त्री का लाभ होता है । यदि मंगल, कर्कन में हो तो अहंकारयुक्ता स्त्री, और बुध हो तो वक्रा स्त्री, गुरु हो तो लक्ष्मी रूपा, सब शुभग्रह हों तो सब गुणों से युक्ता स्त्री का लाभ होता है ॥ ८२६ ॥

शनि हो तो दरिद्रा, दुर्भगा, स्त्री होती है, यदि शुक्र लग्न में हो, और बृहस्पति सप्तम भाग में हो तो उसकी स्त्री अपने पति की सेवा नहीं करती ॥ ८३० ॥

चन्द्रमा षष्ठा का होकर चतुर्थ में हो, उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो वह महोदया, तथा विद्याधरी के समान शत्रु को जीतने और बहुत पुत्रादिक उत्पन्न कर वाली स्त्री को प्राप्त करता है ॥ ८३१ ॥

चन्द्रमा, लग्नेश, दोनों, सप्तम में हों तो कन्या का लाभ होता है, और सप्तमेश लग्न में हो तो शीघ्र स्त्रीलाभ होता है ॥ ८३२ ॥

तुलावृषभकर्केषु शुक्रेन्दुयुतदृष्टिषु ।

वधूलाभो भवत्येव धने वा सबले रवौ ॥ ८३३ ॥

शुभा केन्द्रत्रिकोणस्था बुधर्क्षं स्मरगेहगम् ।

¹ कनीलाभाय पश्यन्तस्त्र्यंशस्त्रीगेहगास्तथा ॥ ८३४ ॥

कनीद्रेष्काणगोलग्ने कन्यालग्ने नवांशके ।

वीक्षिते सोमशुक्राभ्यां कन्यालाभो ध्रुवो मतः ॥ ८३५ ॥

शुक्रेन्दू समराशिस्थौ स्त्रीद्रेष्काणनवांशकौ ।

सवीर्यौ मूर्तिधीस्वस्थौ कन्यालाभाय निश्चितौ ॥ ८३६ ॥

स्मरस्वोपचये चन्द्रे कन्याप्तिर्गुरुवीक्षिते ।

प्राप्या कन्या समे भानौ पतिलाभोऽन्यथा स्त्रियाम् ॥ ८३७ ॥

तुल, वृष, कर्क, लग्नों में शुक्र, चन्द्रमा दोनों का योग तथा दृष्टि हो वा सबल रवि सप्तम में हो तो स्त्री का लाभ होता है ॥ ८३३ ॥

बुध की राशि (मिथुन, कन्या,) सप्तम भाव में हों और इस भाव के त्रिशांश पर, केन्द्र, और त्रिकोणस्थित शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो कन्या का ही लाभ होता है ॥ ८३४ ॥

कन्या लग्न में कन्या का ही द्रेष्काण तथा नवमांश लग्न में हो और चन्द्रमा, शुक्र दोनों से देखे जाते हों तो ध्रुव कन्या का लाभ होता है ॥ ८३५ ॥

शुक्र, चन्द्रमा, सम राशि का हो कर कन्या राशि का द्रेष्काण, नवमांश में हो तथा बल से युक्त होकर लग्न पंचम, धन, स्थान में हो तो कन्या का लाभ होता है ॥ ८३६ ॥

चन्द्रमा, सप्तम तथा उपचय में हो उस पर गुरु की दृष्टि हो तो कन्या की प्राप्ति होती है, सम राशि में सूर्य हो तो कन्या की प्राप्ति होती है, और स्त्री की कुण्डली में विषम राशि में सूर्य हो तो पति प्राप्त होता है ॥ ८३७ ॥

केन्द्रत्रिकोणगैः सौम्यैर्दृष्टिघ्ने गमागमः ।

स्त्रीराशिमूर्तिगैस्तैस्तु दृष्टे वा स्त्रीगृहांशके ॥ ८३८ ॥

स्त्रीप्राप्तिव्यस्तयोगैस्तु लाभस्तासां वरस्य च ।

लभेश्वरो वरश्चिन्त्यो नारी च धनपा मता ॥ ८३९ ॥

लभे पुष्टे वरः श्रीमान् धने पुष्टे च कन्यका ।

वित्ते पुष्टे स्वयं भर्ता दत्ते पत्न्यै धनं बहु ॥ ८४० ॥

छिद्रे पुष्टे वधूर्दत्ते स्वभर्त्रे स्नेहतो धनम् ।

समृद्धौ छिद्रवित्तौ द्वावुभौ दत्तो वधूवरौ ॥ ८४१ ॥

सक्रूरे वित्तगेहे तु समृद्धौ वधूवरौ ।

ससौम्ये वित्तगेहे तु समृद्धौ तौ परस्परम् ॥ ८४२ ॥

मित्रक्षेत्रे च तौ प्रीतौ यावज्जीवं क्रियापरी ।

शत्रुक्षेत्रगतौ द्वौ तु बद्धवरौ निरात्मकौ ॥ ८४३ ॥

शुभ ग्रह केन्द्र त्रिकोण स्थान में होकर सप्तम स्थान को देखते हों तो स्त्री का आगमन होता है. यदि कन्या लग्न हो उस में शुभ ग्रह का योग अथवा दृष्टि हो वा कन्या राशि के नवमांश में हो ॥ ८३८ ॥

तो स्त्री की प्राप्ति होती है और स्त्री की कुण्डली में इसका विपरीत योग हो तो उसको वर का लाभ होता है। लग्नेश को वर और सप्तमेश से स्त्री का विचार करें ॥ ८३९ ॥

लग्न पुष्ट हो तो वर लक्ष्मीवान होता है, और सप्तम भाव पुष्ट हो तो कन्या लक्ष्मीरूपा होती है और धन भाव पुष्ट हो तो स्वामी अपनी स्त्री को बहुत धन देता है ॥ ८४० ॥

यदि अष्टम भाव पुष्ट हो तो स्त्री अपने स्वामी को प्रेम से बहुत धन देती है, और अष्टम, तथा धनभाव दोनों बलवान् हों तो दोनों परस्पर धन देते हैं ॥ ८४१ ॥

धन स्थान में पाप ग्रह हो तो स्त्री पुरुष दोनों को धन की इच्छा रहती है, और धन स्थान में शुभ ग्रह हो तो वधूवर दोनों परस्पर समृद्ध होते हैं ॥ ८४२ ॥

यदि लग्नेश, सप्तमेश, दोनों मित्र के घर में हों तो स्त्री पुरुष अपनी क्रिया में यावज्जीवन प्रेम पूर्वक रहते हैं, और दोनों यदि शत्रु के घर में हों तो दोनों का परस्पर वैर भाव रहता है ॥ ८४३ ॥

तुर्ये पुष्टे^१ पतिःस्वीयो दत्ते परस्त्रिया धनम् ।

पदे सौम्ये निजा भार्या दत्ते जाराय सम्पदम् ॥ ८४४ ॥

तृतीयैकादशे ख्यातः प्रीतिर्वाच्या परस्परम् ।

अन्योन्यक्षेत्रगामित्वे तयोः प्रीतेः समानता ॥ ८४५ ॥

लग्ने गुरौ स्मरे शुक्रे नोढेन सुरतं मतम् ।

सुरूपाः पतयो बाह्याः सम्भवन्ति स्त्रियस्तदा ॥ ८४६ ॥

पतिप्राप्तिस्तु कन्यानां पुंलग्नैः पुंग्रहैरपि ।

द्रेष्काणैर्नसंज्ञैस्तु स्यात्पुंग्रहनवांशकैः^३ ॥ ८४७ ॥

सप्तमे चन्द्रशुक्राभ्यां कन्याप्तिः स्याद्वरस्य च ।

सप्तमे सितचन्द्राभ्यां वरलाभोऽपि योषिताम् ॥ ८४८ ॥

यदि चतुर्थ स्थान पुष्ट हो तो स्वामी दूसरे की स्त्री को धन देता है और शुभ ग्रह पद स्थान में हो तो स्त्री जार को सम्पत्ति देती है ॥ ८४४ ॥

यदि लग्नेश, अष्टमेश, दोनों तृतीय, एकादश में हों तो बहुत ख्यात होता है और आपस में परस्पर प्रेम रहता है, और दोनों परस्पर एक दूसरे के घर में हों तो स्त्री पुरुष को परस्पर समान प्रेम होता है ॥ ८४५ ॥

यदि लग्न में गुरु हो और सप्तम में शुक्र हो तो नवोद्गा के साथ सुरत कहना चाहिये । उस में स्त्री तथा पुरुष दोनों को बहुत सुन्दर कहना चाहिये ॥ ८४६ ॥

यदि पुरुष राशि लग्न हो तथा पुरुष ग्रह हो और पुरुष संज्ञक राशि का द्रेष्काण तथा नवमांश हो तो कन्या को पति की प्राप्ति होती है ॥ ८४७ ॥

वर की कुण्डली में सप्तम में चन्द्रमा, शुक्र हो तो वर को कन्या प्राप्ति होती है और स्त्री की कुण्डली शुक्र, चन्द्रमा, यदि सप्तम में हो तो वर लाभ होता है ॥ ८४८ ॥

1. तुष्टे for पुष्टे A. 2. पतिः स्वीयो Bh पतिस्त्रियो mss.
3. ०के for ०कैः A.

लाभे शुक्रेन्दुदेवेज्ययुक्ते कन्या स्वहस्तगा ।

कन्याया रमणो रम्यो लाभे सौम्ययुतेक्षिते ॥ ८४९ ॥

दौस्थ्यं^१ कन्यावरादीनां तत्क्षेत्रेशोदयादिभिः ।

उच्चकेन्द्रस्वामित्रस्थैः सौम्ययुक्तोक्षितैः शुभम् ॥ ८५० ॥

इत्याये कन्यालाभप्रकरणम् ।

अथ नष्टलाभप्रकरणं द्वितीयवारं कथ्यते ।

लाभवन्नष्टलाभस्य सम्यग् ज्ञानं प्रकाशितम् ।

निजानुभावसंवादाद्विशेषः कोऽपि कथ्यते ॥ ८५१ ॥

पुष्टश्चन्द्रः शुभो वापि दृष्टः शीर्षोदये शुभैः ।

गतप्राप्तिं करोत्येवं लाभे वा सबलैः शुभैः ॥ ८५२ ॥

वित्ते तुर्येऽनुजे पुत्रे षष्ठे वा शुभदः स्वगः ।

विधत्ते गतलाभं तु क्रूरैस्तत्र विपर्ययः ॥ ८५३ ॥

लाभ स्थान में शुक्र, चन्द्रमा, बृहस्पति हो तो कन्या को अपने हाथ में समझना चाहिये, लाभ स्थान में शुभ ग्रह का योग तथा दृष्टि हो तो कन्या का सुन्दर रमण होता है ॥ ८४९ ॥

लग्नेश और सप्तमेश का उदय हो तो कन्या वर को स्वस्थ कहना चाहिये, और वे यदि उच्च, केन्द्र, या मित्रादि ग्रह में स्थित हों तथा शुभ ग्रहों से देखे जाते हों तो दोनों को शुभ कहना चाहिये ॥ ८५० ॥

इत्याये कन्यालाभप्रकरणम् ॥

अथ नष्ट लाभप्रकरणं द्वितीयवारं कथ्यते ।

लाभ की तरह नष्ट लाभ का ज्ञान सम्यक् प्रकाश किया । अब अपने भावों के अनुसन्धान से कुछ विशेष कहते हैं ॥ ८५१ ॥

पुष्ट चन्द्रमा या शुभ ग्रह शीर्षोदय में हो और शुभ ग्रहों से देखे जाय वा लाभ स्थान में बलवान् शुभ ग्रह हो तो नष्ट वस्तु का लाभ होता है ॥ ८५२ ॥

धन, तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम, वा षष्ठ भाव में शुभ ग्रह हों तो नष्ट वस्तु का लाभ होता है, यदि इन स्थानों में पाप ग्रह हो तो लाभ नहीं होता है ॥ ८५३ ॥

लग्नघ्नांशयोः संगे नष्टं कष्टेन लभ्यते ।

लग्नेशे शुभसंयुक्ते लब्धिः क्रूरयुतेन हि ॥ ८५४ ॥

लग्ने लग्नेशसंयुक्ते घ्ननपो नष्टलाभदः ।

स्मरं गते तु लग्नेशे नष्टलाभो न दृश्यते ॥ ८५५ ॥

शुभयुक्ते विधौ पूर्णे तुर्ये वित्ते च लभ्यते ।

सार्के चन्द्रे स्मरे लाभे वक्रिणि घ्ननपे नहि ॥ ८५६ ॥

घ्ननपे लग्नमायाते नष्टं चौरः प्रयच्छति ।

चन्द्रे क्रूरयुते नष्टं चौरैभ्योऽपि प्रणश्यति ॥ ८५७ ॥

अस्तपे शुभसंयुक्ते केन्द्रे नष्टस्य लब्धयः ।

घ्ननस्वामिप्रणाशे तु चौर्येशोऽपि मरिष्यति ॥ ८५८ ॥

वक्रिणि घ्ननपे प्राप्तिः स्वस्थे मार्गस्थिते नहि ।

लग्नास्तपयुते नष्टं भूपायत्तं पदेश्वरे ॥ ८५९ ॥

लग्न, तथा सप्तम, भाव के नवमांश का योग हो तो नष्ट वस्तु का कष्ट से लाभ होता है, लग्नेश शुभ ग्रह से युक्त हो तो लाभ होता है और क्रूर ग्रह से युक्त हो तो लाभ नहीं होता है ॥ ८५४ ॥

सप्तमेश से युक्त लग्नेश लग्न में हो तो नष्ट वस्तु का लाभ होता है, और लग्नेश, सप्तम में हो तो नष्ट वस्तु का लाभ नहीं होता है ॥ ८५५ ॥

शुभ ग्रह से युक्त पूर्ण चन्द्रमा चतुर्थ, तथा धन भाव में हो तो नष्ट वस्तु का लाभ होता है, और सूर्य से युक्त चन्द्रमा सप्तम भाव में हो तो लाभ होता है इस में यदि घ्नेश वक्री हो तो नहीं होता है ॥ ८५६ ॥

यदि घ्नेश लग्न में हो तो नष्ट वस्तु खोर दे देता है, और चन्द्रमा पाप ग्रह से युक्त हो तो वह नष्ट वस्तु चार के पास से भी नष्ट हो जाती है ॥ ८५७ ॥

सप्तमेश शुभ ग्रहों से युक्त होकर केन्द्र में हो तो नष्ट वस्तु का लाभ होता है, और सप्तमेश नष्ट हो तो चोर भी मर जाता है ॥ ८५८ ॥

सप्तमेश वक्री हो तो नष्ट वस्तु का लाभ नहीं होता है और वह स्वस्थ तथा मार्गी हो तो उस वस्तु का लाभ होता है यदि पद स्थान के स्वामी लग्नेश, अष्टमेश से युक्त हों तो वह नष्ट वस्तु राजा के अधीन होती है ॥ ८५९ ॥

स्वामी नष्टस्य लग्नेशश्चौरो घ्नूपतिर्भवेत् ।

चन्द्रार्को नष्टवित्तस्य ततस्तेभ्यो विनिर्णयः ॥ ८६० ॥

स्थिरषड्वर्गबाहुल्ये सौम्ययोगे विलोकिते ।

प्रपश्यति न तन्नष्टं नष्टं चेत्स्वामिना हृतम् ॥ ८६१ ॥

लग्ने मृगाख्यो मिथुनः स मेषः शुभाश्रयोऽसौ दशमोपगश्च ।

नष्टस्य लाभं कुरुते सदैव बलाद्वियुक्तो बलदृष्टिपुष्टः ॥ ८६२ ॥

शुभेक्षिता वृश्चिकमेषकन्याकर्का भवेयुर्यादि कर्मसंस्थाः ।

प्रनष्टलब्धिः प्रथमश्चरो रो (?) शुभोदया वा भवनाय जन्तोः

छिद्रे चौरौ धने वस्तु सप्तमे वस्तुसंस्थितिः ।

एवंगतपरिज्ञाने गतस्थानविनिश्चयः ॥ ८६४

लग्नेश, नष्ट का स्वामी, और घ्नूनेश चोर के स्वामी और चन्द्रमा, सूर्य, नष्ट वस्तु का, इस लिये इन सब के बलाबल के अनुसार नष्ट वस्तु का निर्याय करें ॥ ८६० ॥

प्रश्न काल में स्थिर राशि के षड्वर्ग की विशेषता हो और शुभ ग्रहों का योग तथा दृष्टि हो तो उस वस्तु को नष्ट नहीं कहना चाहिये यदि नष्ट भी हो तो उसके मालिक ने उस वस्तु को हरण कर लिया है ऐसा कहना चाहिये ॥ ८६१ ॥

यदि मकर, मिथुन, वा मेष लग्न हो और उसका शुभ ग्रहों से सम्बन्ध हो, तथा शुभ ग्रह दशम स्थान में हों तो बलवान् तथा शुभ ग्रहों की दृष्टि से पुष्ट हो तो नष्ट वस्तु का लाभ होता है ॥ ८६२ ॥

यदि दशम भाव में वृश्चिक, मेष, कन्या, कर्क, राशि हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो, चर राशि लग्न हो और शुभ ग्रह से सम्बन्ध हो तो नष्ट वस्तु का लाभ होता है ॥ ८६३ ॥

अष्टम, भाव से चोर, धन भाव से वस्तु, सप्तम से वस्तु की संस्थिति, इन स्थानों के परिज्ञान से गत स्थान का निश्चय करें ॥ ८६४ ॥

1. शुभाद् for बलाद् A. 2. गति for गति Bh. 3. वस्तु for गत Bh.

स्थिरलग्ने स्थिरे भागे वर्गोत्तमनवांशके ।

स्थितं तत्रैव तद् द्रव्यं स्वकीयेनैव चोरितम् ॥ ८६५ ॥

द्विशरीरे गृहबाह्ये गृहनिकटनिवासिना हृतं द्रव्यम् ।

स्थिरराशौ तत्रस्थं चरराशौ निर्गतं बहिर्भवनात् ॥ ८६६ ॥

धिषणादष्टमे सौम्ये नष्टप्रश्नेऽथ धिष्ण्यके ।

वेगेन लभ्यते नष्टं दीप्तत्वेन विशेषतः ॥ ८६७ ॥

इति लाभे नष्टलाभप्रकरणम् ॥

अथ लाभप्रकरणम् ॥

त्रयं त्रयं दिवारात्रावन्धं द्वयं द्वयं पुनः ।

बधिरं चैककं पंगुर्मेषाद्येवं विचारयेत् ॥ ८६८ ॥

चन्द्रलग्नेशवित्तेशा युतदृष्टाः परस्परम् ।

वित्तलग्नत्रिकोणस्थाः सद्यो लाभकरा मताः ॥ ८६९ ॥

एवं केन्द्रे शुभाः सर्वे सद्यो लाभकरा मताः ।

क्रूराः कुर्वन्ति दारिद्र्यं त्रिकोणे कण्टके स्थिताः ॥ ८७० ॥

स्थिर लग्न हो स्थिर राशि का अंश हो और वर्गोत्तम नवमांश में हो तो वहीं पर उस वस्तु को स्थित कहना चाहिये वा स्वयं उसकी चोरी करवा दिया हो ऐसा फल कहना चाहिये ॥ ८६५ ॥

द्विः स्वभाव राशि लग्न हो तो घर के बाहर उसके समीपवर्ती लोगों ने धन हरण किया ऐसा कहना चाहिये, स्थिर राशि में वहीं पर चर राशि में घर से बाहर द्रव्य कहना चाहिये ॥ ८६६ ॥

नष्ट प्रश्न में सूर्य से अष्टम शुभ ग्रह हो तो शीघ्र नष्ट वस्तु का लाभ होता है । दीप्त अवस्था में विशेष करके लाभ होता है ॥ ८६७ ॥

इति लाभे नष्टलाभप्रकरणम् ॥

अहोरात्रि में मेषादि क्रम से तीन तीन राशि अन्ध, तथा दो दो राशि बधिर एक, एक राशि पंगु, होता है ऐसा विचार करें ॥ ८६८ ॥

चन्द्रमा, लग्नेश, और धनेश, ये परस्पर युत या दृष्ट होकर धन, लग्न, पञ्चम, नवम, में हों तो सद्यः लाभ होता है ॥ ८६९ ॥

इस प्रकार केन्द्र में सब शुभ ग्रह हों तो सद्यः लाभ होता है और पाप ग्रह यदि केन्द्र, त्रिकोण, स्थित हों तो दरिद्र होता है ॥ ८७० ॥

शुभः स्वोच्चादिगो मूर्तौ धने राज्येऽथवा स्थितः ।

कुर्याल्लामं क्षणादेवमेवं पुण्यं शुभेक्षितम् ॥ ८७१ ॥

गुरौ लग्ने रवौ राज्ये धने सौम्येऽथवाऽम्बरे ।

लाभो लाभास्तगैः सौम्यैः पापैस्त्रिमध्यगैस्तथा ॥ ८७२ ॥

उच्चगेहे धनेऽप्युच्चे लग्ने तुंगे शुभेक्षिते ।

पृष्टे त्वायगते चन्द्रे लाभो भवति तत्क्षणात् ॥ ८७३ ॥

लग्ने लग्नेशसंयुक्ते लाभेशेऽभ्युदिते तदा ।

स्वोच्चे वा यातुकामे वा लाभो भवति सम्पदाम् ॥ ८७४ ॥

लाभे लाभेशसंहृष्टे लाभे शुक्रे गुरौ विधौ ।

लाभो भवति तत्कालं स्वस्यान्यस्य श्रिया समम् ॥ ८७५ ॥

लग्ने तुंगे सुखे तुंगे तुंगे पुत्रे शुभेक्षिते ।

तुंगे च लाभगे शुक्रे ग्रामदेशादि लभ्यते ॥ ८७६ ॥

शुभ ग्रह स्वोच्चादि में स्थित होकर लग्न धन, वा राज्य, स्थान में स्थित हों तो उसी क्षण लाभ कहना चाहिये यदि पुण्य स्थान शुभ ग्रह देखे तो भी लाभ होता है ॥ ८७१ ॥

गुरु लग्न में हो रवि राज्य स्थान में हो और शुभ ग्रह सप्तम वा दशम में हो तो लाभ होता है, और शुभ ग्रह यदि लाभ, तथा सप्तम में हो तथा पाप ग्रह तृतीय, मध्य में हो तो लाभ होता है ॥ ७७२ ॥

शुभ ग्रह उच्च का होकर, धन में तथा लग्न में हो, और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तथा पुष्ट चन्द्रमा लाभ स्थान में हो तो उसी समय लाभ होता है ॥ ८७३ ॥

लग्नेश लग्न में हो, तथा लाभेश अभ्युदित होकर उच्च में स्थित हो वा उस में जाने वाला हो तो सम्पत्ति का लाभ होता है ॥ ८७४ ॥

लाभ स्थान लाभेश से युक्त हो तथा लाभ स्थान में शुक्र, गुरु, चन्द्रमा, हो तो उसी समय अपना या दूसरे का धन से लाभ होता है ॥ ८७५ ॥

शुभ ग्रह उच्च का होकर लग्न, चतुर्थ, तथा पञ्चम भाव में और शुक्र उच्च का होकर लाभ स्थान में हो इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो देश अथवा ग्राम का लाभ होता है ॥ ८७६ ॥

मिथुने लाभगेहे तु चन्द्रे तत्रैव संस्थिते ।

बुधस्यात्यन्तवैरित्वाल्लाभो भवति वाल्पकः^१ ॥ ८७७ ॥

स्वगृहे मित्रगेहे च तुंगे गेहे तदोदिते ।

चन्द्रदृष्टे भवेल्लाभो लाभगेहे तु संपदाम् ॥ ८७८ ॥

मकबूले महायोगे मुंथसिलार्कमिश्रिते ।

प्रहैः सर्वेषु योगेषु लाभो भवति पृच्छताम् ॥ ८७९ ॥

चरलभे शुभैर्युक्ते लभे चन्द्रबलाधिके ।

त्रिकोणकेन्द्रगैः खेटैर्लाभो भवति निश्चितः ॥ ८८० ॥

यत्रान्यलाभयोगो न भवति नच संभवति शुभदृष्टम् ।

न तत्रान्वितलाभः प्रष्टुर्गणकेन निर्देश्यः ॥ ८८१ ॥

यो यो भावो भवेत्पुष्टो द्वादशक्षेत्रमध्यगः ।

तस्माद्दनादिपुत्रादिलाभो भवति तद्विधः ॥ ८८२ ॥

मिथुन लाभ स्थान में उस में चन्द्रमा स्थित हो तो बुध के अत्यन्त शत्रु के कारण लाभ वा अल्प लाभ होता है ॥ ८७७ ॥

कोई भी शुभ ग्रह स्वगृह, वा मित्र के घर, उच्च, का होकर लाभ स्थान में हो और उदित हो, और उस पर चन्द्रमा की दृष्टि हो तो सम्पत्तियों का लाभ होता है ॥ ८७८ ॥

मकबूल महायोग में, तथा सूर्य से युक्त मुथसिल हो, इसतरह सब ग्रहों के योग में प्रश्न कर्त्ता को लाभ होता है ॥ ८७९ ॥

चर लग्न हो उस में शुभ ग्रह स्थित हो और बलवान् चन्द्रमा लाभ स्थान में हो और ग्रह केन्द्र त्रिकोण में स्थित हो तो निश्चय लाभ होता है ॥ ८८० ॥

जहां पर और प्रकार का लाभ योग नहीं हो तथा शुभ ग्रहों की दृष्टि भी नहीं हो वहां लाभ नहीं कहे हैं ॥ ८८१ ॥

द्वादश भावों में जो जो भाव बलवान् हो उसी भाव के द्वारा उस प्रकार घनादि पुत्रादि का लाभ होता है ॥ ८८२ ॥

1. चालकः for वाल्पकः Bh. 2. नवसंस for A. नवसंस नवमंच Bh.

क्रियते केवलादर्शस्त्रैलोक्यस्य प्रकाशकः ।

श्रीमद्देवेन्द्रशिष्येण श्रीहेमप्रभसूरिणा ॥ ८८३ ॥

इति लाभप्रकरणम् ॥

दिनचर्याफलं वच्मि दुर्बोधं विदुषां सदा ।

अंशकस्थैर्ग्रहैः सर्वैः क्षणे क्षणे सकौतुकम्^१ ॥ ८८४ ॥

मदीयस्यास्य शास्त्रस्य यो नाम चोरयिष्यति ।

गोहत्यादिकृतं पापं तस्य सर्वं भविष्यति ॥ ८८५ ॥

दिनफले ग्रहाः सर्वे सुसंचार्या नवांशकाः ।

मासफले नवांशस्था रविशुक्रबुधा अपि ॥ ८८६ ॥

दृग् वाच्या दिनचर्यायां विंशतिश्च विशोपकाः^२ ।

दिने मासे फले चैवं नान्या दृष्टिर्विलोक्यते ॥ ८८७ ॥

दिनेन्दौ तुर्यगे सौमे तद्दिने भव्यभोजनम् ।

चन्द्रे पुष्टे मुखं पुष्टं क्रूरयुक्ते विपर्ययः ॥ ८८८ ॥

श्रीमान् देवेन्द्र के शिष्य हेमप्रभसूरि ने त्रैलोक्य प्रकाश का केवलादर्श किया ॥ ८८३ ॥

अंशों में स्थित ग्रह पर से क्षण क्षण में आश्चर्ययुक्त दिनचर्या फल को कहते हैं । जो कि पंडितों के लिये भी सर्वदा दुर्बोध है ॥ ८८४ ॥

जो मनुष्य हमारे इस शास्त्र को चुरायगा उसको गोहत्याकृत सब पाप होगा ॥ ८८५ ॥

दिन फल में सब ग्रहों को नवमांश में संचारण करके फल कहें एवं मासफल में नवांश में स्थित रवि, शुक्र, बुध का भी विचार करें ॥ ८८६ ॥

दिनचर्या फल में विशोपक दृष्टि कहनी चाहिये । दिन तथा मास के फल में अन्य दृष्टि का विचार नहीं करते हैं ॥ ८८७ ॥

सोम दिन में चन्द्रमा चतुर्थ में हो तो सुन्दर भोजन कहना चाहिये । चन्द्रमा पुष्ट हो तो मुख पुष्ट कहें और पाप ग्रह के योग से विपरीत होता है ॥ ८८८ ॥

1. नवफलम् for सकौतुकम् Bh. 2. विशोपकाः mss. 3. मुखं for मुखं Bh.

प्रातः प्रश्नेषु संचार्यो नवांशेऽभ्युदितः शशी ।
 धनांशे शुभदे दृष्टे धनं दत्ते सुभोजनम् ॥ ८८९ ॥
 सहजांशे वरं वक्ति भोज्यं दत्ते न किञ्चन ।
 तुर्यांशके महाभोज्यं सुतांशे तनयान् धनान् ॥ ८९० ॥
 षष्ठांशे रोगसंतापं सप्तमे प्रमदासुखम् ।
 अकस्मान्निर्वृतेःकर्त्री वार्ता पतति कर्णयोः ॥ ८९१ ॥
 दिनेन्दौ सप्तमे शुक्रे गुरुज्ञसहिते वदेत् ।
 वरस्त्रीभिर्महासौख्यं पञ्चदशघटीलयम् ॥ ८९२ ॥
 दिनेन्दावष्टमे कस्माद्रोगोद्वरणकं मृतिः ।
 क्रूरद्वयस्य मध्यस्थे बन्धनं निविडं वदेत् ॥ ८९३ ॥
 राहौ वाथ कुजे क्रूरे परस्मिन्नपि खेचरे ।
 अष्टमे स्वगृहेत्रैव दिनचन्द्रेऽसिना वधः ॥ ८९४ ॥

प्रातःकाल के प्रश्न में अभ्युदित चन्द्रमा को नवांश में संचार करके फल कहें, यदि चन्द्रमा धन भाव के नवांश में और शुभ दृष्टि हो तो धन और सुन्दर भोजन देता है ॥ ८८९ ॥

सहज भाव के अंश में सुन्दर बात कहें किन्तु भोजन कुछ नहीं मिले, और चतुर्थभाव के अंश में खूब सुन्दर भोजन मिले, पुत्र भाव के अंश में पुत्र और धन की प्राप्ति हो ॥ ८९० ॥

षष्ठ भाव के अंश में रोग, संताप, होता है, सप्तम भाव के अंश में खीसुख होता है, और अकस्मात् निर्वृत्तिक करने वाली बात कान में सुनाई दे ॥ ८९१ ॥

दिन चर्या में चन्द्रमा, शुक्र, गुरु, बुध, के साथ होकर सप्तम में हो तो सुन्दरी स्त्री से पन्द्रह घटी तक बहुत सुख होता है ॥ ८९२ ॥

दिनचर्या में चन्द्रमा अष्टम में हो तो अकस्मात् रोग हो जिस से मरण हो जाय, यदि दो पापग्रह के मध्य में हों तो दृढ़ बन्धन कहें ॥ ८९३ ॥

अष्टम में राहु, या मंगल, वा और कोई पाप ग्रह स्वगृही में हों इसी में चन्द्रमा हो तो शस्त्र से वध कहें ॥ ८९४ ॥

सिंहे सिहांशके सूर्ये चन्द्रे तत्रैव संस्थिते ।
 मृगश्रोदये जाते तद्दिने चासिना वधः ॥ ८९५ ॥
 मृगे मृशांशके सौरे चन्द्रे तत्रैव संस्थिते ।
 प्रश्ने च मिथुने जाते दिनचन्द्रेऽसिना वधः ॥ ८९६ ॥
 दिनेन्दौ सिंहपूजादि तीर्थस्नानं च दक्षिणा^१ ।
 पुण्यांशे जायते पुंसामकस्माद्विभवेदयः ॥ ८९७ ॥
 दिनेन्दौ दशमेऽकस्मात्पुंसां भवेत् पदं महः^२ ।
 गुरौ शुके पदेशे च रवियुक्ते नृपात्पुनः ॥ ८९८ ॥
 दिनेन्दौ लाभगे वाच्यं पञ्चदशघटीलयम् ।
 सकलैः खेचरैर्युक्ते निधिवस्त्रादिसम्पदम् ॥ ८९९ ॥
 व्ययगे च शुभैर्युक्ते विवाहादौ च सद् व्ययम् ।
 दिनेन्दौ पृच्छतां क्ररैर्धने व्यये च लग्नतः ॥ ९०० ॥

सिंह और सिंह के अंश में सूर्य, चन्द्रमा हो और मृगशिरा लग्न हो तो उसी दिन शस्त्र से वध कहना चाहिये ॥ ८९५ ॥

प्रश्न काल में मिथुन लग्न हो उस में चन्द्रमा स्थित हो या मृगशिरा, या मृगशिरा के अंश में शनि हो उस में चन्द्रमा हो तो शस्त्र से वध कहना चाहिये ॥ ८९६ ॥

दिनचर्या प्रश्न में चन्द्रमा सिंह में हो तो उस दिन पूजा, पाठ, तीर्थ स्नान, दक्षिणा, इत्यादि करते हैं । और यदि पुण्य भाव के अंश में हो तो अकस्मात् विभव का उदय होता है ॥ ८९७ ॥

चन्द्रमा यदि दशम में हो तो पुरुष को अकस्मात् पद का लाभ होता है । गुरु, शुक्र और पदेश, यदि रवि से युक्त हो तो राजा से पद का लाभ होता है ॥ ८९८ ॥

चन्द्रमा लाभ में हो तो पन्द्रह घटी लय होता है और सब शुभ ग्रहों से युक्त हो तो निधि, तथा वस्त्रादि सम्पत्ति प्राप्त होती है ॥ ८९९ ॥

1. दक्षिणा for दक्षिणा Bh. 2. महत् for महः Bh. 3. सम्पदः for सम्पदम् Fh.

तत्कालं जायते रोधो बन्धार्थं वैरतोऽपि वा ।

अनाथे क्रूरगे लग्ने लाभे क्रूरयुतेक्षिते ॥९०१॥

दिनेन्दौ शस्त्रघातेन मृत्युयोगेन जीवति ।

यदीन्दुदिनचर्यायां शुभः स्यादुदयास्तयोः ॥९०२॥

श्रेयांस्तदापि वक्तव्यः समस्तोऽपि हि वासरः ।

लग्ननाथे शुभैर्युक्ते लाभस्थाने सिते गते ॥९०३॥

दिनेन्दौ शस्त्रघातेन मृत्युयोगेऽपि जीवति ।

यत्रांशेऽभ्युदितो भास्वान् स संचार्यो नवोदिते ॥९०४॥

अथ रविवशात्फलम् ।

विबुधैः सग्रहे लग्ने ततो मासफलं वदेत् ।

मासफले च संचार्यो रविद्वादशभावतः ॥९०५॥

व्यय स्थान में शुभ ग्रह हो तो विवाहादि शुभ कार्यों में सद् व्यय होता है, और प्ररन काल में चन्द्रमा क्रूर ग्रहों के साथ धन, व्यय, लग्न, में हो ॥ ६०० ॥

तो उस काल में शत्रु से बन्धन के लिये अवरोध होता है, अपने स्वामी को छोड़ कर और पाप ग्रह लग्न में हो, तथा लाभ स्थान में पाप ग्रह का योग या दृष्टि हो ॥ ६०१ ॥

पूर्वोक्त योग में चन्द्रमा भी लाभ भवन में हो तो शस्त्र के घात से मृत्यु योग होने पर बच जाता है, यदि दिनचर्या में चन्द्रमा, उदय अस्त में शुभ हो ॥ ६०२ ॥

तो भी सन्पूर्व दिने श्रेष्ठ कहना चाहिये, लग्नेश, शुभ ग्रहों से युक्त हो और शक्र, लाभस्थान में हो ॥ ६०३ ॥

उस पूर्वोक्त योग में चन्द्रमा भी लाभ स्थान में हो तो शस्त्र घात से मृत्यु योग होने पर भी जीता है । जिस अंश में सूर्य उदित हो उस उस नवोदित अंश से सूर्य का संचार करें ॥ ६०४ ॥

यदि लग्न ग्रह से युक्त हो तो उस से पंडित लोग मास फल को कहें, मास फल के लिये सूर्य को द्वादश भाव में संचार करें ॥ ६०५ ॥

रवेरंशे च जायन्ते सत्रिभागा दिनास्त्रयः ।
 यत्रांशेऽभ्युदितो भास्यान् तदंशकपते रवेः ॥९०६॥
 मित्रता चेद् घृतिदृष्टिर्भवेत्तदा शुभं बहु ।
 एवं सर्वग्रहैर्योज्यमुच्चस्त्रमित्रसङ्गमः ॥९०७॥
 तदनुसारेण सर्वत्र फलं वाच्यं शुभाशुभम् ।
 मूर्तौ रवौ प्रतापाढ्योप्यधृष्यो द्विषतां पुनः ॥९०८॥
 धने च धननाशं च तृतीये क्रमभाषकः ।
 तुर्ये भोजनदौस्थ्यं तु सुते पुत्रस्य पीडनम् ॥९०९॥
 षष्ठे शत्रुविनाशः स्यात्सप्तमे न धृतिर्भवेत् ।
 आधिव्याधिधने छिद्रे नवमे पुण्यविप्लवः ॥९१०॥
 महत्पदं भवेद्राज्ये स्वल्पो लाभो हि लाभगे ।
 भूपादण्डो व्यये वाच्योऽशक्रादिकविचारणा ॥९११॥
 द्वादशरशिगो भास्वान् व्रते वर्षफलंस्फुटम् ।

रवि के अंश में त्रिभाग युक्त तीन दिन होते हैं, जिस अंश में सूर्य का उदय हो उस अंश के स्वामी से यदि सूर्य की मित्रता या घृति दृष्टि हो तो अनेक प्रकार का शुभ होता है इस प्रकार सब ग्रहों का उच्च, स्वगृह, तथा मित्रादि योगों का विचार करें ॥ ६०६—७

और उसके अनुसार सब जगह शुभाशुभ फल कहें, यदि लग्न में सूर्य हो तो वह प्रतापी भी हो तो धृष्ट तथा शत्रुता का भाव उसमें होता है ॥ ६०८ ॥

यदि धन स्थान में हो तो धन का नाश करने वाला होता है, और तृतीय में दुष्ट बात बोलने वाला होता है, और चतुर्थ में हो तो भोजन में दुःस्थिति होती है, पुत्र स्थान में हो तो पुत्र को पीड़ा होती है ॥ ६०६ ॥

और षष्ठ स्थान में शत्रु का नाश होता है, और सप्तम में हो तो अधैर्य्य वाला होता है, अष्टम में हो तो मानसिक व्याधि तथा धन होता है, नवम में पुण्य की हानि होती है ॥ ६१० ॥

राज्य स्थान में विशिष्ट पद की प्राप्ति होती है और लाभ में हो तो स्वल्प लाभ हाता है, व्ययस्थान में राजा से दण्ड होता है ऐसे अंशादिक विचार करें ॥ ६११ ॥

अथ गुरुफलम् ।

गुरुणा भावगे नैवं द्वादशाब्दफलं वदेत् ।

प्रतिवर्षं स संचार्यो बुधैर्द्वादशराशिषु ॥९१२॥

बृहस्पतिर्धनुमीने कर्के सिंहेऽन्त्यजेऽलिनि ।

कुरुतेऽप्युत्तमं लाभं मासत्रयोदशावधि ॥९१३॥

गुरुर्मूता जयं दत्ते धनवृद्धिं धनस्थितः ।

तृतीये मधुरं व्रते तुर्ये भोज्यं धनं धनम् ॥९१४॥

कान्तासुखं धनावाप्तिर्वाटिका भूमिकर्षणम् ।

कुटुम्बं मित्रसौख्यं च कुरुते हायनावधि ॥९१५॥

सुतेऽवश्यं सुतं दत्ते प्रतापं बुद्धिवैभवम् ।

षष्ठे रोगं रिपोर्बुद्धिं कुरुते स्वफलावधि ॥९१६॥

सप्तमे ललनासौख्यं शुक्रज्ञेन्दुयुते बहु ।

अष्टमे निश्चिता रोगाः पुष्ये सत्रादि कारयेत् ॥९१७॥

द्वादश राशियों में सूर्य के वश स्पष्ट वर्ष फल कहते हैं, इसी तरह द्वादश भावों में गुरु के वश द्वादशाब्द का फल कहते हैं ॥ ९१२ ॥

प्रतिवर्ष पंडित लोग द्वादश राशियों में गुरु का संचार करके फल कहें ॥

बृहस्पति यदि धनु, मीन, कर्क, सिंह, मेष, वृश्चिक, इन राशियों में हो तो त्रयोदश मास पर्यन्त उत्तम लाभ होता है ॥ ९१३ ॥

बृहस्पति, लग्न में हो तो जय, धन में हो तो धन की वृद्धि, तृतीये में हो तो मधुर वाक्य होता है । चतुर्थ में सुन्दर भोजन और बहुत धन होता है ॥ ९१४ ॥

और स्त्री सुख, धन की प्राप्ति, वाटिका, भूमिकर्षण तथा कुटुम्ब, मित्रों का सौख्य वर्षपर्यन्त होता है ॥ ९१५ ॥

सुत स्थान में अवश्य ही पुत्र, प्रताप, तथा बुद्धि वैभव होता है, और षष्ठ में रोग, शत्रु की वृद्धि अपने फल पर्यन्त करते हैं ॥ ९१६ ॥

सप्तम में स्त्री का सौख्य और वह शुक्र, बुध, चन्द्रमा से युक्त हो तो उस से विशेष सौख्य होता है, अष्टम में निश्चित रोग होता है और पुण्य भाव में हो तो सत्रादिक कराता है ॥ ९१७ ॥

पदेऽवश्यं पदाधिक्यं सर्वलाभं तु लाभगः ।

धर्माद् व्ययं व्यये दत्ते नीचादौ स्वल्पकं फलम् ॥९१८॥
इति गुरुफलम् ।

सौभाग्यं स्यत्सिते भूतौ सविभागमहस्त्रयम् ।

धने ध्रुवं धनाधिक्यं तृतीये भ्रातृपोषणम् ॥९१९॥

तुर्ये परस्त्रिया भोगो भोज्यं च सुरसं घृतात् ।

पञ्चमे बुद्धिसम्पत्तिः षष्ठे कुटुम्बविग्रहः ॥९२०॥

सप्तमे स्त्रीद्वयाश्लेषोऽप्यष्टमे श्लेषसंभवः ।

धनोत्पत्तिः स्वपत्नीभ्यः सविभागमहस्त्रयम् ॥९२१॥

पुण्ये सत्रप्रपादानमकस्माद् धनलब्धयः ।

पदे स्वोच्चे शुभैर्युक्ते राज्यं प्राज्यं ध्रुवं मतम् ॥९२२॥

पद स्थान में यदि गुरु हो तो पद का आधिक्य होता है और लाभ में हो तो सब तरह का लाभ होता है, और व्यय स्थान में हो तो धर्म मार्ग में व्यय होता है, और वह गुरु यदि नीचादि में हो तो अल्प फल होता है ॥ ६१८ ॥

याद शुक्र, लग्न में हो तो अपने विभागों के तीन दिन सौभाग्य होता है, और धन स्थान में हो तो धन का आधिक्य होता है तृतीय में हो तो भाई का पालन करता है, ॥ ६१९ ॥

चतुर्थ में शुक्र हो तो दूसरी स्त्री के साथ भोग करे और घृत आदि के सुन्दर रस युक्त भोजन मिले, यदि पञ्चम में हो तो बुद्धि, सम्पत्ति, होती है, और षष्ठ में हो तो कुटुम्ब का विग्रह होता है ॥ ६२० ॥

सप्तम में हो तो दो स्त्री से आश्लेष होता है और अष्टम भाव में भी श्लेष का सम्भव तथा अपनी स्त्री से धन की उत्पत्ति, विभाग से युक्त तीन दिन पर्यन्त ये फल होत हैं ॥ ६२१ ॥

यदि शुक्र पुण्य भाव में हो तो यज्ञ तथा जलशाला दान इत्यादि से धन का लाभ होता है । यदि उच्च का शक्र शुभ ग्रहों से युक्त हो कर पद स्थान में हो तो विशिष्ट राज्य अवश्य मिले ॥ ६२२ ॥

1. नीचे गुरौ for नीचादौ Bh. 2. पुण्ये for पुण्ये A., पुण्यो A.

लाभे शुक्रे महालाभः प्रतिवेश्म निघेरपि ।

व्यये तत्र महारंगात्स्त्रीरंगाच्च महाव्ययः ॥९२३॥

इति शुक्रफलम् ।

बुधे मूर्ता सकौटिल्यो धने च कपटाद्गनम् ।

तृतीये कुटिला वाणी तुर्ये शिल्पिषु कौशलम् ॥९२४॥

पञ्चमे कुटिला बुद्धिः षष्ठे कुलादिविग्रहः ।

घ्ने कुटिलसंग्रामस्त्वष्टमे भोजनाद्गुजा ॥९२५॥

नवमे कपटाद् धर्मो दशमे शिल्पिनां पदम् ।

एकादशे भवेह्लाभः अन्ते पूर्वधनव्ययः ॥९२६॥

इति बुधफलम् ।

भौमः पञ्चदिनान्मूर्ता स्वक्षेत्रे चोच्चगः शुभः ।

स्वहानिं तनुते वित्तं भौमः पञ्चदिनार्वाध ॥९२७॥

यदि लाभ स्थान में शुक्र हो तो निधि का भी महान लाभ होता है, प्रत्येक घर में विचार करें, यदि व्यय स्थान में हो तो महान् रंग से या स्त्री के रंग से धन का व्यय होता है ॥९२३॥

इति शुक्रफलम्

यदि लग्न में बुध हो तो कुटिल होता है, और धनस्थान में हो तो कपट से धन प्राप्त करता है, तृतीय में हो तो उसकी कुटिल बात होती है, चतुर्थ में हो तो शिल्पकला में कुशल होता है ॥९२४॥

पञ्चम में हो तो उसकी कुटिल बुद्धि होती है, षष्ठ में हो तो विग्रह हो, सप्तम में हो तो कुटिलता से संग्राम होता है, अष्टम में हो तो भोजन से रोग होता है ॥९२५॥

नवम में हो तो कपटता से धर्म हो, दशम में हो तो शिल्पियों का पद प्राप्त करे, और एकादश में हो तो लाभ होता है, द्वादश में हो तो पूर्व धन का व्यय होता है ॥९२६॥

इति बुधफलम् ।

मंगल, यदि उच्च तथा स्वगृही का होकर लग्न में हो तो पांच दिनों में शुभ होता है, और वह यदि धन में हो तो पांच दिन पर्यन्त अपनी ही हानि करता है ॥९२७॥

तृतीये बन्धुभिर्युद्धं चतुर्थे भूमिकर्षणम् ।
 पञ्चमे बुद्धिहानिं च षष्ठे स्वातन्त्र्यमुत्कटम् ॥९२८॥
 सप्तमे ललनायुद्धमष्टमे तनुपातनम् ।
 नवमे पुण्यपीडां च दशमे मन्त्रिविग्रहम् ॥९२९॥
 एकादशे निहन्त्यायुर्द्वादशे हठतो व्ययम् ।
 स्वक्षेत्रे मित्रगेहे च स्वोच्चे च तनुते शुभम् ॥९३०॥
 इति भौमफलम् ।

शनैर्मासत्रयं त्र्यंशे दारिद्र्यं कुरुते गृहे ।
 धने हन्ति धनं गेहे तृतीये भ्रातृसम्पदम् ॥९३१॥
 तुर्ये भोज्यश्रियं हन्ति पञ्चमे सुतपीडनम् ।
 षष्ठे दुष्टान् रिपून् हन्ति सप्तमे हन्ति निर्वातम् ॥९३२॥

तृतीय में हो तो बन्धुओं के साथ युद्ध करता है, चतुर्थ में भूमि
 कर्षण करता है, पञ्चम में हो तो बुद्धि की हानि हांती है, षष्ठ में हो तो
 स्वतन्त्र तथा उत्कट होता है ॥९२८॥

सप्तम में हो तो स्त्री का युद्ध, अष्टम में हो तो शरीर का पतन,
 नवम में पुण्य और पीड़ा होती है, और दशम में मन्त्री से विग्रह होता
 है ॥९२९॥

एकादश में हो तो आयु का नाश करता है, द्वादश में हो तो हठ
 से व्यय करता है, अपने घर, तथा मित्र के घर, या उच्च का मंगल हो तो
 शुभ फल देता है ॥९३०॥

इति भौमफलम् ॥

यदि शनि लग्न में हो तो तीन मास पर्यन्त दरिद्र करता है, और
 धन में हो तो धन का नाश होता है, तृतीय में हो तो भ्रातृ सम्पत्ति का
 क्षाभ होता है ॥९३१॥

चतुर्थ में हो तो भोज्य और लक्ष्मी दोनों का नाश करता है,
 पञ्चम में हो तो पुत्र की पीड़ा, षष्ठ में हो तो दुष्ट शत्रुओं का नाश करता
 है, और सप्तम में हो तो वृत्ति का नाश करता है ॥९३२॥

अष्टमे तु सुखं हन्ति पुण्ये कुर्याज्जिनव्रतम् ।
 पदेऽपि राजविध्वंसं लाभे हन्ति धनागमम् ॥९३३॥
 व्ययेऽनिष्टव्ययं दत्ते स्वक्षेत्रे शुभकारकः ।
 स्वोच्चे च मित्रभावे च शुभोऽयं तनुते शनिः ॥९३४॥
 इति शनिफलम्

दिनेन्दौ तनुते राहुर्मासद्वयं तनोर्घनाम्¹ ।
 पीडां करोति शस्त्राद्यैर्धने स्वं हन्ति तत्क्षणात् ॥९३५॥
 तृतीये भ्रातरं हन्ति तुर्ये भोज्यकुटुम्बके ।
 सुतेऽवश्यं घनान् पुत्रान् षष्ठे हन्ति रिपून् ध्रुवम् ॥९३६॥
 धृतां च परिणीतां च प्रेयसीं हन्ति सप्तमे ।
 अष्टमे च सुखं हन्ति मालिन्यं याति भाग्यगे ॥९३७॥

अष्टम में हो तो सुख का नाश करता है, और नवम में हो तो जैन मत का अवलम्बन करने वाला होता है, पद स्थान में हो तो राज्य का विध्वंस करता है । लाभ स्थान में हो तो धनागम का नाश करता है ॥९३३॥
 व्यय स्थान में हो तो अनिष्ट मार्ग में व्यय कराता है, और वही स्वक्षेत्र तथा स्वकीय उच्च में, मित्र भाव में हो तो शभफल को देता है ॥९३४॥
 इति शनिफलम् ।

यदि राहु लग्न में हो तो दो मास पर्यन्त शस्त्रादि से बहुत कठिन पीड़ा होती है, और धन भाव में हो तो उसी लग्न धन को नाश करता है ॥९३५॥

तृतीय में हो तो भ्राताओं का नाश करता है, और चतुर्थ में हो तो भोज्य तथा कुटुम्ब का नाश करता है, पुत्र भाव में हो तो बहुत पुत्रों का, और षष्ठ में हो तो शत्रुओं का नाश करता है, ॥९३६॥

राहु सप्तम में हो तो विवाहिता स्त्री, धृता, तथा प्रेम युक्ता का भी नाश होता है, अष्टम में हो तो सुख का नाश करता है, और भाग्य स्थान में हो तो उसको मालिन्य करता है ॥९३७॥

दशमे राज्यपदं हन्ति लाभौघं लाभगः पुनः ।
 व्यये महाव्ययं हन्ति राहुः सर्वत्र बाधकः ॥९३८॥
 इति राहुफलम् ।

वर्षफलं गुरोर्वाच्यं रवेर्मासफलं पुनः ।
 पञ्चदशघटीनां च चन्द्राद् वाच्यं दिने फलम् ॥९३९॥
 त्र्यंशांशकात्फलं चन्द्राद् घटीसार्द्धचतुष्टयम् ।
 ग्रहाणामंशकं ज्ञात्वा फलं वाच्यं दिनोद्भवम् ॥९४०॥
 दिनचर्याफले पुंसां क्षीणचन्द्रो न दृश्यते ।
 दृष्टौ योगे ममं चैव फलमंशगतं भवेत् ॥ ९४१ ॥
 जन्मलग्ने च तद्राशौ नामलग्नदिशांशके ।
 तत्कालकेऽथवा लग्ने दिनचर्याफलं वदेत् ॥ ९४२ ॥
 अथ ग्रहान्ते षड्वर्गांशकुण्डलिकाः कथ्यन्ते ।
 त्रिंशद्भागे दिनं चैकं बुधस्य रविशुक्रयोः ।
 सार्द्धं चतुष्टयं नाड्यः शशिनश्च सतां मताः ॥ ९४३ ॥

राहु दशम में हो तो राज्य पद का नाश करता है, और लाभ स्थान में हो तो लाभ नहीं होता है, और, व्यय स्थान में हो तो बहुत व्यय कराता है, बाधक राहु सब जगह नाश ही करता है ॥६३८॥
 इति राहुफलम् ।

गुरु से वर्ष फल, तथा रवि से मास फल और दिन में चन्द्रमा से पन्द्रह घटी का फल कहें ॥ ६३९ ॥

चन्द्रमा से त्रिंशांश के वश सार्द्धे चार घटी का फल कहें, और ग्रहों का अंश जान कर दिन का फल कहें ॥ ६४० ॥

दिनचर्या फल में क्षीण चन्द्र का विचार नहीं करें, और पूर्ण चन्द्र का दृष्टि तथा योग से समान फल होता है, वह जिस अंश में गत हो उस से फल का विचार करें ॥ ६४१ ॥

जन्म लग्न से, और नाम राशि से या प्रश्नकालिक लग्न से दिन चर्या फल कहना चाहिये ॥ ६४२ ॥

अब ग्रह के बाद षड्वर्गांश कुण्डली को कहते हैं—
 बुध, रवि, आर शुक्र, इन ग्रहों के त्रिंशांश पर से एक दिन का फल तथा चन्द्रमा से सार्द्धे चार घटी का फल कहें ॥ ६४३ ॥

मङ्गलस्य दिनं सार्द्धं मासमेकं शनैर्मतम् ।

अष्टादश दिनान्याहुः सिंहिकायाः सुतस्य च ॥ ९४४ ॥

गुरोस्त्रिंशंशभागाः स्युस्त्रयोदश दिनान्यहो^१ ।

निश्चितं श्रीमताप्युक्तं श्रीहेमप्रभसरिणा ॥ ९४५ ॥

इति त्रिंशंशकुण्डलिकाः ।

श्यामांगरविशुक्राणामुक्तं सार्द्धं दिनत्रयम्^२ ।

सपादैकादशेन्दोश्च घटिका द्वादशांशके ॥ ९४६ ॥

मासमेकं विजानीहि सार्द्धं दिनद्वयं गुरोः ।

सार्द्धं मासद्वयं चैव मन्दस्य कथितं बुधैः ॥ ९४७ ॥

सपक्षं मासमेकं च राहोस्तु कथितं सदा ।

त्रिभागसहितं त्रिद्वि मंगलस्य दिनत्रयम् ॥ ९४८ ॥

इति द्वादशांशकुण्डलिकाः ।

और मंगल से डेढ़ दिन, शनि से एक मास, और राहु से अठारह दिन का फल कहें ॥ ९४४ ॥

गुरु से त्रिंशंश के वश तेरह दिन का फल कहें इस प्रकार श्रीमान् हेमप्रभसूरि भी निश्चित फल कहे हैं ॥ ९४५ ॥

इति त्रिंशंशकुण्डलिकाः ।

बुध, रवि, शुक्र, इन ग्रहों से द्वादशांश के वश साढ़े तीन दिन का शुभाशुभ फल कहें, और चन्द्रमा से सवा ग्यारह घटी का फल कहें ॥ ९४६ ॥

गुरु से एक मास अढ़ाई दिन का फल जानें और शनि से अढ़ाई मास का फल कहें ॥ ९४७ ॥

राहु से द्वादशांश के वश डेढ़ मास का फल, और, मंगल से सवा तीन दिन पर्यन्त शुभाशुभ फल का द्वादशांश पर से विचार करें ॥ ९४८ ॥

इति द्वादशांशकुण्डलिकाः ॥

नवांशैर्ऽर्कसितज्ञानां सत्रिभागमहस्त्रयम् ।

नाड्यः पञ्चदशैवेन्दोर्भौमे पञ्चदिनानि च ॥ ९४९ ॥

मासो जीवे दिनानि स्युस्त्रिभागोनचतुर्दश ।

शनेर्मासत्रयं त्र्यंशो राहोर्मासद्वयं पुनः ॥ ९५० ॥

इति नवांशकुण्डलिकाः ।

श्रीहेलाशालिनां योग्यमप्रभीकृतभास्करम् ।

सूक्ष्मेक्षिकया चक्रेऽरिभिः शास्त्रमदूषितम् ॥ ९५१ ॥

क्रियते केवलादर्शस्त्रैर्लोक्यस्य प्रकाशकः ।

श्रीमद्वेन्द्रशिष्येण श्रीहेमप्रभसूरिणा ॥ ९५२ ॥

अथार्धकाण्डः ।

शुक्रास्ते भाद्रमासे शुभभगणगते वाक्पतौ सौख्यहेतौ

ज्येष्ठाद्याहे सुवारे शशिसुतधिषणे सूदिते निश्यगस्त्ये ।

करे भूपादिवर्गे विघटति^१ समये मङ्गले वक्रिते वा

सूर्य, शुक्र बुध, इन ग्रहों से नवांश के वश तृतीयांश तीन दिन का फल कहें, और चन्द्रमा से नवांश वश पन्द्रह घटी और मंगल से पांच दिन का फल कहें ॥ ९४९ ॥

गुरु से एक मास तृतीयांश ऊन चौदह दिन का फल विचार करें, और शनि से तृतीयांश युक्त तीन मास, तथा राहु से नवांश के वश दो मास का फल विचार करें ॥ ९५० ॥

इति नवांशकुण्डलिकाः ।

श्रीमान् हेलाशालिकायोग्य जो कि सूर्य को भी निस्तेज करते हैं, ऐसे वे श्रीमान् देवेन्द्र के शिष्य श्री हेमप्रभसूरि सूक्ष्म दृष्टि से शत्रु से अदृषित त्रैलोक्यप्रकाश नामक शास्त्र में केवलादर्श करते हैं ॥ ९५१-९५२ ॥

भाद्रमास में शुक्र अस्त हो, बृहस्पति शुभ राशि में हो तो सौख्य का कारण होता है, और ज्येष्ठ मास का पहला शुभ दिन बुध या गुरु का हो उस रात्रि में अगस्त्य का उदय हो और पाप ग्रह राजा आदि के

1. ०गा for ०गो A¹. 2. विघटित for विघटति Bh.

चाषाढ्यां पूर्वधिष्ण्ये प्रहरवसुगते जायते दिव्यकालम् १५३
 भौमेऽमात्येऽन्ननाथे कुशलकृतिरवेः संक्रमे वृश्चिके स्यात्
 आषाढ्यां सौम्यपूर्वे प्रसरति पवने दुर्दिने सर्वयामान् ।
 रात्रावाद्राप्रवेशे वृषभतनुगते सौम्ययुक्ते च सूर्ये
 चिह्नैरेतैः सुकालो जगति शुभकरो वर्षणे कृत्तिकायाम् ॥९५४॥
 रात्रौ संक्रान्तिराद्र्यामप्यगस्त्योदयो भवेत् ।
 तदा वर्षे सुभिक्षं स्याद् विपरीते विपर्ययः ॥ ९५५ ॥
 सौम्यादौ पञ्चके स्यात्सुरगुरुदितो दुःखदौर्गत्यकर्ता
 पित्र्यादौ वा चतुष्के भवति समुदितः सौख्यसद्भिक्षदाता ।
 चित्राद्यैर्वाष्टधिष्ण्यैः तृणसिंहिभयं संततं संविधत्ते
 कर्णादौ धिष्ण्यपन्तौ जगति वितनुते सौस्थ्यसम्पत्तिसौख्यम्

वर्गों में हो वा मंगल वक्री हो, और आषाढी पूर्णिमा में पूर्वाषाढ नक्षत्र
 हो और आठों प्रहर सुन्दर काल हो ॥ ६५३ ॥

राजा, मन्त्री, तथा अन्नाधिप ये रवि के संक्रान्ति काल में
 वृश्चिक में हो, आषाढी पूर्णिमा में उत्तरा, पूर्वा वायु चले और सब प्रहरों
 में दुर्दिन हो, और रात्रि में आर्द्रा का प्रवेश हो, सूर्य शुभ ग्रह से युक्त हो
 कर वृष लग्न में हो और कृत्तिका में वर्षा हो तो इन चिन्हों से संसार में
 शुभ कर समय होता है ॥ ६५४ ॥

रात्रि में आर्द्रा नक्षत्र म सूर्य की संक्रान्ति हो और अगस्त्य का
 उदय भी हो तो उस वर्ष में सुभिक्ष समय होता है और विपरीत होने
 पर विपरीत ही फल कहें ॥ ६५५ ॥

मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, इन नक्षत्रों में बृहस्पति
 उदित हो तो दुःख और दुर्गति करता है, और मघा, पूर्वफल्गुनी, उत्तर
 फल्गुनी, हस्त, इन नक्षत्रों में उदित हो तो सौख्य और सुभिक्ष होता है ।

चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ, उत्तरा-
 षाढ, इन नक्षत्रों में गुरु उदित हो तो तृणा, शीतादि का भय सतत होता
 और श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा पूर्वभाद्र, उत्तरभाद्र, रेवती, इन नक्षत्रों में
 उदित हो तो स्वस्थता सौख्य, और सम्पत्ति का विस्तार करता है ॥६५६

1. कालः for कालम् Bh. 2. भूपे for भौमे Bh. 3. ऽष्ययेप्य-
 क्क्यामहि for ऽष्यैः तृणसिंहि Bh.

उदग्वीथीं चरन् जीवः सुभिक्षक्षेमकारकः ।

मध्यमे मध्यमं चार्धमेवमन्येऽपि खेचराः ॥ ९५७ ॥

इति गुरुवारः ।

उत्तरेण ग्रहाणां तु चन्द्रवारो भवेद् यदि ।

सुभिक्षं विग्रहाभावो जायते तत्र वत्सरे ॥ ९५८ ॥

पञ्च ताग ग्रहा यत्र सोमं कुर्वन्ति दक्षिणे ।

भौमे च राजमारी च जनमारी च भार्गवे ॥ ९५९ ॥

बुधे रसक्षयं कुर्याद् गुरौ कुर्यान्निरोदकम् ।

शनावर्थक्षयं कुर्यान्मासे मासे निरीक्षयेत् ॥ ९६० ॥

चित्रानुराधा ज्येष्ठा च कृत्तिका रोहिणी तथा ।

मघा मृगशिरा मूलं तथाषाढाविशाखयोः ॥ ९६१ ॥

एतेषामुत्तरे मार्गे यदा चरति चन्द्रमाः

क्षेमं सुभिक्षमारोग्यं सुवृष्टिर्जायते तदा ॥ ९६२ ॥

यदि गुरु उत्तर वीथी से संचार करें तो सुभिक्ष और क्षेम कारक होते हैं, और मध्य वीथी से मध्यम अर्ध करते हैं इस तरह और ग्रह का भी विचार करें ॥९५७॥

इति गुरुवारः ।

जब चन्द्रमा ग्रहों के उत्तर मार्ग से जाते हैं तो, सुभिक्ष, विग्रह का अभाव उस वर्ष में होता है ॥९५८॥

पञ्चतारा ग्रह जहाँ पर चन्द्रमा को दक्षिण करते हैं, वहाँ यदि मंगल करे तो राजमारी अर्थात् कोई ऐसा उपद्रव जिससे राजा के तरफ से लोग मारे जाँय और शुक्र करे तो बहुत लोग मरें, ॥९५९॥

बुध करे तो रसों का क्षय, बृहस्पति करें तो पानी नहीं मिले, और शनि करे तो धन का क्षय होता है, इस प्रकार मास मास का फल विचार करें ॥९६०॥

चित्रा, अनुराधा, ज्येष्ठा, कृत्तिका रोहिणी, मघा, मृगशिरा, मूल, पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ, इन नक्षत्रों के उत्तर मार्ग से यदि चन्द्रमा संचरण करे तो कल्याण सुभिक्ष, आरोग्य, सुवृष्टि होते हैं ॥९६१-९६२॥

एतेषां दक्षिणे मार्गे यदा ऋति चन्द्रमाः ।

क्षयं गच्छन्ति भूतानि दुर्भिक्षं च भयं भवेत् ॥९६३॥

शुक्रोस्तमयते मासे फाल्गुने यदि निश्चितः ।

तदा दुर्भिक्षमादेश्यं षणमासावधि धीमता ॥ ९६४ ॥

चैत्रे तु स्याद्दले तुल्यो वैशाखेन चतुष्पदम् ।

ज्येष्ठे करोति वृष्टिं वा प्याषाढे जलशोषणम् ॥ ९६५ ॥

श्रावणे दधिदुग्धैस्तु भुवं सिञ्चति मेघतः ।

भाद्रपदे धनधान्यैर्मेघो हर्षात्प्रमोदते ॥ ९६६ ॥

आश्विनेऽपि सुखैर्भव्यो वृष्टिं करोति कार्तिकः ।

मार्गे च विग्रहो घोरो निश्छत्रं पौषमाघयोः ॥ ९६७ ॥

इति शुक्रास्तफलम् ।

समर्धयोगा एते ।

इन पूर्वोक्त नक्षत्रों के दाक्षिण मार्ग से चन्द्रमा यदि संचरणा करे तो प्राणियों का क्षय, दुर्भिक्ष और भय होता है ॥९६३॥

यदि शुक्र फाल्गुन मास में अस्त को प्राप्त करे तो छः मास पर्यन्त दुर्भिक्ष होगा ऐसा बुद्धिमान आदेश करें ॥९६४॥

यदि चैत्र में शुक्रास्त हो तो बल का आधिक्य होता है, वैशाख में हो तो चतुष्पद की वृद्धि, और ज्येष्ठ में शुक्रास्त हो तो वर्षा होती है, आषाढ में हो तो जल को सुखाता है ॥९६५॥

श्रावण मास में यदि शुक्रास्त हो तो मेघ से दधि दुग्धों की वर्षा से पृथ्वी का सेचन होता है, और भाद्रपद मास में हो तो बहुत धन धान्य होता है । जिस से लोग हर्षित होकर आनन्द से रहते हैं ॥९६६॥

आश्विन में हो तो बहुत सुख पूर्वक आनन्द से लोग रहते हैं, और कार्तिक में शुक्रास्त होने से वर्षा होती है अग्रहण में हो तो घोर विमह होता है, और पौष माघ में होने से निश्छत्र होता है ॥९६७॥

इति शुक्रास्तफलम् ।

तुलाषट्कविपर्याये ज्ञातिवारोऽपि संतते ।

ज्येष्ठे शुक्रद्वितीयेन्दोत्रोद्गीयोगे महर्षकः ॥ ९६८ ॥

बुधश्चत्प्रथमो वारः सर्वमासाद्यवासरे ।

भवेत्तदा त्रिभिर्मासैर्महर्षं जायते ध्रुवम् ॥ ९६९ ॥

मासाद्यदिवसे वारो बुधो भवति चेद् यदा ।

मासत्रये महर्षं स्याद् भावे वर्षं विनश्यति ॥ ९७० ॥

अमावास्यातिथौ धिष्ण्यं यदा भवति कृत्तिका ।

ईतिर्धना क्षितौ नूनं वर्षे तत्र भविष्यति ॥ ९७१ ॥

ध्रुवमरुपदाधिष्ण्ये यदा क्रमं भवन्ति वा ।

तदा सर्वं भवेद्वाच्यं महर्षं भूतले तदा ॥ ९७२ ॥

सप्तम्यां सोमवारः स्यान्माघे पक्षे मिते यदा ।

दुर्भिक्षं जायते रौद्रं विग्रहोऽपि च भूभुजाम् ॥ ९७३ ॥

वारे चतुर्थे यदि पञ्चमे वा धिष्ण्ये तृतीये यदि पञ्चमे वा ।

पूर्वक्रमात्मंक्रमणं यदा स्यात्तदा च दौस्थ्यं नृपविश्वरंच ॥ ९७४ ॥

तुलादि षट् राशियों में बुध का आतिचार हो, और ज्येष्ठ शुक्र द्वितीया में चन्द्रमा से रोहिणी का योग हो तो महर्ष होता है ॥६६८॥

सब मासों के प्रथम बुध का ही वार हो तो तीन मास तक निश्चय महर्ष होगा ॥६६९॥

यदि मासों का दिन बुध का ही दिन हो तो तीन मास में महर्ष होना है और वर्ष पर्यंत उसका भाव नष्ट ही रहता है ॥६७०॥

यदि अमावास्या तिथि में कृत्तिका नक्षत्र हो तो उस वर्ष में ईति का उपद्रव पृथ्वी पर बहुत होता है ॥६७१॥

यदि पूर्वभाद्र नक्षत्र में पापग्रह हो तो पृथ्वी में सब वस्तु को महर्ष ही कहना चाहिये ॥६७२॥

यदि माघशुक्र मगमी को सोमवार हो तो बहुत कठिन दुर्भिक्ष होता है, और राजाओं का विग्रह भी होता है ॥६७३॥

बुध, या बृहस्पतिवार में और कृत्तिका या, मृगशिरानक्षत्र में पूर्व क्रम से यदि संक्रान्ति हो तो दुःस्थिति होती है, और राजाओं का विग्रह भी होता है ॥६७४॥

सङ्क्रान्तिधिष्ण्याद्यदि षष्ठसंख्ये जायेत धिष्ण्ये रविसंक्रमोऽपि
तदापि दौस्थ्यं नृपविध्वरंश्च त्रिभागतुच्छा भवति हि पृथ्वी ९७५
तुर्ये धिष्ण्ये च पूर्वस्माद्यदि वारे तृतीयके ॥

संक्रमो यदि^२ सूर्यस्य सुभिक्षं स्थात्तदोत्तमम् ॥ ९७६ ॥

सूर्यस्यान्यग्रहाणां वा गुरुभेऽभ्युदयास्तमौ^३ ।

शशिदृष्टौ सुभिक्षं स्याद्दुर्भिक्षं लघुभे पुनः ॥ ९७७ ॥

तिथिदिनोडुलग्नानामाद्यकण्ठे रविस्थतौ ।

सुभिक्षं जायतेऽवश्यं दुर्भिक्षं तु त्रिकण्ठके ॥ ९७८ ॥

मित्रस्वगृहतुंगस्थः शुभदृष्टियुतो रविः ।

पूर्णचन्द्र महाधिष्ण्ये पूर्वसङ्क्रान्ति तुर्यके ॥ ९७९ ॥

तृतीयवारसम्बद्धः सुभिक्षः क्षेमदः स्मृतः ।

सुप्तोऽरिभिर्युतो दृष्टो विद्धः क्रूरस्तु नीचगः ॥ ९८० ॥

बुध के संक्रान्ति नक्षत्र से छठ नक्षत्र में यदि रवि की भी संक्रान्ति हा ता भी लोगों की दुःस्थिति होती है, तथा राजाओं के विग्रह से त्रिभाग शून्य पृथ्वी हो जाती है ॥ ९७५ ॥

उस संक्रान्ति से चतुर्थ नक्षत्र में मंगल दिन यदि सूर्य की संक्रान्ति हो तो उत्तम रूप से सुभिक्ष हाता है ॥ ९७६ ॥

सूर्य का या अन्य ग्रहों का गुरुनक्षत्र में उदय, वा अस्त हो उस पर चन्द्रमा की दृष्टि हो तो सुभिक्ष होता है, और लघुसंज्ञक नक्षत्र में उदयास्त हो तो दुर्भिक्ष होता है ॥ ९७७ ॥

तिथि, दिन, नक्षत्र, राशि, इनके प्रथम कण्ठक रवि स्थित हों तो अवश्य ही सुभिक्ष होता है, और त्रिकण्ठक में हों तो दुर्भिक्ष होता है ॥ ९७८ ॥

मित्र स्वगृह, उच्च, आदि में स्थित सूर्य शुभ ग्रहों की दृष्टि से युक्त हो और पूर्ण चन्द्रमा पूर्व के संक्रान्ति से चतुर्थ नक्षत्र बृहत् संज्ञक में हो और मंगलवार भी हो तो, सुभिक्ष, और कल्याण करता है, और वही सूर्य शत्रु ग्रहों से युक्त हो, तथा पापग्रहों से विद्ध होकर

1. धिष्ण्यं for धिष्ण्याद् Bh. 2. निशि for यदि Bh. 3. ंगौ for ंगौ Bh.

तुच्छमुहूर्तसङ्क्रान्तिः पूर्वस्माद् द्विकपञ्चके ।

सप्तविकल्पसङ्क्रान्तौ दुर्भिक्षं जायते ध्रुवम् ॥ ९८१ ॥

[पूर्णिमाचन्द्रयोगेनाप्यर्धवृद्धिहानी]

तुल्यार्ध पूर्णिमायां तु मृगादिधिष्ण्यपञ्चके ।

मघाचतुष्के दुर्भिक्षं चित्राद्येऽष्टसु दुस्तटम् ॥ ९८२ ॥

कर्णादौ दशके धिष्ण्ये सुभिक्षं सततं भवेत् ।

अमावास्यादिने योगे पुनर्वस्वादिपञ्चके ॥ ९८३ ॥

समर्धमघ^३दुर्भिक्षमुत्तरादिचतुष्टये ।

विशाखाज्येष्ठ^४के रौद्रं दुर्भिक्षं तु विजायते ॥ ९८४ ॥

नीच में हो और सुप्त संक्रान्ति करता हो, पूर्व के संक्रान्ति से द्वितीय या पञ्चम, तुच्छ मुहूर्त में इन सातों की विकल्पक संक्रान्ति में ध्रुव ही दुर्भिक्ष होता है ॥ ९८१-९८२ ॥

पूर्णिमा में, मृगशिरा आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, इन नक्षत्रों का योग हो तो अर्थ की समता रहती है, और मघा, पूर्वफल्गुनी, उत्तरफल्गुनी, हस्त, इन नक्षत्रों के योग होने से दुर्भिक्ष होता है, और चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ, इन नक्षत्रों के योग में भी दुर्भिक्ष होता है ॥ ९८२-९८४ ॥

श्रवण आदि दश नक्षत्रों के योग होने से सर्वदा सुभिक्ष होता है । अमावास्या के दिन, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वफल्गुनी, इन पांच नक्षत्रों का योग हो ॥ ९८३ ॥

तो समर्ध होता है, और उत्तरफल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती इन चार नक्षत्रों का योग हो तो दुर्भिक्ष होता है और विशाखा, आदि के आठ नक्षत्रों में बहुत कठिन दुर्भिक्ष होता है ॥ ९८४ ॥

1. त्रिक for द्विक A¹ 2. ज्येष्ठःसु for ऽद्येऽष्टसु Bh. 3. ऽमघ for ऽमर्ध Bh. 4. ऽद्य० for ऽज्ये० A.

भवेच्छतभिषक्दश नक्षत्रेषु सुभिक्षकम् ।

एवं पक्षद्वये प्रोक्तं योगे योगे फलं वदेत् ॥ ९८५ ॥

तिथिनक्षत्रयोः सौम्यमृगादिधिष्ण्यपञ्चके ।

पूर्णिमायां विधेयोगे तुल्याघशमनं भवेत् ॥ ९८६ ॥

सौम्यैकवक्रोऽप्यशुभोऽतिचारः करोति सर्वं विफलं समर्घम् ।

क्रूरैकवक्रः शुभदोऽतिचारो धान्यं विधत्ते भुवने महर्घम् ॥ ९८७ ॥

सुभिक्षं च तदैव स्याद्वक्रत्वं सितसौम्ययोः ।

वक्रत्वे तु गुरोर्नूनं राशिप्रान्ते समर्घकम् ॥ ९८८ ॥

कन्यायां बुधवक्रत्वे सुभिक्षं निश्चितं मतम् ।

वर्षाकालेऽप्यतीचारे समर्घं भुवि जायते ॥ ९८९ ॥

भौमाकर्ष्योरप्यतीचारे सुभिक्षं भवति स्फुटम् ।

सौम्यानामप्यतीचारे धिष्ण्यहानौ च निष्फलम् ॥ ९९० ॥

शतभिषा से दश नक्षत्रों में सुभिक्ष होता है, इस प्रकार दोनों पक्षों में कहा और योग योग में ऐसे फल बहे ॥६८५॥

इस प्रकार शुभ तिथि नक्षत्रों के योग से सुभिक्ष होता है, पूर्णिमा में मृगशिरा आदि के पांच नक्षत्रों में चन्द्रमा का योग हो तो तुल्याघ तथा शान्ति होती है ॥६८६॥

एक शुभग्रह वक्र हो, और अशुभग्रह अतिचार हो तो वह सब समर्घ को नष्ट करता है, और एक पापग्रह वक्र हो और शुभग्रह अतिचार हो तो वह धान्य को महर्घ करता है ॥६८७॥

बुध, शुक, वक्र हो तो सुभिक्ष होता है, और, गुरु यदि वक्र हो तो राशि के अन्त में समर्घ होता है । ६८८॥

कन्याराशि बुध वक्री हो तो निश्चय सुभिक्ष होता है, और वर्षा काल में भी अतिचार हो तो भी पृथ्वी में समर्घ होता है ॥६८९॥

भौम, शनि के भी अतिचार में सुभिक्ष होता है । शुभ ग्रहों के अतिचार में भी यदि नक्षत्र की हानि हो तो निष्फल होता है ॥६९०॥

1. भावदश for भवेच्छतं A¹. . 2. ०र्ध्यमशनं for घशमनं A, Bh.

मेषादित्रितये सूर्ये शुभयुक्ते तिथिक्षये ।

कर्णादौ पूर्णिमायोगे महर्घं तु हठाद्भवेत् ॥ ९९१ ॥

स्वातिमुख्याष्टमे जीवे अश्विन्यादित्रिकेऽपि वा ।

शनिराहुकुजैश्चैवं प्रत्येकं सहितो भवेत् ॥ ९९२ ॥

सञ्चरन्ति यदा काले सुभिक्षं जायते क्षिप्तौ ।

मृगादिदशके जीवे धनिष्ठापञ्चकेऽपि वा ॥ ९९३ ॥

भौमादिसहितो गच्छेद् दुर्भिक्षं तत्र जायते ।

एकराशिगतं चैवमेकैर्क्षेत्रं च महद् भवेत् ॥ ७९४ ॥

त्रिकपञ्चकयोगौ विस्तरतो व्याख्यायेते ।

स्वात्याद्यष्टकसंयुक्तमश्विन्यादित्रिकं पुनः ।

त्रिकसंज्ञं बुधैर्वाच्यमर्घकाण्डं विशारदः ॥ ९९५ ॥

मेषादि, तीन राशि में शुभ युक्त सूर्य हो और तिथि क्षय हो और पूर्णिमा में श्रवणा आदि नक्षत्रों का योग हो तो हठत् महर्घ होता है ॥६६१॥

स्वाती आदि के आठ नक्षत्रों में वा अश्विन्यादि तीन नक्षत्रों में बृहस्पति हो और शनि, राहु, मंगल इन प्रत्येक से युक्त हो ॥६६२॥

पूर्वोक्त योग विशाष्ट गुरु जब सञ्चार करें उस काल में पृथ्वी में सुभिक्ष होता है, मृगशिरा आदि के दश नक्षत्र में वा धनिष्ठा, आदि के पांच नक्षत्रों में बृहस्पति ॥६६३॥

मंगल, शनि, राहु से युक्त गुरु पूर्व नक्षत्र में सञ्चार करें तो दुर्भिक्ष होता है, यदि ये एक राशि में हों तो एक वर्ष पर्यन्त महान् भय होता है ॥६६४॥

अथ त्रिकपञ्चकयोगौ विस्तरतो व्याख्यायेते—

स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ श्रवणा, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, इन नक्षत्रों का त्रिक संज्ञक, अर्घकाण्ड में निपुण पंडित कहते हैं ॥६६५॥

1. A. adds:—धनुर्मकरकुम्भेषु यत्क्रीतं धान्यं जीवनम् ।

तत्कर्क मथुने देयं पतिता सितपंचमी ॥

2. ०मेवर्ष for ०मेकर्ष Bh.

मृगादिदशकं चापि धनिष्ठापञ्चसंयुतम् ।

पञ्चकनामकं ज्ञेयमर्घनिर्णयहेतुकम् ॥ ९९६ ॥

त्रिकयोगे त्रिको योगः पञ्चके पञ्चकः पुनः ।

गृह्यते च त्रिके योगे दीयते पञ्चके घनम् ॥ ९९७ ॥

त्रिके च जीवराशेश्च क्रूरा यदि त्रिके गताः ।

अन्योन्यं वा^१ त्रिके च स्युर्गृह्यते तत्क्रयाणकम् ॥ ९९८ ॥

पञ्चके जीवराशेस्तु गच्छन्ति यदि पञ्चके ।

अन्योन्यं पञ्चके वा स्युर्दीयते तत्तदैव हि ॥ ९९९ ॥

यथा धिष्ण्ये त्रिके चन्द्रः क्रेतव्यं तत्क्रयाणकम् ।

यदा च पञ्चके चन्द्रो विक्रेतव्यं तदाखिलम् ॥ १००० ॥

मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वफल्गुनी, उत्तरफल्गुनी, हस्त, चित्र, और धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वभाद्र, उत्तरभाद्र, रेवती, इन नक्षत्रों को अर्घ्य निर्णय के लिये पंडित पञ्चक संज्ञक कहते हैं ॥६६६॥

त्रिकयोग में त्रिकयोग होता है और पञ्चक नक्षत्र के योग में पञ्चक योग होता है, त्रिक योग में वस्तु ग्रहणा करना चाहिये, और पञ्चक योग में वस्तु देना चाहिये ॥६६७॥

यदि गुरु के राशि त्रिक में हों या पापग्रह त्रिक में वा दोनों परस्पर त्रिक में हों तो खरीद करने योग्य वस्तु को ग्रहणा करना चाहिये ॥६६८॥

यदि गुरु की राशि पञ्चक में हो या पापग्रह पञ्चक में हो वा दोनों परस्पर पञ्चक में हों तो उस वस्तु को उसी समय देना चाहिये ॥६६९॥

जब चन्द्रमा त्रिक में हो तो खरीदने योग्य वस्तु को खरीदना चाहिये, यदि चन्द्रमा पञ्चक में हो तो उस सब वस्तु को उसी समय बेच लेना चाहिये ॥१०००॥

जीवात्त्रिके तमः सौम्यीमा एभ्यो गुरुत्रिके ।

अन्योऽन्यं पञ्चके जीवे देहि त्वाहि त्रिके कण्ठात् ॥१००१॥

मासार्धवर्षार्धाः ।

त्रिके यदि ग्रहाः सर्वे जीवान्मन्दतमः कुजः ।

तदा भुवि महर्षं स्थात्तियौ वृद्धौ विशेषतः ॥ १००२ ॥

यदा स्याज्जीवयोमेन मरुके धिष्ण्यपञ्चके ।

तदा किञ्चिन्महर्षं स्यात् सौम्यवासरगं पुनः ॥ १००३ ॥

पञ्चके चेद्ग्रहाः सर्वे संमिलन्ति यदैव हि ।

तदा भुवि महर्षं स्याद् धिष्ण्यहानौ विशेषतः ॥ १००४ ॥

राशिपञ्चकयोगे तु धिष्ण्यत्रिकं यदा भवेत् ।

तदा किञ्चित्समर्षं स्यात्सौम्यवक्रं शुभं बहु ॥ १००५ ॥

संसिरा तु यदा जीवो राशिनक्षत्रपञ्चके ।

घोरं दौस्थ्यं तदा ज्ञेयमृक्षे न्यूनेति गौरवम् ॥ १००६ ॥

गुरु से त्रिक में राहु, शनि, मंगल, हो और उन से त्रिक में गुरु हो या परस्पर दोनों पञ्चक में हों तो क्रयायाक वस्तु देनी चाहिये, यदि दोनों परस्पर त्रिक में हों तो उस वस्तु को ग्रहण करें ॥१००१॥

अथ मासार्ध वर्षार्धाः—

याद जीव सं त्रिकमें शनि, राहु, मंगल हों तो पृथ्वी में महर्ष होता है, और तिथि वृद्धि हो तो विशेष महर्ष होता है ॥१००२॥

यदि त्रिक, या पञ्चक नक्षत्र में जीव का योग हो तो कुछ महग होती है, और शुभ ग्रहों का योग हो तो विशेष मेंग होती है ॥१००३॥

पञ्चक में सब ग्रह सम्मिलित हो जाय तो पृथ्वी में महर्ष होता है, और नक्षत्र का लय हो तो विशेष महर्ष होता है ॥१००४॥

पञ्चक, तथा त्रिक, नक्षत्र राशि के योग से कुछ समर्ष होता है, और शुभ ग्रहों को वक्र होने पर बहुत शुभ होता है ॥१००५॥

संसिरा जीव यदि पञ्चक राशि नक्षत्र में हो तो घोर, दौस्थ्य होता है और नक्षत्र का लय होने से अत्यन्त गौरव होता है ॥१००६॥

१. केप्लेरे लक्ष्णाहि for जीवे देहि लाहि Bh. 2. वैद्योपक for वासकां A, योगेधिकं Bh. 3 चक्रे for वक्रे Bh. 4. मंशरासु for संसिरा तु Bh.

राशिधिष्ण्ये त्रिके पूर्वे ग्रहाः सर्वे भवन्ति चेत् ।

महासौस्थ्यं तदा भूम्यां सौम्यवक्रे महोत्सवः ॥ १००७ ॥

इत्यर्धकाण्डम् ।

नक्षत्रपद्धत्या त्रिकपञ्चकयोगो दक्षितः । साम्प्रतं द्वितीयराशि-
पद्धत्या त्रिकपञ्चकयोगौ प्रतिषट्ठयन् सांवत्सरिकमप्यर्धं
प्रति पादयति —

मानुवक्रतमः^१ क्रोडास्त्र^३तीयस्था गुरोर्यदि ।

सुभिक्षं जायते सत्यमीदृशे योगसंकटे ॥१००८॥

तमोवक्रमविप्राद्याश्चत्वारः क्रस्वेचराः ।

तृतीयस्थाः श्नेरेते सौस्थ्यसद्भिश्चकारकाः ॥१००९॥

मानुवक्रतमः क्रोडाः पञ्चमस्था गुरोर्यदि ।

दुर्भिक्षं जायते तत्र घोरं योगे समागते ॥१०१०॥

मानुवक्रतमः क्रोडा द्विपञ्चनवसप्तगाः ।

द्वादशस्था गुरोरेते मञ्जन्ति सकलं जगत् ॥१०११॥

त्रिक राशि नक्षत्र में सब ग्रह हों तो पृथ्वी पर महान् सौस्थ्य होता है और शुभ ग्रह वक्री हो तो महान् उत्सव होता है ॥१००७॥

नक्षत्र पद्धति से त्रिक पञ्चक योग दिखाया, अब द्वितीय राशि पद्धति से त्रिक पञ्चक योग को कहते हुए संवत्सर का अर्थ काण्ड कहते हैं ।

यदि सूर्य, मंगल, राहु, ये गुरु से तृतीय में हों तो ऐसे बीज संकट में सुभिक्ष होता है ॥१००८॥

यदि शनि से राहु, मंगल, सूर्य आदि के चार पापग्रह तृतीय में हों तो स्वस्थता तथा सुभिक्ष को करते हैं ॥१००९॥

यदि गुरु से सूर्य, मंगल, राहु, ये पंचम में हों तो ऐसे योग में सुभिक्ष होता है ॥१०१०॥

यदि गुरु से सूर्य, मंगल, राहु, ये पापग्रह द्वितीय, पञ्चम, सप्तम, नवम द्वादश में हों सम्पूर्णा संसार को नष्ट करता है ॥१०११॥

1. तमोवक्र for मानुवक्र A, A^१. 2. पञ्चमस्था for तृतीयस्था A, A^१.

तमोवक्रसवित्राद्याश्चत्वारः क्ररखेचराः ।

पञ्चमस्थाः अनेरेते दौस्थ्यदुर्भिक्षकारकाः ॥१०१२॥

मन्दराहोरपि क्ररास्तृतीये सौस्थ्यकारकाः ।

एतयोः पञ्चमाः क्रराः दुःखदुर्भिक्षहेतवः ॥१०१३॥

बृहस्पतितमःसौरिमङ्गलानां यदैककः ।

त्रिके च पञ्चके कार्या धान्यस्य क्रयविक्रयौ ॥१०१४॥

सत्यारतमसो युक्ता धनुमीने स्थिता यदा ।

पृथ्वीत्रिभागशेषा च दुर्भिक्षं च तदा भवेत् ॥१०१५॥

त्रिकपञ्चकयोगौ द्वौ व्याख्यातौ गुरुदर्शितौ ।

योगं वदामि रोहिण्या ग्रहयोगाच्छुभाशुभम् ॥१०१६॥

रोहिण्या सौम्ययोगेन क्ररदर्शनवर्जिते ।

उत्तरगौ ग्रहैः सर्वैः सुभिक्षं निश्चितं भवेत् ॥१०१७॥

यदि शनि से पञ्चम में राहु, मंगल, सूर्य, आदि के चार पापग्रह हों तो दुःस्थिति तथा दुर्भिक्ष करते हैं ॥१०१२॥

और शनि, राहु से भी तृतीय में पापग्रह हों तो स्वास्थ्यकारक होते हैं, तथा इन दोनों से पञ्चम में पापग्रह हों तो दुःख, और दुर्भिक्ष का कारण होते हैं ॥१०१३॥

बृहस्पति, राहु, शनि, मंगल, ये एक एक करके यदि त्रिक संज्ञक में हो तो धान्य खरीदना चाहिये, और यदि वे पञ्चक संज्ञक में हों तो धान्य का विक्रय करना चाहिये ॥ १०१४ ॥

शनि, मंगल, राहु, ये सब ग्रह यदि धनु, या मीन में स्थित हों तो पृथ्वी का तृतीयांश ही शेष बचता है और दुर्भिक्ष होता है ॥१०१५॥

गुरु से दिखाये हुए उन दोनों त्रिक, पञ्चक योगों को मैंने कहा, और अब ग्रहों के योग से रोहिणी का शुभाशुभ फल कहता हूँ ॥१०१६॥

रोहिणी में शुभग्रहों का योग हो और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं हो और सब ग्रह उसके उत्तर मार्ग में हों तो निश्चय सुभिक्ष होता है ॥ १०१७ ॥

1. सन्यारतमः सौ for सत्यारतमसो A. 2. उत्तरमे० for उत्तरगे० A.

चन्द्रस्तोकमपि व्योम्नि रोहिणीशकटं स्पृशन्^१ ।
 उदग्च्छति यदा वाच्यं दुर्भिक्षं तत्र नित्यशः ॥१०१८॥
 रोहिण्या यदि मध्येन चन्द्रो गच्छति पाटयन् ।
 तदा दुस्थं विजानीयात्^३ क्रयुक्ते विशेषतः १०१९॥
 अथ चन्द्रो यदा ब्राह्मीं दक्षिणेनैव गच्छति ।
 दुर्भिक्षेण तदा भूमैर्युगान्त इव जायते ॥१०२०॥
 रोहिण्यामेकनक्षत्रे स्यातां चन्द्रदिवाकरौ ।
 द्वितीयायां प्रजाहानिर्दुर्भिक्षेण भयेन वा ॥१०२१॥
 कुजः शनिर्वा राहुर्वा भिनत्ति यदि रोहिणीम् ।
 ध्रुवं तदा पदाम्भोधौ निमज्जति जगज्जनः ॥१०२२॥
 यदि तत्र च चन्द्रारराहुमन्दास्तु दक्षिणाः ।
 तस्यास्तदा बुधैर्वाच्यो महांश्च प्रलयो भुवः ॥१०२३॥

आकाश में चन्द्रमा थोड़ा भी रोहिणी शकट का भेदन करता हुआ उदय हो तो वहां नित्य दुर्भिक्ष होता है ॥ १०१८ ॥

यदि चन्द्रमा रोहिणी शकट के मध्य को भेदन करता हुआ उदय हो तो दुस्थिति होती है और यदि पापग्रह का योग हो तो विशेष दुःस्थिति होती है ॥ १०१९ ॥

यदि चन्द्रमा रोहिणी शकट के दक्षिण से जाय तो पृथ्वी में युगान्त के समान दुर्भिक्ष होता है ॥ १०२० ॥

यदि चन्द्रमा, सूर्य, दोनों एक साथ, द्वितीया को रोहिणी नक्षत्र में हों तो दुर्भिक्ष से तथा भय से प्रजा की हानि होती है ॥ १०२१ ॥

मंगल, शनि, वा राहु, यदि रोहिणी शकट को भेदन करें तो निश्चय संसार के लोग पानी में डूबते हैं ॥ १०२२ ॥

यदि चन्द्रमा, मंगल, राहु, शनि, रोहिणीशकट के दक्षिण में हों तो पण्डित लोग पृथ्वी का महाप्रलय बहें ॥ १०२३ ॥

1. स्पृशेत् for स्पृशन् A. 2. गच्छन् विपाटयन् for गच्छति पाटयन् A. 3. तदा हि दुस्थं जानीयात् for तदा दुस्थं विजानीयात् A. 4. स्येत्स्यातां चन्द्रदिवाकरौ for स्यातां चन्द्रदिवाकरौ A.

चन्द्रमण्डलमध्येन वेधं कुर्वन्ति वेदग्रहाः ।

दुर्मिथं जायते अशुभं विग्रहोऽप्यन्तरान्तरा ॥१०२४॥

यदा ग्रहेण सौम्येन क्रूरेणापि च सम्मुखः ।

विद्वः क्रूरः शुभो वापि दुर्मिथं तत्र निश्चितम् ॥१०२५॥

सर्वनक्षत्रमध्येन रोहिणी पतिता त्रिके ।

सौम्ययोगे शुभे च स्यादशुभा क्रूरयोगतः ॥१०२६॥

इति रोहिणीयोगाः ।

अथाषाढीयोगं वच्मि —

मीनसंक्रान्तिकाले च पौष्णभागे दिने भवेत् ।

यत्र विद्युच्छुभो वातस्ततो गर्भो भ्रुवो भवेत् ॥१०२७॥

मेघसंक्रान्तिकालात् नवस्त्रपि दिनेष्वपि ।

यत्राभ्रं वातविद्युत्स्यादाद्रादौ तत्र वर्षति । ॥१०२८॥

यदि चन्द्रमण्डल के मध्य से ग्रह वेध करें तो अशुभ होता है और मध्य मध्य में विग्रह भी होता है ॥ १०२४ ॥

यदि शुभग्रह या पाप ग्रह से पाप, या शुभ ग्रह का सम्मुख वेध हो तो निरशुभ दुर्मिथ होता है ॥ १०२५ ॥

त्रिक नक्षत्र में सब नक्षत्र से रोहिणी यदि पतिता हो तो शुभग्रह के योग से शुभ होता है और अशुभ ग्रह के योग से अशुभ होता है ॥ १०२६ ॥

इति रोहिणीयोगः

मीन संक्रांति काल में रेवती नक्षत्र हो उस दिन यदि विद्युत् तथा शुभ वायु बहे तो वहां निश्चय गर्भ समझना चाहिये ॥ १०२७ ॥

मेघ संक्रांति काल से नौ दिनों में जिस दिन जहां पर मेघ, वायु, विद्युत् हो तो आर्द्रा आदि क्रम से उस नक्षत्र में वहां वर्षा होती है ॥ १०२८ ॥

किं वा नक्तुः चाम्रेषु वस्ताभ्रादि शुभं भवेत् ।

तस्यां च दिशि^१ संपूर्णं तद्दिनेऽप्यखिले जलम् ॥१०२९॥

आषाढ्यां घटिकाषष्ठ्यां मासद्वादशनिर्णयः ।

द्वादश पञ्चका षष्ठिरित्येवं क्रममादिशेत् ॥१०३०॥

पञ्चनाडी भेदेन्मासः षष्ठ्या वर्णस्य^२ निर्णयः ।

सर्षरात्रं यदाभ्राणि वातौ पूर्वोत्तरौ यदि ॥१०३१॥

तत्र वर्षे कणाः पुष्टा भवन्ति जगतीप्सिंताः ।

यदि नाभ्रस्य लेशोऽपि वातौ पूर्वोत्तरौ नहि ॥१०३२॥

न वर्षति तदा देवो^४ दुष्टकालो भवेदिह ।

बद्यभ्रं स्वल्पकं जातं मध्ये वातेषु वर्षति ॥१०३३॥

आद्ये मासे यदाभ्राणि वातौ पूर्वोत्तरौ यदि ।

आद्ये मासे भवेद्बृष्टिर्याञ्छितादधिका क्षितौ ॥१०३४॥

वा, मेघ संक्रांति काल से नौ प्रहरों में जिस दिशा में शुभ वायु, मेघ, विद्युत् हो तो, उस दिशा में आर्द्रा आदि क्रम से उस नक्षत्र में वर्षा होती है ॥ १०२६ ॥

आषाढी पूर्णिमा में साठ घटी पर से द्वादश मासों का निर्णय करें, साठ घटी को द्वादश भाग करने पर पांच पांच घटी के क्रमसे आदेश करें ॥ १०३० ॥

पांच घटी से एक मास का तथा साठ घटी से वर्ष का फल निर्णय करें, यदि सम्पूर्णा रात्रि मेघ, तथा पूर्वी उत्तरी वायु बहे तो ॥ १०३१ ॥

उस वर्ष में अभीप्सित धान्य होता है, और यदि आषाढी में मेघ का लेश भी नहीं हो तथा पूर्वी, उत्तरी वायु नहीं बहे ॥ १०३२ ॥

तो इन्द्र वर्षा नहीं करते हैं और दुष्ट काल होता है, यदि थोड़ा भी मेघ, तथा वायु बहे तो वर्षा होती है ॥ १०३३ ॥

यदि पहले मास के घटी विभाग में मेघ, तथा पूर्वी उत्तरी वायु बहे तो पहले मास में इच्छा से अधिक वर्षा होती है ॥ १०३४ ॥

1. तस्यां च दिशि for यस्यां दिशि च A. 2. षष्ठ्यां for षष्ठ्या A, Bh. 3. वर्णस्य for वर्णस्य Bh. 4. मेघो for देवो A.

आषाढ्यां च विनष्टायां नूनं भवति निष्कणम् ।
 ब्रह्माधैरिक्षपाताधैः सत्यं नश्यति पूर्णिमा ॥ १०३५ ॥
 दिनभागे निशाभ्राणि यदा भवन्ति तत्क्षणम् ।
 तत्र मासे भवेद्दृष्टिर्वातैरपि शुभैः शुभा ॥ १०३६ ॥
 यथाषाढीदिने रात्रिस्तथाषाढश्च निश्चितः ।

¹
 प्रमाणघटिकाः पञ्च पञ्चैव श्रावणः स्मृतः ॥ १०३७ ॥
 पञ्चमाद्रपदो मासस्ततः पञ्चाश्विनः स्मृतः ।

²
 त्रयाभ्रकुलनाडीषु वातौ पूर्वोत्तरो यदि ॥ १०३८ ॥
 तत्र मासे भवेद् दृष्टिः पवनाभ्रादि मानतः ।
 तत्र रात्रावपि ज्ञेयाः पवनाभ्राः सर्वदिग्गताः ॥ १०३९ ॥
 वृष्ट्यादिरहितैरभ्रैः पूर्णिमा सुखदायिनी ।
 वृष्टिकणान् घनान् दत्ते पर्वाद्युत्पातवर्जिताः ॥ १०४० ॥

यदि आषाढी पूर्णिमा नष्ट हो तो निश्चय धान्य नहीं होता, महर्षि
 आदि से तथा नक्षत्रपात से पूर्णिमा नष्ट होती है ॥ १०३५ ॥

दिन या रात्रि में जिस क्षण में मेघ दीख पड़े उस मास में वर्षा
 होती है और शुभ वायु से शुभ होता है ॥ १०३६ ॥

आषाढी पूर्णिमा की रात्रि में आषाढ का निश्चय करें, पांच पांच
 घटी का एक एक मास का प्रमाण होता है, इस तरह पांच घटी का
 आषाढ मास हुआ ॥ १०३७ ॥

पांच घटी का भाद्रमास, और पांच घटी का आश्विन मास,
 मासों में जिस मास के घटीविभाग में मेघ तथा पूर्वी उत्तरी वायु
 बहें ॥ १०३८ ॥

उस मास में वायु तथा मेघ आदि के मान से वर्षा होती है, और
 उस रात्रि में भी सब दिशाओं में वायु तथा मेघ, आदि का विचार
 करें ॥ १०३९ ॥

वृष्टि आदि से तथा उत्पात से रहित मेघ पूर्णिमा में दिखाई दे तो
 वह पूर्णिमा सुख, वर्षा, धान्य, तथा धन आदि देने वाली होती
 है ॥ १०४० ॥

दिने रात्रिविभागे च यदाभ्राणि भवन्ति चेत् ।

तत्र काले ध्रुवं वृष्टिभुक्तनाडीप्रमाणतः ॥ १०४१ ॥

येषु मासेषु ये दग्धा गर्भाः पौषादिसम्भवाः ।

तद्रात्रौ पञ्चनाडीषु चन्द्रो भवति निर्मलः ॥ १०४२ ॥

दग्धा गर्माश्च ये पूर्वमुत्पातैः शीतकालजैः ।

आषाढीमध्यतस्तेन चन्द्रमास्तत्र निर्मलः ॥ १०४३ ॥

पौषादिसम्भवे गर्भे ध्रुवमुत्पातसम्भवः ।

तेनाषाढीदिनं सर्वं द्रष्टव्यं वृष्टिहेतवे ॥ १०४४ ॥

यथाषाढीदिनं रात्रिरभ्रैर्वतैश्च पूरितम् ।

तदा गर्भाःशुभा ज्ञेयाः शीतकालेऽपि धीमता ॥ १०४५ ॥

एकमेव दिनं प्रेक्ष्यं कालनिष्पत्तिहेतवे ।

अष्टयामाभ्रवातौ चेद्वर्षं यावत्तदा शुभम् ॥ १०४६ ॥

दिन या रात्रि में जिस घटीविभाग में मेघ हो, भुक्तघटी के प्रमाण से उस मास में अवश्य वर्षा होती है ॥ १०४१ ॥

जिन मासों का पौष आदि मासों में गर्भ नष्ट हो गया हो उस रात्रि में उन मासों के पांच घटीविभाग में चन्द्रमा निर्मल दिखाई देते हैं ॥ १०४२ ॥

पहले शीत काल में जिस मास का गर्भ नष्ट हो गया हो, आषाढी पूर्णिमा में उस मास के घटीविभाग में चन्द्रमा निर्मल दिखाई देते हैं ॥ १०४३ ॥

पौष आदि मासों में गर्भ सम्भव में अवश्य ऊत्पात का सम्भव होता है, इसलिये आषाढी पूर्णिमा में सम्पूर्णा दिन वर्षा के लिये देखना चाहिये ॥ १०४४ ॥

जैसे आषाढी पूर्णिमा के सम्पूर्णा दिन रात्रि मेघ तथा वायु से युक्त हो तो शीत काल में भी गर्भ शुभ जाने ॥ १०४५ ॥

काल निष्पत्ति के लिये एक ही दिन देखना चाहिये, यदि आठों प्रहर में मेघ तथा वायु हो तो वर्षपर्यन्त शुभ होता है ॥ १०४६ ॥

आषाढ्यां पूर्विकाषाढा वर्षं यावत् शुभंकराः ।

आवर्षं मध्यमं धान्यं देशे सर्वत्र कथ्यते ॥१०४७॥

अभ्रं विना यदा रम्यौ वातौ पूर्वोत्तरो यदि ।

यत्र याम्यार्द्धके तत्र मासे वृष्टिर्हठाद्भवेत् ॥१०४८॥

आषाढीयोगाः ।

मासाभिधाननक्षत्रं राकायां क्षीयते यदा ।

महर्षं च तदावश्यं वृद्धौ ज्ञेया समर्घता ॥१०४९॥

मासनामकनक्षत्रं राकायां न भवेद्यदा^३ ।

महर्षं च तदावश्यं तन्नियोगे विशेषतः ॥१०५०॥

धिष्ण्यवृद्धिदिने चन्द्रः क्रूरैर्यदि न दृश्यते ।

समर्घं जायते पुष्टं क्रूरदृष्टे महर्घता ॥१०५१॥

आषाढी पूर्णिमा में यदि पूर्वाषाढा नक्षत्र हो तो वर्ष पर्यन्त शुभ होता है, और सम्पूर्णा वर्ष धान्य की निष्पत्ति तथा प्रजा का सौख्य इत्यादिक सब देशों में होता है ॥ १०४७ ॥

आषाढी पूर्णिमा में जिस यामार्द्ध में मेघ को छोड़कर सुन्दर पूर्वी तथा उत्तरी वायु बहे तो उस मास में हठात् वर्षा होती है ॥१०४८॥

इति आषाढीयोगाः ।

मासों का नाम नक्षत्र पूर्णिमा में यदि क्षय हो जाय तो महर्ष होता है और यदि उस नक्षत्र की वृद्धि हो तो समर्घ होता है ॥१०४९॥

मासों का नाम नक्षत्र यदि पूर्णिमा में नहीं हो तो अवश्य महर्ष होता है उसके नियोग में विशेष रूप से कहते हैं ॥१०५०॥

जिस दिन नक्षत्र की वृद्धि हो और चन्द्रमा पापग्रहों से नहीं देखे जाते हों तो समर्घ होता है, और उस पर पापग्रहों की दृष्टि हो तो महर्ष होता है ॥१०५१॥

1. For this line A reads, आवर्षं धान्यनिष्पत्तिः प्रजासौख्य-मविग्रहात् । 2. याम्यार्द्धिके for याम्यार्द्धिके A. 3. क्षीयते यदि for न भवेद्यदा Bh. 4. तिथि for तन्नि Bh. तत्र A.

धिष्ण्यवृद्धिदिने यत्र तिथेः पार्ष्णाद् गरीयसी ।

दिने तत्र समर्घं स्यात्तिथिवृद्धौ महर्घता ॥१०५२॥

ऋक्षवृद्धौ रसाधिक्यं कणाधिक्यं च निश्चितम् ।

योगाधिक्ये रसोच्छेदो दिनार्घः प्रत्यहं स्फुटम् ॥१०५३॥

षड्भिश्च नाडिकाभिश्च धिष्ण्यवृद्धिः क्रमाद् यदा ।

प्रत्येकं च तिथेर्यत्र समर्घं तत्र जायते ॥१०५४॥

षड्भिश्च नाडिकाभिश्च धिष्ण्यवृद्धिः क्रमाद् यदा ।

प्रत्येकं तत्र धिष्ण्ये च महर्घं विद्धि निश्चितम् ॥१०५५॥

तिथिनक्षत्रयोर्वृद्धिं विज्ञाय प्रत्यहं द्वयोः ।

सर्वं टिप्पनकं ज्ञात्वा लाभालाभौ विनिर्दिशेत् ॥१०५६॥

यावन्नाड्य उडोवृद्धिः समर्घं तद्विशोपकाः ।

यावन्नाड्यस्तिथेर्वृद्धिर्महर्घं तत्प्रमाणकम् ॥१०५७॥

जिस दिन नक्षत्र की वृद्धि हो तो उस दिन वहां समर्घ होता है, और तिथि वृद्धि हो तो महर्घ होता है ॥१०५२॥

नक्षत्र की यदि वृद्धि हो तो रस, तथा कणा का आधिक्य होता है, और योग का आधिक्य होने पर रस का उच्छेद होता है ऐसे अर्घ का निश्चय करें ॥१०५३॥

जब छः छः घटी के क्रम से नक्षत्र की वृद्धि हो तथा प्रत्येक तिथि की वृद्धि हो तो वहां समर्घ होता है ॥१०५४॥

जब छः छः नाडी के क्रम से नक्षत्र की वृद्धि हो तो प्रत्येक नक्षत्र में महर्घ होता है ॥१०५५॥

तिथि, और नक्षत्र, इन दोनों की वृद्धि प्रत्येक दिन जान कर तथा पूर्वोक्त सब विषयों को विचार कर लाभ या हानि का आदेश करें ॥१०५६॥

जितनी घटी नक्षत्र की वृद्धि हो उतने विशोपक प्रमाणा समर्घ होता है, और जितनी घटी तिथि वृद्धि हो उतने प्रमाणा महर्घ होता है ॥१०५७॥

भाद्रपदपौषमाघे सितपक्षे पतति या तिथिस्तस्याः ।
 द्विगुणदिनैर्नृ पमरणं यदि वा दुर्भिक्षमतिरौद्रम् ॥१०५८॥
 पूर्णिमास्याममावास्यां संलग्नस्तारकाक्षयः ।
 महर्षं तत्र पूर्वार्धान्मासमध्येऽपि जायते ॥१०५९॥
 मासमध्ये यदा द्वौ तु योगौ च त्रुटयतः क्रमात् ।
 महर्षे घृततैले द्वे योगे वृद्धौ समघके ॥१०६०॥
 वर्षाकाले त्रिमासेषु नक्षत्रं वर्द्धते स्फुटम् ।
 तिथिस्त्र्युटयति संलग्ना शुभः कालस्तदा बहु ॥१०६१॥
 वर्षाकाले त्रिमासेषु नक्षत्रं त्रुटति स्फुटम् ।
 तिथिश्च वर्धते तत्र ध्रुवं लोको विनश्यति ॥१०६२॥
 अधिकोना समा वा स्यान्नक्षत्रात् पूर्णिमा यदा ।
 महर्षं च समर्षं च तुल्यार्धमशनं क्रमात् ॥१०६३॥

भाद्र, पौष, माघ, इन मासों के शुक्ल पक्ष में जिस तिथि का क्षय हो तो उस से उस तिथि के द्विगुण दिन में ज.कर राजा का मरण होता है वा दुर्भिक्ष और अत्यन्त रौद्र समय होता है ॥१०५८॥

यदि पूर्णिमा, अमावास्या, दोनों में लगातार तारा का क्षय हो तो वहाँ मास के मध्य में भी पूर्वाधे से महर्ष होता है ॥१०५९॥

एक मास के मध्य में यदि दो योगों का क्षय हो तो क्रम से घृत तैल दोनों महर्ष होता है, और योग की वृद्धि हो तो समर्ष होता है ॥१०६०॥

वर्षा काल में तीनों मास में लगातार नक्षत्र की वृद्धि, तथा तिथि का क्षय हो तो बहुत शुभ काल होता है ॥१०६१॥

यदि वर्षा काल में तीनों मास में नक्षत्र का क्षय हो और तिथि की वृद्धि हो तो अवश्य लोगों का नाश होता है ॥१०६२॥

यदि पूर्णिमा में उस मास के नाम नक्षत्र से अधिक या, ऊन, या, सम नक्षत्र हो तो क्रम से महर्ष, समर्ष, तुल्यार्ध, होता है ॥१०६३॥

पूर्वात्रयं मूलमघा च सार्पिरीद्री च हीना तिथितो यदि स्यात् ।
कुहूदिने चैव कणा महर्षाः पूर्वार्धतः स्युर्जगतीविहीनाः ॥१०६४॥

मार्गादिपञ्चमासेषु आद्यपक्षे^१ तिथिक्षयः^२

दौस्थ्यं वा छत्रभंगो वा जायते राजविध्वरः ॥१०६५॥

शुक्लपक्षे यदा शुक्रः करोत्यस्तमनोदयम् ।

राजपुत्रसहस्राणां मही पिबति शोणितम् ॥१०६६॥

आदित्यग्रासकाले च दुर्भिक्षं प्रायशः एतः ।

तत्तिथिक्षिप्प्यवाच्यानि महर्षाणि भवन्ति हि ॥१०६७॥

द्वयोराषाढयोर्मध्ये यदा पूर्वत्रयं भवेत् ।

क्षितौ भवेन्महायुद्धं नृपमृत्युः स्फुटः स्मृतः ॥१०६८॥

तिष्यपुष्यमघाब्राह्मी रेवतीत्युत्तरेषु च ।

यदा शनिर्भवेद् वाच्यो विग्रहोऽपि तदा महान् ॥१०६९॥

पूर्वफल्गुनी, पूर्वाषाढ, पूर्वभाद्र, मूल, मघा, अश्लेषा, आर्द्रा, ये नक्षत्र यदि तिथि से हीन हों तो अमावास्या में पूर्वार्ध से कणा महर्ष होता है और पृथ्वी शस्यहीन होती है ॥१०६४॥

मार्गशीर्ष आदि पांच मासों के शुक्ल पक्ष में यदि तिथिक्षय हो तो दुःस्थिति, तथा छत्रभंग, राजाओं में विग्रह होता है ॥१०६५॥

जब शुक्ल पक्ष में शुक्र का अस्तन तथा उदय हो तो हजारों क्षत्रियों का शोणित पृथ्वी पीनी है ॥१०६६॥

सूर्य के ग्रहण काल में प्रायः दुर्भिक्ष होता है, उस तिथि नक्षत्र में महर्ष होता है ॥१०६७॥

पूर्वाषाढ, तथा उत्तराषाढ नक्षत्र के मध्य में तीनों पर्व (चतुर्दशी, अमावास्या, पूर्णिमा) हों तो पृथ्वी पर महायुद्ध होता है और राजा का नाश होता है ॥१०६८॥

स्वाती, पुष्य, मघा, रोहिणी, रेवती, उत्तरफल्गुनी; उत्तराषाढ, उत्तरभाद्र, इन नक्षत्रों में यदि शनि हो तो महान् विग्रह होता है ॥१०६९॥

वर्षाकाले परीवेशः सूर्येन्दोश्चेद् यदा भवेत् ।
चतुर्दिवसमध्ये च देवो वर्षति भूतले ॥१०७०॥
ऐन्द्रं धनुर्यदोदेति प्रभाते पश्चिमाश्रितम् ।
तद्दिने पञ्चमे यामे घनः प्लावयति महीम् ॥१०७१॥
यत्र राशौ भवेत्पर्व तस्या वाच्यं क्रयाणकम् ।
अत्यर्घं लभ्यते मूल्यं पीड्यमानं च राहुणा ॥१०७२॥
यत्र राशौ कुजो याति चक्रं तत्र सुनिश्चितम् ।
तद्वाच्यानि क्रयाणानि महर्घाणि भवन्ति हि ॥१०७३॥
मकरे मङ्गले सौख्यं ततः कुम्भे च पञ्चके ।
यदा गच्छेत्तदा दौस्थ्यं तुलायामपि मंगलः ॥१०७४॥
पञ्चवर्षं परीवेशो वारुणे मण्डले यदा ।
तदा वेगवती वृष्टिर्जायते यामपञ्चके ॥१०७५॥

वर्षाकाल में सूर्य चन्द्रमा का यदि परिवेष हो तो चार दिन के अन्दर पृथ्वी पर वर्षा होती है ॥१०७०॥

प्रातःकाल में पश्चिम दिशा में यदि इन्द्रधनुष का उदय हो तो उसी दिन पांच प्रहर में मेघ पृथ्वी को डुबा देता है ॥१०७१॥

जिस राशि में पर्व हो उस राशि से क्रयाणक कहें, यदि वह राशि राहु से पीडित हो तो बहुत महर्घ वस्तु मिले ॥१०७२॥

जिस राशि में मंगल जाता है उस राशि में निश्चय क्रयाणक महर्घ होता है ॥१०७३॥

मकर में मंगल हो तो सौख्य होता है, और कुम्भ से पांच राशि में यदि मंगल जाय तो दौस्थ्य होता है ॥१०७४॥

यदि वारुण मण्डल में पांच याम परिवेष हो तो पांच वर्ष तक बहुत वृष्टि होती है ॥१०७५॥

1. तद्दिनात् for तद्दिनं Bh. 2. शून्यं for मूल्यं A. 3. वक्रं for चक्रं Bh. 4. तमः for ततः Bh. 5. वर्षा for वर्ष A.

चटन्ति भुजगा वृक्षे यदि भूतापपीडिताः ।

चतुर्दिवसमध्ये तु वृष्टिसिक्ता घरा मता ॥१०७६॥

ऊर्ध्वा चेद्गडरी शेते घर्मातिशयपीडिता ।

तदा वर्षति पर्जन्यश्चतुर्दिवसमध्यतः ॥१०७७॥

अम्लं तक्रं च तत्कालं लोहे कट्टस्तथैव हि ।

चतुर्दिवसमध्ये तु मेघवृष्टिर्घना मता ॥१०७८॥

कर्पासरसमांजिष्ठा बहुमूल्यास्तदा स्मृताः ।

सक्ररे मंगले विद्धे क्रूरान्तरगतेऽपि च ॥१०७९॥

चतुर्दशी तु आषाढी हीना वर्षे यदा भवेत् ।

भावाश्रयेण तद् वाच्यं महर्घं च समे समम् ॥१०८०॥

आषाढी त्वधिका तस्याः समर्घं तु तदा मतम् ।

संवत्सरस्य वर्तिन्याः शून्यपाते तु निष्करणम् ॥१०८१॥

सर्प यदि पृथ्वी के ताप से पीड़ित होकर वृक्ष पर चढ़ें तो चार दिन के अन्दर पृथ्वी वर्षा से सिक्त होती है ॥१०७६॥

घर्म से अतिशय पीड़ित होकर यदि गडरी उर्ध्वाभिमुख सोवे तो इन्द्र चार दिन के अन्दर वर्षा करते हैं ॥१०७७॥

यदि अम्ल, तक्र, लोहा, कट्ट आदि का पात हो तो चार दिन के अन्दर वर्षा होती है ॥१०७८॥

मंगल और पापग्रहों से युक्त हो, या विद्ध हो या पाप ग्रहों के अन्तर में हो तो कार्पास आदि का बहुत मूल्य होता है ॥१०७९॥

जिस वर्ष में आषाढ की पूर्णिमा तथा चतुर्दशी की हानि हो तो महर्घ होता है, इस प्रकार भाव के आश्रय से महर्घ और सम होने से समान कहना चाहिये ॥१०८०॥

यदि आषाढी अधिक हो तो समर्घ होता है, इस प्रकार जिस वर्ष में उसका क्षय हो तो कर्ण नहीं होता है ॥१०८१॥

1. कुरुरी for गडरी Bh. we have adopted the reading of A. Amb. text reads उर्वाचे गडरी शेते । A¹ reads ऊर्ध्वा चेद्गडरी शेते । 2. किट्ट for कट्ट A.

इत्यर्घकाण्डे त्रिकपञ्चकयोगाः । आषाढीयोगाः रोहिणी—
योगाश्च समाख्याताः ॥

अतः परं चूडामणिसारोद्दारेणार्घकाण्डमुच्यते ।

अर्घकाण्डं प्रवक्ष्यामि नरेन्द्रक्षोभकारकम् ।

येन विज्ञातमात्रेण क्षेमलाभौ यथा ध्रुवौ ॥१०८२॥

पूर्वमासाभिधानं च प्रष्टुर्नाम लिखेत्ततः ।

स्थापयेद् ध्रुवकं भिन्नं सूक्ष्मवर्णक्रमेण च ॥ १०८३ ॥

कुसुमा निर्मलाः ख्याताः प्रश्ना ग्राह्या यथोज्जवाः ।

स्वराणां द्विगुणा संख्या वर्णसंख्या समा भवेत् ॥ १०८४ ॥

मासभाण्डस्थितो राशिर्गणयेत् प्रश्नसंख्यया ।

मात्रासंख्याहते भागे शेषांकैः फलमादिशेत् ॥१०८५ ॥

मासस्य ध्रुवके हीनं भाण्डस्थाने ध्रुवं भवेत् ।

तस्मिन् मासे च तद् भाण्डं महर्घं च भविष्यति ॥१०८६॥

इत्यर्घकाण्डे त्रिकपञ्चकयोगाः । आषाढीयोगाश्च

रोहिणीयोगाश्च समाख्याताः ॥

अतः परं चूडामणिसारोद्दारेणार्घकाण्डमुच्यते ॥

अब अर्घ काण्ड को कहते हैं जो कि राजा को भी लोभ कारक होता है, जिसको जानते ही निश्चय लोभ और लाभ होता है ॥१०८२॥

पहले अभीष्ट मास का नाम उसके बाद भाण्ड का नाम लिखें तब सूक्ष्म वर्ण के क्रम से पृथक ध्रुवा की स्थापना करें ॥१०८३॥

प्रश्न में ख्यात निर्मल पुरुषों का नाम प्रहण करके उसकी स्वर संख्या को द्विगुण करें और वर्ण संख्या को समान ही स्थापित करें ॥१०८४॥

मास और भाण्डस्थित राशि को मात्रा संख्या से गुणा करें और वर्ण की संख्या से भाग दें जो शेष बचे उससे फल का आदेश करें ॥१०८५॥

याद मास की ध्रुवा (शेष) हीन हो और भाण्ड स्थान में अधिक हो तो उस मास में वह भाण्ड महर्घ होगा ॥ १०८६ ॥

1. A adds जलयोगाश्च before समाख्याताः 2. भाण्डं for प्रष्टुं Bh.

विलोमं दृश्यते यत्र समर्धं तत्र जायते ।

उभये विषमे तद्द्वि व्याख्यातं च समे समम् ॥ १०८७ ॥

मासस्य ध्रुवके भूरिभाण्डस्थानेऽणुकं यदि ।

समर्धं च तदादिष्टं वीतरागेण जन्मिनाम् ॥ १०८८ ॥

उभयोः स्थानके शून्यं महर्धमिति दृश्यते ।

अर्धान्तरमिति ज्ञात्वा प्रमाणं तत्र कारयेत् ॥ १०८९ ॥

इति चूडामणिसूक्ष्माक्षराङ्कप्रमाणेनार्धकाण्डम् ।

मण्डलाभिप्रायेणापि कथ्यते ।

अग्निमण्डलनक्षत्रैर्यदा संक्रमते रविः ।

सहितो भौमवारेण सस्पृहा धातुजातयः ॥ १०९० ॥

रूप्यसौवर्णकांस्यादित्रपुताम्राणि पित्तलम् ।

¹ वातधिष्यैस्तु सङ्क्रान्तिः शनौ वारे विशेषतः ॥ १०९१ ॥

यदि विलोम हो अर्धान मास की ध्रुवा अधिक हो और भाण्ड की हीन हो तो उस मास में समर्ध होता है । दोनों के विषम होने पर ऐसा फल होता है, और यदि दोनों समान हों तो समान फल होता है ॥ १०८७ ॥

यदि मास की ध्रुवा अधिक हो और भाण्ड की ध्रुवा हीन हो तो समर्ध होगा ऐसा आदेश करें ॥ १०८८ ॥

यदि दोनों के स्थान में ध्रुवा शून्य हो तो महर्ध होता है, इस प्रकार अर्धान्तर को भी देखकर इसका प्रमाण करें ॥ १०८९ ॥

इति चूडामणिसूक्ष्माक्षराङ्कप्रमाणेनार्धकाण्डम् ।

अथ मण्डलाभिप्रायेणापि कथ्यते ।

यदि अग्निमंडलनक्षत्र में मंगलवार रवि की संक्रान्ति हो तो धातुजाति सस्पृहा होती है ॥ १०९० ॥

यदि वायु मंडल नक्षत्र में शनिवार रवि की संक्रान्ति हो तो चान्दी सोना, कांश्य, त्रपु, ताम्र, पित्तल, आदि धातुओं को विशेष मांग होती है ॥ १०९१ ॥

लोहभेदाः रसाः सर्वे शीघ्रं भवन्ति सस्पृहाः ।

नक्षत्रैर्वारुणैर्वापि बुधवारेण संक्रमे ॥ १०९२ ॥

पच्यन्ते धान्यभेदास्तु रत्नान्यम्भोधिजानि च ।

नक्षत्रैः पार्थिवैर्वापि सूर्यवारसमन्वितैः ॥ १०९३ ॥

सस्पृहा ये सुगन्धाढ्या वारणादिचतुष्पदाः ।

अथवा सर्वमासेषु पूर्णिमायां दिवानिशम् ॥ १०९४ ॥

अन्वेषयेत्तदुत्पातात् परिवेषोर्कसोमयोः ।

यस्मिन्मण्डलधिष्ण्ये च दुर्निमित्तं च दृश्यते ॥ १०९५ ॥

तन्मण्डलस्य वाच्याश्च क्षणाद्भवन्ति सस्पृहाः ।

एवं द्वारेण संक्रान्तेर्धकाण्डं प्रदर्शितम् १०९६ ॥

अथ मण्डलानि

ज्येष्ठानुराधारोहिण्यौ धनिष्ठा श्रवणस्तथा ।

अभीचिरुत्तराषाढा शुभं माहेन्द्रमण्डलम् ॥ १०९७ ॥

यदि वारुणा मंडल नक्षत्र में बुधवार रवि की संक्रान्ति हो तो जोहा तथा रस जाति सस्पृहा होती है ॥ १०९२ ॥

यदि माहेन्द्र मण्डल नक्षत्र में रविवार रवि की संक्रान्ति हो तो धान्यादि, तथा रत्न, और समुद्र से उत्पन्न होने वाले मुक्ता आदि पश्चिंत होते हैं ॥ १०९३ ॥

और सुगन्धित द्रव्य, हाथी आदि के चतुष्पद भी सस्पृह होते हैं, अथवा सब मासों में पूर्णिमा को रात्रिन्द्रिवा देखें ॥ १०९४ ॥

उत्पात से तथा सूर्य चन्द्रमा के परिवेष से अन्वेषण करें जिस मण्डल के नक्षत्र में दुर्निमित्त देख पड़े ॥ १०९५ ॥

उस मण्डल को उसी क्षण सस्पृहा कहें, इस प्रकार संक्रान्ति के द्वारा अर्ध काण्ड को दिखलाया ॥ १०९६ ॥

अथ मण्डलानि

ज्येष्ठा, अनुराधा, रोहिणी, धनिष्ठा, श्रवणा, तथा अभिजित् उत्तराषाढा, ये नक्षत्र माहेन्द्र मंडल कहलाते हैं यह मण्डल शुभकारक होता है ॥ १०९७ ॥

आर्द्रश्लेषा शतभिषक् पूर्वाषाढा च रेवती ।
 मूलसुत्तरभद्रा च वारुणं शुभकारणम् ॥ १०९८ ॥
 भरणी कृत्तिका पुष्यो विशाखा पूर्वफाल्गुनी ।
 पूर्वभद्रा मघा चेति चाग्नेयमशुभप्रदम् ॥ १०९९ ॥
 चित्रास्वातिमृगश्रिन्यः पुनर्वसुकरौ तथा ।
 उत्तरा फाल्गुनी चैव वायव्यमशुभप्रदम् ॥ ११०० ॥
 उल्कापातादयः सर्वेऽमीषु स्वसुफलप्रदाः ।
 वर्षाकालं विना ज्ञेया वर्षाकाले च वृष्टिदाः । १००१ ॥
 माहेन्द्रं सप्तरात्रेण सव्यो वारुणमण्डलम् ।
 आग्नेयमर्द्धमासेन फले मासेन पावनम् ॥ ११०२ ॥
 सुभिक्षं क्षेममारोग्यं राज्ञां सन्धिः परस्परम् ।
 आद्यं मण्डलयोज्ञेयं तद्विपरीतमन्त्ययोः ॥ ११०३ ॥

आर्द्रा, अश्लेषा, शतभिषा, पूर्वाषाढा, रेवती, मूल, उत्तराभाद्र,
 ये नक्षत्र वारुण मण्डल कहलाते हैं, यह मण्डल शुभकारक होता
 है ॥ १०९८ ॥

भरणी कृत्तिका, पुष्य, विशाखा, पूर्वफाल्गुनी, पूर्वभाद्र, मघा, ये
 नक्षत्र आग्नेय मण्डल कहलाते हैं, यह मण्डल अशुभ कारक होता
 है ॥ १०९९ ॥

चित्रा, स्वाती, मृगशिरा, अश्विनी, पुनर्वसु, हस्त, उत्तराफाल्गुनी
 ये वायव्य मण्डल कहलाते हैं, यह मण्डल अशुभ कारक होता
 है ॥ ११०० ॥

वषा काल को छोड़ कर और समय में यदि इन मण्डलों में
 उल्कापात इत्यादिक हो तो शुभ फल देते हैं, और वर्षा काल में हो तो
 वर्षा होती है ॥ ११०१ ॥

माहेन्द्र मण्डल में सात दिन में वारुण मण्डल में सद्यः आग्नेय
 मण्डल में आधा मास में और वायु मण्डल में मास में फल होता
 है ॥ ११०२ ॥

पहले दोनों (माहेन्द्र, वारुण,) मंडल में सुभिक्ष, क्षेम, आरोग्य
 और राजाओं में परस्पर सन्धि होती है, और अन्त्य के दोनों (आग्नेय,
 वायव्य,) मण्डल में उसका विपरीत फल होता है ॥ ११०३ ॥

माहेन्द्रे वारुणे चैव हृष्टा भवन्ति धनवः ।

उत्पाताः प्रलयं यान्ति धरणी वृद्धते शिवैः^१ ॥ ११०४ ॥

फलन्ति तरवः कल्पद्रुमा इव नवैः फलैः ।

प्राप्नुवन्ति प्रजासौख्यं राज्यानीवं हि भूमिपाः^२ ॥ ११०५ ॥

वायौ वह्निमहोत्पाताः पीडयन्ति प्रजापुरः ।

गावः शृष्यन्ति वृक्षाश्च पीड्यन्ते विग्रहैर्जनाः ॥ ११०६ ॥

निष्कणा जायते पृथ्वी राजानो जनपीडकाः ।

उद्रशाः सततं देशाः मेघो नव प्रवर्षति ॥ ११०७ ॥

एतैश्च मण्डलैर्ज्ञात्वा सुखदुःखं प्रजोद्भवम् ।

शान्तिं कुर्वन्ति धीमन्तो बलिपूजाविधानतः ॥ ११०८ ॥

पुष्पवत्प्रचुरभाग्यो हेम पुंसां^३ निधिर्नवः ।

वाञ्छितः फलदो नन्द्यार्धकाण्डं तरुः फली ॥ ११०९ ॥

माहेन्द्र, और वारुण मण्डल में गाय प्रसन्न होती हैं, और उत्पात नष्ट होता है, तथा पृथ्वी मंगलों से वृद्धी है ॥ ११०४ ॥

कल्पद्रुम जैसे वृक्षां में नवीन, नवीन, फल, फूल, हुआ करते हैं, जैसे राजा को राज्य से सुख होता है, वैसे प्रजाओं को सौख्य होता है ॥ ११०५ ॥

वायव्य तथा अग्निमण्डल में बहुत उत्पात होता है और प्रजा लोग पीड़ित होते हैं, गौ तथा वृत्त शुष्क होते हैं और विग्रह से लोग पीड़ित होते हैं ॥ ११०६ ॥

और पृथ्वी में कणा नहीं होता । राजा लोग लोगों को पीड़ा करते हैं, और देश किसी के वश नहीं रहता । मेघ वर्षा नहीं करते ॥ ११०७ ॥

इन मण्डलों के विचार से प्रजाओं का सुख दुःख जानकर, बुद्धिमान लोग पूजा की बलि इत्यादिक विधान से शान्ति करते हैं ॥ ११०८ ॥

इस प्रकार अर्ध काण्डरूपी फल वाला वृत्त पुष्प जैसे पुष्पों को बहुत भाग्य, हेम, तथा नया निधि, इत्यादि इच्छानुकूल फल देता है ॥ ११०९ ॥

१. शिवैः for शिवैः A. २. महीश्वराः for हि भूमिपाः A. ३. हेमः पुमान् for हेम पुंसां A.

इति दिनमासवर्षार्धकाण्डे मण्डलपद्धतिः समाप्ता ।
करस्थं धारयेन्मूलं केतकीतालवृक्षयोः ।

मदोन्मत्तो गजस्तस्य द्वारेणैव हि गच्छति ॥ १११० ॥

अमृतोष्णमरीचीनां दिव्याङ्गकोटिकारणम् ।

स्फुरद्भामण्डलव्याजाद्दर्शयन्तं तु केवलम् ॥ ११११ ॥

दहन्तं तु भयोद्यानं द्योतयन्तं जगत्त्रयम् ।

लक्ष्मीलक्षविधातारं नत्वा पार्श्वं जिनेश्वरम् ॥ १११२ ॥

श्रीमद्देवेन्द्रशिष्याणुः सर्वशस्त्राब्धिपारगः ।

श्रीमान् हमप्रभः सूरिवर्षकाण्डं स्मरत्यसौ ॥ १११३ ॥

सेतिकामानपल्लीनां संख्यां विज्ञाय साम्प्रतम् ।

बहुष्वप्यर्धकाण्डेषु तथ्यशास्त्रं विगच्यते ॥ १११४ ॥

एकदिनार्धमध्ये तु घटिकार्धस्य कारणम् ।

क्रयं त्रिशतपष्टैश्च मूल्यनिश्चयहंतवे ॥ १११५ ॥

चैत्रे यश्च प्रधानोऽर्धः स पण्यार्धोऽत्र गृह्यते ।

प्रत्यहं प्रसभं वापि प्रतिपण्यं च नूतनः ॥ १११६ ॥

इति दिनमासवर्षार्धकाण्डे मण्डलपद्धतिः समाप्ता ।

जो केतकी, तथा ताल वृक्ष के मूल को हाथ में धारण करते हैं और जिन के द्वारा मदोन्मत्त हाथी चलता है, और जो चन्द्रमा, सूर्य के दिव्याङ्ग का कोटि कारण है तथा अपने देदीप्यमान तेजमण्डल को व्याज से दिखलाने वाले, जो भय रूपी उद्यान को दग्ध करते हैं, और तीनों संसार को प्रकाश करते हैं, तथा लाखों प्रकार से लक्ष्मी को देते हैं, ऐसे जिनेश्वर देव को नमस्कार करके श्रीमन् देवेन्द्र के शिष्य सब शास्त्ररूपी समुद्र में पारंगत श्रीमान् हमप्रभ सूर्य वर्ष काण्ड को स्मरण करते हैं ॥ १११०-१११३ ॥

सेतिका तथा पल्लियों की मानसंख्या को सम्प्रति जानकर बहुत अर्ध काण्ड में तथ्य शास्त्र को करते हैं, ॥ १११४ ॥

एक दिनार्ध के मध्य में होने पर भी घटिकार्ध का कारण होता है, जोन सौ साठ खरीदने योग्य वस्तु को मूल्य निश्चय करने के लिये चैत्र में जो प्रधान अर्ध होता है, उस प्रतिपण्यार्ध को प्रतिदिन हठान् ग्रहण करते हैं ॥ १११५-१११६ ॥

1. दूरेणैव for द्वारेणैव A. 2. भयो० for भयो० A. A².
3. सति० for सेति० Bh. 4. नव्यं for तथ्य A. 5. प्रातभं चापि for प्रसभं वापि A.

त्रिशतषष्टिपण्यानां चतुर्भेदवतामपि ।

प्रत्येकं गणितादीनां चैत्रार्धेणैव निश्चयः ॥ १११७ ॥

वाणीदेवीप्रसादाच्च गुरोः शुद्धोपदेशतः ।

सत्यो भवति शास्त्रार्थो नु भवन्नेव निश्चयः ॥ १११८ ॥

वक्रं याति ग्रहः कश्चिदश्विनाषाढयोर्यदि ।

कर्कतोऽलिनि संक्रान्तौ कर्कतुलार्धसंभवः । १११९ ॥

मृगशित्रा धनिष्ठा च पुनर्वसू च वासवम् ।

शतारख्यं चाग्निदेवं च पञ्चत्रिंशच्छतं भवेत् ॥ ११२० ॥

अश्विनी भरणी कर्णा स्वातिश्च नवतिः पुनः ।

विशाखा रोहिण पौष्णं शतं सार्द्धं बुधैः स्मृतम् ॥ ११२१ ॥

आर्द्रानुराधिकाधिष्यशतं¹ विंशतिमिश्रितम् ।

अधिकं पञ्चसप्तत्या पुष्यं हस्तं शतं स्मृतम् ॥ ११२२ ॥

तीन सौ साठ पर्यो का तथा उस के चारों भेदों का प्रत्येक के गणितादि का विचार चैत्रार्ध से ही निश्चित होता है ॥ १११७ ॥

सरस्वती देवी की प्रसन्नता से तथा गुरु के शुद्धोपदेश से अर्धे शास्त्र निश्चय सत्य होता है ॥ १११८ ॥

आश्विन, आषाढ़, में तुल, कर्क के संक्रान्ति में कोई ग्रह वक्री हो तो कर्क तुला का अर्ध संभव होता है ॥ १११९ ॥

मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, पुनर्वसु, धनिष्ठा, शतभिषा, कृत्तिका इन नक्षत्रों की एक सौ पैंतीस संख्या होती है ॥ ११२० ॥

अश्विनी, भरणी, श्रवणा, स्वाति, इन नक्षत्रों की ६० संख्या होती है, विशाखा, रोहिणी, रेवती, इन नक्षत्रों की १५० संख्या होती है ॥ ११२१ ॥

अनुराधा, आर्द्रा, में १२० संख्या, और तथा हस्त, नक्षत्र में १७५ संख्या होती है, ॥ ११२२ ॥

I. आर्द्रानुराधाधिष्यं च for आर्द्रानुराधिकाधिष्य A. A¹.

शतं च भवत्यश्लेषा पञ्चनवतिपूरितम् ।
एकादशाधिकान्यत्र मघानवशतानि च ॥ ११२३ ॥
सप्तदशाधिकं चात्र शतद्वयं च फाल्गुनी ।
द्वे तु भद्रपदे चैवमेतदक्षचतुष्टयम् ॥११२४॥
पूर्वाषाढाशते द्वे च पञ्चाशदधिके मते ।
द्वे शते ऽप्युत्तराषाढा पञ्चपञ्चाशदुत्तरे ॥ ११२५ ॥
मूले षष्टिर्भवेदेवं धिष्ण्यसंख्या प्रकीर्तिता^१ ।
षण्णवतिशतान्यष्टौ चतुस्सहस्रपिण्डकः ॥ ११२६ ॥
नक्षत्रसंख्यापिण्डः ४८९६
सिंहधनुर्घटाः सर्वे नवतिसंख्यका मताः ।
शतसंख्यो भवेत्कर्कस्त्वेकविंशतिमिश्रितः ॥ ११२७ ॥
पञ्चोत्तरशतं शेषा मेषादय उदाहृताः ।
द्वादशैव शतान्यत्राप्येकत्रिंशद् युतानि च ॥ ११२८ ॥
१२३१ सवराशिसंख्यापिण्डः कथितः ।
प्रत्येकं खलु खेटानां संख्यां ब्रवीमि शाश्वतीम् ।

अश्लेषा नक्षत्र में १६५ संख्या, और मघा में ६११ संख्या होती है ॥ ११२३ ॥

पूर्वफाल्गुनी, उत्तरफाल्गुनी, नक्षत्र में २१७ और पूर्वभाद्र, उत्तर भाद्र नक्षत्र में २ संख्या होती हैं यह नक्षत्रचतुष्टय होता है ॥ ११२४ ॥

पूर्वषाढ़ नक्षत्र में २५० और उत्तराषाढ़ नक्षत्र में २५५ संख्या होती है ॥ ११२५ ॥

मूल नक्षत्र में साठ होता है इस प्रकार नक्षत्रों की संख्या कही, इस प्रकार नक्षत्र संख्या पिण्ड ४८६६ होता है ॥ ११२६ ॥

सिंह, धनुष, कुम्भ में ७० संख्या, कर्क में १२१, संख्या होती है ॥ ११२७ ॥

और शेष मेषादिक राशियों की १०५ संख्या, सब को मिला कर १२३१ संख्या पिण्ड होता है ॥ ११२८ ॥

चन्द्रे बुधे कुजः षष्टिः पञ्चत्रिंशच्छतं रविः ॥ ११२९ ॥

गुरुश्च पञ्च पञ्चाशत् शुक्रोऽपि पञ्चसप्ततिः ।

पञ्चषष्टिः शनिर्वाच्यो राहुर्नवतिसंख्यकः ॥ ११३० ॥

ष शतान्यत्र जायन्ते ग्रहाः सर्वेऽपि पिण्डिताः ।

ग्रहनक्षत्रराशीनां संख्यां संकल्य^१ चैकतः ॥११३१ ॥

गुणितं ग्रहसंख्येन स्थाप्यं राशिद्वयं पृथक् ।

अधोराशेस्ततो भागं गृहीयाच्चैत्रजार्धतः ॥ ११३२ ॥

यत्तत्र जायते लब्धं भसख्यां तत्र निक्षिपेत् ।

मेलयित्वा च तां संख्यां भागं गृहीत तत्क्षणात् ॥ ११३३ ॥

उपरिभे^४ धृते राशौ सम्यगङ्कप्रवर्तनैः ।

यत्तत्र च भवेत्लब्धं संस्थाप्यं तदुपर्यधः ॥११३४॥

ग्रहाङ्कैर्भाजितैर्लब्धमुपरि पूर्ववत् क्षिपेत् ।

न्यस्ते च जायते योङ्कस्तावत्यः सेतिका मिताः ॥११३५ ॥

प्रत्येक ग्रहों की संख्या को मैं कहता हूँ, चन्द्रमा, बुध, मंगल, इन ग्रहों की ६० संख्या, और रवि की १३५, संख्या होती है ॥११२९॥

गुरु की ५५ संख्या, और शुक्र की ७५, शनि की ६५, तथा राहु की ६० संख्या होती है ॥ ११३० ॥

इन ग्रहों की संख्या को एकत्र कर ६०० पिण्ड होता है, मह, नक्षत्र, राशि, इन की संख्या को एक जगह इकट्ठा करके ॥ ११३१ ॥

उसको मह का संख्या से गुणन कर पृथक् २ दो जगह स्थापित करें, उस में से आधी राशि को चैत्रजार्ध से भाग दें ॥ ११३२ ॥

जो लब्धि हो उस में नक्षत्र की संख्या को जोर दें। उस भाग को लेकर ऊपर स्थापित अङ्क में मिला कर जो हो उसको ऊपर में उस से नीचे स्थापित करें ॥ ११३३-११३४ ॥

उस को मह की संख्या से भाग दें लब्धि जो हो उस को पूर्ववत् भ संख्या में जोप करके न्यास करने पर जो अंक आवे उतने ही सेतिका का प्रमाण होता है ॥ ११३५ ॥

1. पञ्चत्रिंशत्तमा Bh. 2. संमील्य for संकल्य A. 3. मील-यित्वा for मेलयित्वा A. 4. उपरि मिते for उपरि भे Bh. 5. समुगेक प्रवर्तनैः A.

चतुर्भक्ते ततो जाताः माणकाः कणसंग्रहे ।

घृते धान्ये तिले तैले दृष्टिभाण्डे सुगन्धिकम् ॥ ११३६ ॥

अनेनैव क्रमेणात्र सर्वेषामर्घनिश्चयः ।

त्रिगुणश्च भवेदर्घोऽप्युच्चैर्वक्त्रे च खेचरे ॥ ११३७ ॥

गेहे मित्रे स्वके चांशे द्विगुणोऽर्घो ध्रुवं मतः ।

शनौ नीचे तथा पापे तदंशेऽपि ग्रहे सति ॥ ११३८ ॥

लब्धार्घस्य बुधैर्हेयं चार्द्धमर्घपरीक्षणम् ।

शेषेषु च यथासंख्यं तथैवार्घं विनिर्दिशेत् ॥ ११३९ ॥

क्षयवृद्धिद्वयं कृत्वा ऽर्घं न्यस्य स्थानयोर्द्वयोः ।

चतुर्युगमे चतुर्भागं लब्धं क्षिपेत्तथोपरि ॥ ११४० ॥

उस को चार से भाग देवें तो कण संग्रह में, घृत, धान्य, तिल, तैल, भ.एड, सुगन्धित द्रव्य, इत्यादि का परिमाण हो जायगा ॥११३६॥

इस क्रम से सब का अर्घं निश्चय होता है, यदि ग्रह उस का हो बक्री हो तो अर्घं त्रिगुण होता है ॥ ११३७ ॥

यदि मित्र के घर में या अपने घर में वा मित्र तथा अपनी नवमांश ग्रह हो तो द्विगुण अर्घं होता है ।

यदि शनि तथा अन्य पापग्रह नीच में हो या उसके अंश में हो या शत्रु आदि के घर में हो तो पंडित लोग लब्धार्घ में आधा घटा देवें । इस प्रकार शेष का भी यथा संख्या पर से अर्घं का निश्चय करें ॥११३८-११३९॥

इस प्रकार क्षय वृद्धि करके दो स्थानों में अर्घं को स्थापित करें और उसको चार से भाग देकर लब्धि को उपर में फिर खेप करें ॥११४०॥

1. गण for कण Bh. 2. चैव for तैले Bh. 3. दृष्टे for दृष्टि Bh. 4. ंशो for ंशो Bh. 5. मय० for ंमर्घ Bh. 6. ंवार्ध for ंवार्ध Bh.

मरण्यादिचतुष्कं च आर्द्रादिषु चतुष्टयम् ।

मेघाद्याः पञ्चधिष्ण्यास्तु स्वातित्रिकेन्द्रपञ्चकम् ॥११४१॥

घनिष्ठाद्यं ततः षट्कं चैवं मसप्तविंशतिः ।

पञ्चवेदेन भागोऽपि गृह्यतेऽधमराशितः ॥ ११४२ ॥

यत्तत्रापि पुनर्लब्धं राशिस्तु शोध्यते ततः ।

त्रिषट्केन च गृहीत तिस्रः संख्यास्त्रधाधमे ॥ ११४३ ॥

गृहीत्वा तु पुनर्लब्धं राशिवुपरि भे न्यसेत् ।

उदयास्तमने वक्रे ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ॥ ११४४ ॥

ग्रहयुद्धे राशिसंक्रान्तौ कर्णार्धस्त्वेष^१ जायते ।

आदित्येनात्र पूर्णार्धः स्वदेशे चैव लभ्यते ॥ ११४५ ॥

चन्द्रेण तु परे देशे शुक्रणापि स्वमण्डले ।

पूर्वेणास्तमितः शुक्रः पश्चिमस्यामुदेति चेत् ॥ ११४६ ॥

भरणी आदि के चार नक्षत्र, तथा आर्द्रा आदि के चार, मघा आदि के पांच नक्षत्र, स्वाती आदि के तीन, ज्येष्ठा आदि के पांच नक्षत्र ॥११४१॥

घनिष्ठा आदि के छः नक्षत्र इस प्रकार सत्ताईस नक्षत्र हुए, पांच चार का अधम राशि से भाग लेने पर जो वहां लब्ध हो उस राशि को घटा देते हैं, फिर तीन छः से भाग लेने पर तीन संख्या अधमाधम राशि में ग्रहण करते हैं ॥११४२-११४३॥

उस लब्ध राशि को उपर के नक्षत्र में न्यास करें, ग्रहों के उदय अस्त, तथा वक्र में और चन्द्र सूर्य का ग्रहण में ॥११४४॥

ग्रह युद्ध से राशि संक्रान्ति में यह कर्णार्ध होता है, सूर्य से स्वदेश में ही पूर्णार्ध लाभ होता है ॥१०४५॥

चन्द्रमा से अन्य देश में और शुक्र से भी अपने देश में, यां; पूर्व में अस्त होकर पश्चिम में उदित हो तो ॥११४६॥

1. कर्णार्ध० for कर्णार्ध Bh. 2. ऽषु for ऽष Bh.

स्वातित्रिके निजं भागं शोधयत्यर्थपद्धतौ ।

अस्तमितः प्रतीच्यां चेदुदेति पूर्वतः पुनः ११४७ ॥

तदा पञ्चसु ज्येष्ठादौ पञ्चमं भागकं क्षिपेत् ।

यावन्तो ग्रहयोगास्ते तावत्संख्याः पृथक् पृथक् ।

गुणाकारो भवेत्तावान् भागाहारोऽपि तादृशः ॥ ११४८ ॥

इत्यर्धकाण्डम्

उदिताद्या ग्रहा यत्र धिष्ण्ये तिष्ठन्ति संस्थिताः ।

तन्नक्षत्रतद्देशेश्च संख्यां संमीलय तावतीम् ॥ ११४९ ॥

हन्तव्या तद्ग्रहेणैव द्विस्थं राशिं ततः कुरु ।

द्विस्थस्याधः स्थितं राशिं चैत्रार्धेण तु तं भजेत् ॥ ११५० ॥

यल्लब्धं तेन खेटेन त्वेकीकृत्यापि मूलके ।

पिण्डे भागस्तु हर्तव्यो लब्धमर्धस्ततो भवेत् ॥ ११५१ ॥

स्वाती त्रिक नक्षत्र में अपने भाग को घटायें, यदि पश्चिम में अस्त होकर पूर्व में उदित हो तो ज्येष्ठा आदि के पांच नक्षत्र में पञ्चम भाग को छेप करें ।

जितने संख्यक ग्रह योग हों उतने संख्यक पृथक् पृथक् गुणाक या भागहार भी होते हैं ॥११४७-११४८ ॥

इत्यर्धकाण्डम्

उदितादि ग्रह जिस राशि और नक्षत्र में हों उस राशि नक्षत्र की संख्या को एकत्र करें ॥११४९॥

उसको उस ग्रह की संख्या से गुणा कर दो जगह स्थापित करें उसमें अधःस्थित राशि को चैत्रार्ध से भाग दें ॥११५०॥

जो लब्ध हो उसमें ग्रह को मिलाकर फिर पिण्ड में भाग दें तो लब्ध अर्ध होगा ॥११५१॥

1. चैत्रार्धेण for चैत्रार्धेण Bh. 2. तां for तं Bh.

ये लब्धा सितिकाः शेषं चतुर्गुण्यं हृतं ततः ।

तेनैव पूर्वभागेन भक्तेन माणकाः पुनः ॥ ११५२ ॥

यच्छेषं तच्चतुर्गुण्यं तेन भागेन पल्लिका ।

ततोऽपि मूललब्धार्धं द्विधा कृत्वा पुनर्भजेत् ॥ ११५३ ॥

त्रिकवेदशराश्चैव लब्धमुपरि भे क्षिपेत् ।

तल्लब्धं सेतिकामध्ये वक्रश्चेत् त्रिगुणं क्षिपेत् ॥ ११५४ ॥

स्वगेहे मित्रगेहे च द्विगुणमेव विन्यसेत् ।

शत्रौ पापे च नीचे च लब्ध्वार्धं तत्र पातयेत् ॥ ११५५ ॥

संगुण्यभागकैः शेषं लब्धं च माणकास्ततः ।

श्रीमद्देमप्रभेणैवं वर्तिनी दर्शिता स्वयम् ॥ ११५६ ॥

श्रीमद्देवेन्द्रशिष्यश्रीहेमप्रभसूरिविरचितमर्धकाण्डम् ।

लब्ध सेतिका हुआ शेष को चार से गुणा कर उसी पूर्ण के भाजक से भाग दे तो माणक हो जायगा ॥११५२॥

तब जो शेष बचे उसको चार से गुणा कर उसी से फिर भाग दे तो पल्लिका होगी, तो भी मूल लब्धार्ध को दो जगह स्थापित करके फिर उस भाजक से भाग दें तीन, चार, पांच लब्ध के उपर के नक्षत्रों जोड़ दें. तब जो लब्ध हो वह सेतिका में यदि वक्र हो तो त्रिगुणित रूप करें ॥११५३-११५४॥

यदि अपने घर में या मित्र के घर में हो तो द्विगुण न्यास करें और शत्रु या पाप के घर में या नीचे में हो तो लब्धार्ध में आधा घटा दें ॥११५५॥

उसको चार से गुणा कर भाजक से भाग दें तो माणक होता है यह प्रकार श्रीमान् हेमप्रभसूरि ने स्वयं दिखाया है ॥११५६॥

इति श्री मद्देवेन्द्र शिष्य श्रीहेमप्रभसूरिविरचितमर्धकाण्डम् ।

1. सेतिका: for सितिका: Bh. 2. भक्तेन बनका: for भक्तेन माणका: Bh. 3. लब्धस्वपरिनि for लब्धमुपरि भे Bh. 4. पर for मित्र Bh. 5. द्विगुणेनैव for द्विगुणमेव A.

घने चक्रं यदा खेटाः कुर्वन्ति मिलिता घनाः ।
तदा धान्यमहर्षं स्यात्सर्वं पण्यौघमभ्यतः ॥११५७॥
रणे वक्रं यदा यान्ति सर्वेऽपि मिलिता ग्रहाः ।
तदा धान्यं समर्षं स्यात् जायते भुवि वै मतम् ॥११५८॥
अपात्रदानतोऽपुण्यं पुण्यं सत्पात्रदानतः ।
इत्यपात्रे न दातव्यमर्षकाण्डमहोदयम् ॥११५९॥
प्रतिमास्वल्पदेवानां यावन्तः परिमाणवः ॥
तावद्युगसहस्राणि कर्तुर्भोगभुजः फलम् ॥११६०॥

इति त्रैलोक्यप्रकाशो ग्रन्थः समाप्तः ॥

यदि घन में सब ग्रह मिलकर एकत्रित हो जाय तो सब धान्य महर्षं होता है ॥११५७॥

यदि रण में सब ग्रह मिलकर बक्री हो जाय तो पृथ्वी पर सब धान्य महर्षं होता है ॥११५८॥

अपात्र को दान देने से पाप होता है और सत्पात्र को दान देने से पुण्य होता है, इसलिये अपात्र को महान् उदयवाला अर्ष काण्ड नहीं देना चाहिये ॥११५९॥

सब देवताओं की जितनी मूर्तियां हैं उतने सहस्र महायुग पर्यन्त महान् सुख को भोग करने के लिये पात्र को यह देना चाहिये ॥११६०॥

इति त्रैलोक्यप्रकाशो ग्रन्थः समाप्तः ।



